

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 25] नई दिल्ली, शनिवार, जून 24—जून 30, 2017 (आषाढ़ 3, 1939)

No. 25] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 24—JUNE 30, 2017 (ASADHA 3, 1939)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 24 जून 2017

वायु शाखा

सं. 110, दिनांक 28 अप्रैल 2017—राष्ट्रपति, वा से आ 59/98 के प्रावधानों के तहत 194 पायलट पाठ्यक्रम के निम्नलिखित अफसरों को उनके नाम के सामने दर्शाई तारीखों से फ्लाईंग अफसर के रैंक में स्थायी कमीशन (परखाधीन) और विंग्स प्रदान किये जाने की तारीख अर्थात् 20 दिसम्बर 14 से फ्लाईंग वेतन के पात्र हैं।

भारतीय वायु सेना

फ्लाईंग (पायलट) शाखा

पूर्व फ्लाईंग कैडेट से फ्लाईंग अफसर के रैंक में।

फ्लाईंग अफसर पंकज कुमार नान्दल (34110) —20 दिसम्बर 14 से प्रभावी।

राष्ट्रपति वायु सेना आदेश 59/98 के प्रावधानों के अंतर्गत निम्नलिखित अफसरों को प्राप्त अस्थायी अल्पकालिक सेवा कमीशन समाप्त करते हैं और उन्हें फ्लाईंग अफसर के रैंक में उनके नाम के सामने दी गई तारीख से स्थायी कमीशन (परिवीक्षाधीन) प्रदान करते हैं।

भारतीय वायु सेना

यू/टी अफसर से फ्लाईंग अफसर के रैंक में

मौसम—विज्ञान शाखा

फ्लाईंग अफसर सेल्जिन मैथ्यू (34743), इलेवरसन के (34744) 20 जून 2015 से प्रभावी

राष्ट्रपति वायु सेना आदेश 59/98 के प्रावधानों के अंतर्गत निम्नलिखित अफसर को प्राप्त अस्थायी अल्पकालिक सेवा कमीशन समाप्त करते हैं और उन्हें फ्लाईंग अफसर के रैंक में उनके नाम के सामने दी गई तारीख से स्थायी कमीशन (परिवीक्षाधीन) प्रदान करते हैं:-

भारतीय वायु सेना

यू/टी अफसर से फ्लाईंग अफसर के रैंक में

मौसम—विज्ञान शाखा

फ्लाईंग अफसर आर अरुण (33838) —20 दिसम्बर 2014 से प्रभावी

राष्ट्रपति वायु सेना आदेश 59/98 के प्रावधानों के अंतर्गत निम्नलिखित अफसरों को प्राप्त अस्थायी अल्पकालिक सेवा कमीशन समाप्त करते हैं और उन्हें फ्लाईंग अफसर के रैंक में उनके नाम के सामने दी गई तारीख से स्थायी कमीशन (परिवीक्षाधीन) प्रदान करते हैं।

भारतीय वायु सेना

यू/टी अफसर से फ्लाईंग अफसर के रैंक में

मौसम—विज्ञान शाखा

फ्लाईंग अफसर अभिषेक (33434), मल्लेला महेश (33435), अभय प्रताप सिंह चंदेल (33436), अभिमन्यु उज्जवल (33437), गुरजिन्दर सिंह (33438), झा आशीष कुमार (33439), राकेश चन्द्र शर्मा (33440) — 21 जून 14 से प्रभावी

फ्लाईंग अफसर हरजोत सिंह विरदी (33116), अमोल तत्यासो जाधव (33117), रानेले किरण अरुण (33118), रविचन्द्रन आर (33119),—14 दिसम्बर 14 से प्रभावी

फ्लाईंग अफसर रवि रोहाज (32720), रघुल आर (32721), —22 जून 13 से प्रभावी

राष्ट्रपति वायु सेना आदेश 59/98 के प्रावधानों के अंतर्गत निम्नलिखित यू/टी अफसरों को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से अस्थायी अल्पकालिक सेवा कमीशन प्रदान करते हैं।

भारतीय वायु सेना

मौसम—विज्ञान शाखा

फ्लाईंग अफसर अभिषेक (32719), रवि रोहाज (32720), रघुल आर (32721), 09 जुलाई 12 से प्रभावी

फ्लाईंग अफसर हरजोत सिंह विरदी (33116), अमोल तत्यासो जाधव (33117), रानेले किरण अरुण (33118), रविचन्द्रन आर (33119) —07 जनवरी 13 से प्रभावी

फ्लाईंग अफसर अभिषेक (33434), मल्लेला महेश (33435), अभय प्रताप सिंह चंदेल (33436), अभिमन्यु उज्जवल (33437), गुरजिन्दर सिंह (33438), झा आशीष कुमार (33439), राकेश चन्द्र शर्मा (33440) —01 जुलाई 13 से प्रभावी

फ्लाईंग अफसर आर अरुण (33838) —06 जनवरी 2014 से प्रभावी

फ्लाईंग अफसर सेल्जिन मैथ्यू (34743), इलेवरसन के (34744) —07 जुलाई 14 से प्रभावी

राष्ट्रपति भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के दिनांक 23 अप्रैल 01 के पत्रांक वा से मु/एस 24745/4/पी पी (ओ)/पी सी-I/184/डी एस/डी(वायु- III) के प्रावधानों के अंतर्गत 25 एस एस सी (एम) जी डी ओ सी के निम्नलिखित यू/टी अफसर को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से अस्थायी अल्पकालिक सेवा कमीशन प्रदान करते हैं।

भारतीय वायु सेना

मौसम—विज्ञान शाखा

फ्लाईंग अफसर नीरज कुमार (32722)—09 जुलाई 12 से प्रभावी

राष्ट्रपति भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के दिनांक 23 अप्रैल 01 के पत्रांक वा से मु/एस 24745/4/पी पी (ओ)/पी सी-I/184/डी एस/डी(वायु- III) के प्रावधानों के अंतर्गत 25 एस एस सी (एम) जी डी ओ सी के निम्नलिखित यू/टी अफसर को

प्राप्त अस्थायी अल्पकालिक सेवा कमीशन समाप्त करते हैं और उन्हें उनके नाम के सामने दी गई तारीख से अल्पकालिक सेवा कमीशन (परिवीक्षाधीन) प्रदान करते हैं।

भारतीय वायु सेना

यू/टी अफसरसे फ्लाईंग अफसर के रैंक पर

मौसम—विज्ञान शाखा

फ्लाईंग अफसर नीरज कुमार (32722) —22 जून 13 से प्रभावी

राष्ट्रपति भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के दिनांक 23 अप्रैल 01 के पत्रांक वा से मु/एस 24745/4/पी पी (ओ)/पी सी-I/184/डी एस/डी(वायु- III) के प्रावधानों के अंतर्गत 26 एस एस सी (एम) जी डी ओ सी के निम्नलिखित यू/टी अफसर को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से अस्थायी अल्पकालिक सेवा कमीशन प्रदान करते हैं।

भारतीय वायु सेना

मौसम—विज्ञान शाखा

फ्लाईंग अफसर नायर जेम्स रघु (33120),—07 जनवरी 13 से प्रभावी

राष्ट्रपति भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के दिनांक 23 अप्रैल 01 के पत्रांक वा से मु/एस 24745/4/पी पी (ओ)/पी सी-I/184/डी एस/डी(वायु- III) के प्रावधानों के अंतर्गत 26 एस एस सी (एम) जी डी ओ सी के निम्नलिखित यू/टी अफसर को प्राप्त अस्थायी अल्पकालिक सेवा कमीशन समाप्त करते हैं और उन्हें उनके नाम के सामने दी गई तारीख से अल्पकालिक सेवा कमीशन (परिवीक्षाधीन) प्रदान करते हैं।

भारतीय वायु सेना

यू/टी अफसर से फ्लाईंग अफसर के रैंक पर

मौसम—विज्ञान शाखा

फ्लाईंग अफसर नायर जेम्स रघु (33120), —14 दिसम्बर 13 से प्रभावी

राष्ट्रपति भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के दिनांक 23 अप्रैल 01 के पत्रांक वा से मु/एस 24745/4/पी पी (ओ)/पी सी-I/184/डी एस/डी(वायु- III) के प्रावधानों के अंतर्गत 41 एस एस सी (डब्ल्यू) जी डी ओ सी के निम्नलिखित यू/टी अफसरों को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से अस्थायी अल्पकालिक सेवा कमीशन प्रदान करते हैं।

भारतीय वायु सेना

मौसम—विज्ञान शाखा

फ्लाईंग अफसर दीप्ति (32723), चेष्टा शंकर (32724), —09 जुलाई 12 से प्रभावी

राष्ट्रपति भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के दिनांक 23 अप्रैल 01 के पत्रांक वा से मु/एस 24745/4/पी पी (ओ)/पी सी-I/184/डी एस/डी(वायु-III) के प्रावधानों के अंतर्गत 41 एस एस सी (डब्ल्यू) जी डी ओ सी के निम्नलिखित यू/टी अफसरों को प्राप्त अस्थायी अल्पकालिक सेवा कमीशन समाप्त करते हैं और उन्हें उनके नाम के सामने दी गई तारीख से अल्पकालिक सेवा कमीशन (परिवीक्षाधीन) प्रदान करते हैं।

भारतीय वायु सेना

यू/टी अफसर से फ्लाईंग अफसर के रैंक पर

मौसम—विज्ञान शाखा

फ्लाईंग अफसर दीप्ति (32723), चेष्टा शंकर (32724) —22 जून 13 से प्रभावी

राष्ट्रपति भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्रांक वा से मु/एस 24745/4/पी पी (ओ)/पी सी-I/184/डी एस/डी(वायु-III) दिनांक 23 अप्रैल 01 के प्रावधानों के अंतर्गत निम्नलिखित यू/टी अफसरों को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से अस्थायी अल्पकालिक सेवा कमीशन प्रदान करते हैं।

भारतीय वायु सेना

मौसम—विज्ञान शाखा

फ्लाईंग अफसर दीप्ति शर्मा (33121), रेणू कुमारी (33122) —07 जनवरी 13 से प्रभावी

राष्ट्रपति भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्रांक वा से मु/एस 24745/4/पी पी (ओ)/पी सी-I/184/डी एस/डी(वायु- III) दिनांक 23 अप्रैल 01 के प्रावधानों के अंतर्गत निम्नलिखित यू/टी अफसरों को प्राप्त अस्थायी अल्पकालिक सेवा कमीशन समाप्त करते हैं और उन्हें उनके नाम के सामने दी गई तारीख से अल्पकालिक सेवा कमीशन (परिवीक्षाधीन) प्रदान करते हैं।

भारतीय वायु सेना

यू/टी अफसर से फ्लाईंग अफसर के रैंक में

मौसम—विज्ञान शाखा

फ्लाईंग अफसर दीप्ति शर्मा (33121), रेणूकुमारी (33122), —14 दिसम्बर 13 से प्रभावी

राष्ट्रपति भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्रांक वा से मु/एस 24745/4/पी पी (ओ)/पी सी-I/184/डी एस/डी(वायु- III) दिनांक 23 अप्रैल 01 के प्रावधानों के अंतर्गत निम्नलिखित यू/टी अफसरों को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से अस्थायी अल्पकालिक सेवा कमीशन प्रदान करते हैं।

भारतीय वायु सेना

मौसम—विज्ञान शाखा

फ्लाईंग अफसर भारतीय तिवारी (33441), शर्मा सृष्टि एस (33442), उत्तरा अन्वेकर (33443), नेहा सिंह (33445), जॉली गोस्वामी (33446) —01 जुलाई 13 से प्रभावी।

रॉबिन शर्मा (33460) —08 जुलाई 13 से प्रभावी

राष्ट्रपति भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्रांक वा से मु/एस 24745/4/पी पी (ओ)/पी सी-I/184/डी एस/डी(वायु- III) दिनांक 23 अप्रैल 01 के प्रावधानों के अंतर्गत निम्नलिखित यू/टी अफसरों को प्राप्त अस्थायी अल्पकालिक सेवा कमीशन समाप्त करते हैं और उन्हें उनके नाम के सामने दी गई तारीख से अल्पकालिक सेवा कमीशन (परिवीक्षाधीन) प्रदान करते हैं।

भारतीय वायु सेना

यू/टी अफसर से फ्लाईंग अफसर के रैंक पर

मौसम—विज्ञान शाखा

फ्लाईंग अफसर भारतीय तिवारी (33441), शर्मा सृष्टि एस (33442), उत्तरा अन्वेकर (33443), नेहा सिंह (33445), जॉली गोस्वामी (33446) रॉबिन शर्मा (33460)—21 जून 14 से प्रभावी

राष्ट्रपति भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के दिनांक पत्रांक वा से मु/एस 24745/4/पी पी (ओ)/पी सी-I/184/डी एस/डी(वायु- III) दिनांक 23 अप्रैल 01 के प्रावधानों के अंतर्गत निम्नलिखित यू/टी अफसरों को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से अस्थायी अल्पकालिक सेवा कमीशन प्रदान करते हैं।

भारतीय वायु सेना

मौसम—विज्ञान शाखा

फ्लाईंग अफसर अदिति (33839), निधि चौहान (33840) 06 जनवरी 14 से प्रभावी

राष्ट्रपति भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्रांक वा से मु/एस 24745/4/पी पी (ओ)/पी सी-I/184/डी एस/डी(वायु- III) दिनांक 23 अप्रैल 01 के प्रावधानों के अंतर्गत निम्नलिखित यू/टी अफसर को प्राप्त अस्थायी अल्पकालिक सेवा कमीशन समाप्त करते हैं और उन्हें उनके नाम के सामने दी गई तारीख से अल्पकालिक सेवा कमीशन (परिवीक्षाधीन) प्रदान करते हैं।

भारतीय वायु सेना

यू/टी अफसर से फ्लाईंग अफसर के रैंक में

मौसम—विज्ञान शाखा

फ्लाईंग अफसर अदिति (33839), निधि चौहान (33840) —20 दिसम्बर 14 से प्रभावी

राष्ट्रपति भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्रांक वा से मु/एस 24745/4/पी पी (ओ)/पी सी-I/184/डी एस/डी(वायु-III) दिनांक 23 अप्रैल 01 के प्रावधानों के अंतर्गत निम्नलिखित यू/टी अफसर को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से अस्थायी अल्पकालिक सेवा कमीशन प्रदान करते हैं।

भारतीय वायु सेना

मौसम—विज्ञान शाखा

फ्लाईंग अफसर भावना वर्मा (34745) —07 जुलाई से प्रभावी

राष्ट्रपति भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्रांक वा से मु/एस 24745/4/पी पी (ओ)/पी सी-I/184/डी एस/डी(वायु- III) दिनांक 23 अप्रैल 01 के प्रावधानों के अंतर्गत निम्नलिखित यू/टी अफसरों को प्राप्त अस्थायी अल्पकालिक सेवा कमीशन समाप्त करते हैं और उन्हें उनके नाम के सामने दी गई तारीख से अल्पकालिक सेवा कमीशन (परिवीक्षाधीन) प्रदान करते हैं।

भारतीय वायु सेना

यू/टी अफसर से फ्लाईंग अफसर के रैंक में

मौसम—विज्ञान शाखा

फ्लाईंग अफसर भावना वर्मा (34745) — 20 जून 15 से प्रभावी

राष्ट्रपति, भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. वा से आ/24745/4/पी पी (ओ)/पी सी-I/184/डी एस/डी (वायु-III) तारीख 23 अप्रैल 2001 के प्रावधानों के तहत 194/14टी /एस एस सी के निम्नलिखित अफसर को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से फ्लाईंग अफसर के रैंक में अस्थायी अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते हैं।

भारतीय वायु सेना

वैमानिक इंजीनियरी (इलैक्ट्रॉनिक्स)

फ्लाईंग अफसर अणिमा बुधौलिया (33797) — 06 जनवरी 14 से प्रभावी।

प्र स सुरंगे

विंग कमांडर

संयुक्त निदेशक कार्मिक अफसर-3 (डी)

सेना सचिव शाखा

सं. 111, दिनांक 1 मई 2017—महामहिम राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं:—

नियमित सेना

स्थायी कमिशन

लेफ्टिनेंट जनरल के मूल रैंक में

आई सी, रैंक, नाम व आर्म	लेफ्टिनेंट जनरल के मूल रैंक की प्रभावी तिथि
आई सी-39283 मेजर जनरल कंवल कुमार, आर्मी अवियशन	01.12.16
आई सी-40098 मेजर जनरल दुष्यन्त सिंह, ए वी एस एम, मराठा लाई	01.12.16
आई सी-40101 मेजर जनरल आर के जग्गा, वी एस एम, आर्म्ड	17.12.16
आई सी-40235 मेजर जनरल आर गोपाल, एस एम, ग्रेन	01.01.17
आई सी-38643 मेजर जनरल आर एस सलारिया, वी एस एम, आर्टि	20.01.17
आई सी-40025 मेजर जनरल गिरि राज सिंह, एस एम, ए ओ सी	25.01.17
आई सी-39996 मेजर जनरल राजीव सभरवाल, वी एस एम, सिग्स	28.01.17
आई सी-39140 मेजर जनरल पी एस जग्गी, ए ए डी	30.01.17
आई सी-39438 मेजर जनरल पी सी थिम्मैया, वी एस एम, मैक इंक	31.01.17 / 01.07.16*
आई सी-39590 मेजर जनरल हरिश ठुकराल, एस एम, सिक्ख लाई	31.01.17 / 01.08.16*
आई सी-39865 मेजर जनरल माइकल मैथ्यूज,, वी एस एम**, इंजीनियर्स	01.02.17

* कल्पित वरिष्ठता

देबाशिस प्रधान
उप निदेशक एम एस (एक्स)

सेना शाखा

सं. 112, दिनांक 2 मई 2017—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारी को सहर्ष पदोन्नति करने की अनुमति प्रदान करते हैं :—

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

लै. कर्नल बनाया जाता है

मेजर प्रगीत कुमार	(टीए-42947)	(इन्फैन्ट्री)	21 जनवरी 2016
मेजर एम एस राठौर	(टीए-42230)	(इन्फैन्ट्री)	03 जून 2015

माधवेन्द्र प्रताप सिंह
अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 113, दिनांक 3 मई 2017—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित नियुक्तियाँ पदोन्नतियाँ करते हैं:—

नियमित सेना

सेना आयुध कोर

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार मेजर	अम्युनेशन तकनीकी	जितेन कलिता	जेसी 725135वाई	01 फरवरी 2016
सूबेदार मेजर	अम्युनेशन तकनीकी	आई धरमालिंगम	जेसी 725254पी	01 फरवरी 2016
सूबेदार मेजर	अम्युनेशन तकनीकी	सरगदा मंगा बाबू	जेसी 725309एन	01 मार्च 2016
सूबेदार मेजर	अम्युनेशन तकनीकी	शिवराम सिंह ख्यालिया	जेसी 725377एफ	01 अप्रैल 2016
सूबेदार मेजर	अम्युनेशन तकनीकी	नत्थू लाल	जेसी 725524वाई	01 मई 2016
सूबेदार मेजर	अम्युनेशन तकनीकी	दुर्गा राम साउ	जेसी 725581ए	01 जुलाई 2016
सूबेदार मेजर	अम्युनेशन तकनीकी	सत्यवीर	जेसी 725676ए	01 सितंबर 2016
सूबेदार मेजर	अम्युनेशन तकनीकी	सुरेन्द्र सिंह	जेसी 725708एक्स	01 नवम्बर 2016
सूबेदार मेजर	कर्लक एस डी	हरिमान सिंह	जेसी 728541के	01 जनवरी 2016
सूबेदार मेजर	कर्लक एस डी	अजंजी कुमार पटेल	जेसी 728688ए	01 जनवरी 2016
सूबेदार मेजर	कर्लक आई एम	प्रभात शर्माह	जेसी 729050ए	01 जनवरी 2016
सूबेदार मेजर	कर्लक आई एम	आर मधु	जेसी 729041वाई	01 फरवरी 2016
सूबेदार मेजर	कर्लक एस डी	आर नरसीमोन	जेसी 728750एफ	01 फरवरी 2016
सूबेदार मेजर	कर्लक आई एम	डोन्डु डीसुजा	जेसी 728757एल	01 अप्रैल 2016
सूबेदार मेजर	कर्लक एस डी	प्रदीप कुमार दास	जेसी 728885एच	01 मई 2016
सूबेदार मेजर	कर्लक आई एम	विक्रम सिंह	जेसी 728928एम	01 जून 2016
सूबेदार मेजर	कर्लक एस डी	शिव दत्त सिंह	जेसी 728983एच	01 जून 2016
सूबेदार मेजर	कर्लक आई एम	बी कासी विश्वनाथम	जेसी 728991एफ	01 जून 2016
सूबेदार मेजर	कर्लक आई एम	महामद दादामिया	जेसी 728992के	13 जून 2016
सूबेदार मेजर	कर्लक एस डी	कान्ता प्रसाद	जेसी 729054डब्ल्यू	01 जुलाई 2016
सूबेदार मेजर	कर्लक आई एम	राधे श्याम शर्मा	जेसी 729119वाई	01 जुलाई 2016
सूबेदार मेजर	कर्लक एस डी	कृष्ण कुमार सिंह	जेसी 729146एच	01 अगस्त 2016
सूबेदार मेजर	कर्लक आई एम	पाटिल विलास बाबू राव	जेसी 729155के	01 अगस्त 2016
सूबेदार मेजर	कर्लक आई एम	के ध्यानेश्वर धोन्डी राम	जेसी 729159ए	01 अगस्त 2016

सूबेदार मेजर	क्लर्क एस डी	हरीश सिंह	जेसी 729303के	01 अगस्त 2016
सूबेदार मेजर	क्लर्क एस डी	चन्द्रकान्त कुमार	जेसी 729304एम	01 अगस्त 2016
सूबेदार मेजर	क्लर्क एस डी	होरी लाल	जेसी 729305पी	01 अगस्त 2016
सूबेदार मेजर	क्लर्क एस डी	सुधीर चन्द्र बैदया	जेसी 729317के	01 सितम्बर 2016
सूबेदार मेजर	क्लर्क एस डी	एन गोपाल हरी राम	जेसी 729319पी	01 सितम्बर 2016
सूबेदार मेजर	क्लर्क आई एम	कुलविन्दर सिंह	जेसी 729428एफ	01 नवम्बर 2016
सूबेदार मेजर	क्लर्क एस डी	रशिक चन्द्र बर्मन	जेसी 729583एच	01 नवम्बर 2016
सूबेदार मेजर	क्लर्क एस डी	जी सेलवम	जेसी 729585एन	01 दिसम्बर 2016
सूबेदार मेजर	क्लर्क एस डी	एस कृष्णा मुर्ती	जेसी 729606वाई	01 दिसम्बर 2016
सूबेदार मेजर	क्लर्क एस डी	रितीश कुमार वीएस	जेसी 729613पी	05 दिसम्बर 2016
सूबेदार मेजर	एस के टी सिग्नल	बी बी बाबू राव मलाका	जेसी 728830वाई	01 जनवरी 2016
सूबेदार मेजर	एस के टी अम्युनेशन	सुधर सिंह	जेसी 728831एफ	01 जनवरी 2016
सूबेदार मेजर	एस के टी सिग्नल	जीवन लाल	जेसी 728843डब्ल्यू	01 जनवरी 2016
सूबेदार मेजर	एस के टी जी एस एंड सी	श्री राम सिंह	जेसी 728901पी	01 फरवरी 2016
सूबेदार मेजर	एस के टी अम्युनेशन	मन्दरूप राम	जेसी 728932पी	01 फरवरी 2016
सूबेदार मेजर	एस के टी जी एस एंड सी	सुरजीत सिंह	जेसी 728943एफ	01 फरवरी 2016
सूबेदार मेजर	एस के टी जी एस एंड सी	सुरेश कुमार सैनी	जेसी 728944के	01 फरवरी 2016
सूबेदार मेजर	एस के टी एमटी	राम मोहन	जेसी 728966एच	01 फरवरी 2016
सूबेदार मेजर	एस के टी जी एस एंड सी	जगन्नाथ प्रसाद शर्मा	जेसी 728997एच	01 मार्च 2016
सूबेदार मेजर	एस के टी जी एस एंड सी	दिनेश सिंह	जेसी 729044एम	01 अप्रैल 2016
सूबेदार मेजर	एस के टी जी एस एंड सी	रशपाल सिंह	जेसी 729003एच	01 मई 2016
सूबेदार मेजर	एस के टी एमटी	तसबीर सिंह	जेसी 729047ए	01 मई 2016
सूबेदार मेजर	एस के टी एमटी	राम पाल	जेसी 729048एच	01 मई 2016
सूबेदार मेजर	एस के टी जी एस एंड सी	यशपाल	जेसी 729075एम	01 जून 2016
सूबेदार मेजर	एस के टी जी एस एंड सी	अलोक कुमार दास	जेसी 729077एक्स	01 जून 2016
सूबेदार मेजर	एस के टी जी एस एंड सी	भवानी शंकरा दास	जेसी 729130एक्स	01 जून 2016
सूबेदार मेजर	एस के टी जी एस एंड सी	बाशुदेव मंडल	जेसी 729192एक्स	01 जून 2016
सूबेदार मेजर	एस के टी जी एस एंड सी	खामकर पंडित बाबू	जेसी 729239एक्स	01 अगस्त 2016
सूबेदार मेजर	एस के टी ईजिनियर	करण सिंह	जेसी 729271एम	01 अगस्त 2016
सूबेदार मेजर	एस के टी वैपन	जाधव सुनिल सदाशिव	जेसी 729326एल	01 सितम्बर 2016
सूबेदार मेजर	एस के टी जी एस एंड सी	लोकेश शहराम	जेसी 729395एफ	01 सितम्बर 2016
सूबेदार मेजर	एस के टी एमटी	राम रत्तन	जेसी 729620एल	01 नवम्बर 2016
सूबेदार मेजर	एस के टी जी एस एंड सी	चाँद सिंह	जेसी 729545एम	01 नवम्बर 2016
सूबेदार मेजर	एस के टी एमटी	सुरज पाल	जेसी 729712एक्स	01 नवम्बर 2016
सूबेदार मेजर	एस एच टी	नन्दकिशोर सिंह यादव	जेसी 729924एच	01 नवम्बर 2016
सूबेदार मेजर	एस एच जी डी	जया राज एस	जेसी 727139एन	01 फरवरी 2016
सूबेदार मेजर	एस एच जी डी	संजय खारा	जेसी 727983डब्ल्यू	01 अप्रैल 2016
सूबेदार मेजर	एस एच जी डी	रामजी मिश्रा	जेसी 729633एच	01 जून 2016
सूबेदार मेजर	एस एच जी डी	शेर सिंह	जेसी 729722एफ	01 जून 2016
सूबेदार मेजर	एस एच जी डी	दलीप सिंह	जेसी 729724एम	01 सितम्बर 2016

सूबेदार मेजर	एस एच जी डी	हैउदा नन्दा स्वाईन	जेसी 729725पी	01 सितम्बर 2016
सूबेदार मेजर	एस एच जी डी	प्रदीप कुमार	जेसी 729747एन	01 अक्टूबर 2016
सूबेदार मेजर	ड्राईवर एमटी	प्रकाश चन्द्रा	जेसी 729744ए	01 सितम्बर 2016
सूबेदार मेजर	टेलर यू	सत्य पाल	जेसी 727416एन	01 फरवरी 2016
सूबेदार मेजर	आर्टिशन वुड वर्क	अमरजीत यादव	जेसी 729551ए	01 मार्च 2016

सूबेदार के रैंक में

सूबेदार	अम्युनेशन तकनीकी	यमुना प्रसाद यादव	जेसी 728731डब्ल्यू	01 जनवरी 2016
सूबेदार	अम्युनेशन तकनीकी	करुणाकरा सेनापथि	जेसी 728632एन	01 जनवरी 2016
सूबेदार	अम्युनेशन तकनीकी	बसंता कुमार मोहालिक	जेसी 728674ए	01 जनवरी 2016
सूबेदार	अम्युनेशन तकनीकी	बैलोचन मोहन्ति	जेसी 728732वाई	01 जनवरी 2016
सूबेदार	अम्युनेशन तकनीकी	दिलीप सिंह तोमर	जेसी 728733एफ	01 जनवरी 2016
सूबेदार	अम्युनेशन तकनीकी	निशीथ कर्माकर	जेसी 728734के	01 जनवरी 2016
सूबेदार	अम्युनेशन तकनीकी	बाबर धनजय शंकर राव	जेसी 728787एच	01 जनवरी 2016
सूबेदार	अम्युनेशन तकनीकी	संतोष कुमार राउत	जेसी 728788एल	01 फरवरी 2016
सूबेदार	अम्युनेशन तकनीकी	प्रदीप कुमार पात्रो	जेसी 728789एन	01 फरवरी 2016
सूबेदार	अम्युनेशन तकनीकी	राजेन्द्र प्रसाद शाव	जेसी 728735एम	01 फरवरी 2016
सूबेदार	अम्युनेशन तकनीकी	मैनुद्दीन अली खान	जेसी 729250डब्ल्यू	01 फरवरी 2016
सूबेदार	अम्युनेशन तकनीकी	बिधु राजन बर्मन	जेसी 729347एफ	01 फरवरी 2016
सूबेदार	अम्युनेशन तकनीकी	कुँज बिहारी साहु	जेसी 729336पी	01 फरवरी 2016
सूबेदार	अम्युनेशन तकनीकी	जया कुमार के	जेसी 729329वाई	01 मार्च 2016
सूबेदार	अम्युनेशन तकनीकी	नरके बाबू राव महादेव	जेसी 729331डब्ल्यू	01 मार्च 2016
सूबेदार	अम्युनेशन तकनीकी	सुजीथ बी	जेसी 729405ए	01 मार्च 2016
सूबेदार	अम्युनेशन तकनीकी	दलजीत सिंह	जेसी 729333एफ	01 मार्च 2016
सूबेदार	अम्युनेशन तकनीकी	जसविन्दर चन्द	जेसी 729334के	01 मार्च 2016
सूबेदार	अम्युनेशन तकनीकी	मनोज कुमार	जेसी 729349एम	01 अप्रैल 2016
सूबेदार	अम्युनेशन तकनीकी	राजेन्द्र प्रसाद जोशी	जेसी 729342एच	01 अप्रैल 2016
सूबेदार	अम्युनेशन तकनीकी	सुम्मेर सिंह	जेसी 729350एफ	01 अप्रैल 2016
सूबेदार	अम्युनेशन तकनीकी	नविन कुमार रावत	जेसी 729351के	01 अप्रैल 2016
सूबेदार	अम्युनेशन तकनीकी	शाजी जेएम	जेसी 729343एल	01 अप्रैल 2016
सूबेदार	अम्युनेशन तकनीकी	राजेन्द्र यादव	जेसी 729344एन	01 अप्रैल 2016
सूबेदार	अम्युनेशन तकनीकी	रबिन्द्र कुमार	जेसी 729345डब्ल्यू	01 अप्रैल 2016
सूबेदार	अम्युनेशन तकनीकी	राकेश सिंह	जेसी 729335एम	01 अप्रैल 2016
सूबेदार	अम्युनेशन तकनीकी	जाधव जयावन्त मधुकर	जेसी 729330एन	01 अप्रैल 2016
सूबेदार	अम्युनेशन तकनीकी	राठोड नरेन्द्र सिंह प्रताप सिंह	जेसी 729352एम	01 अप्रैल 2016
सूबेदार	अम्युनेशन तकनीकी	जगदीश चन्दर	जेसी 729332वाई	01 अप्रैल 2016
सूबेदार	अम्युनेशन तकनीकी	भोसले शिवाजी पान्डूरंग	जेसी 729356एच	01 अप्रैल 2016
सूबेदार	अम्युनेशन तकनीकी	विजय वर्धन राजू	जेसी 729406एच	01 अप्रैल 2016
सूबेदार	अम्युनेशन तकनीकी	के हरीभाउ विठोबा	जेसी 729338ए	01 अप्रैल 2016
सूबेदार	अम्युनेशन तकनीकी	कुम्भार अरुण दिनकर	जेसी 729340एक्स	01 अप्रैल 2016
सूबेदार	अम्युनेशन तकनीकी	जुगल किशोर	जेसी 729357एल	01 अप्रैल 2016
सूबेदार	अम्युनेशन तकनीकी	दरवान सिंह	जेसी 729341ए	01 अप्रैल 2016

सूबेदार	अम्युनेशन तकनीकी	राम सिंह	जेसी 729407एल	01 अप्रैल 2016
सूबेदार	अम्युनेशन तकनीकी	धीरेन चन्द्र सिंघा	जेसी 729358एन	01 अप्रैल 2016
सूबेदार	अम्युनेशन तकनीकी	कदम संतोष गोविन्द	जेसी 729337एक्स	01 मई 2016
सूबेदार	अम्युनेशन तकनीकी	देसाई संजय बलिराम	जेसी 729359डब्ल्यू	01 मई 2016
सूबेदार	अम्युनेशन तकनीकी	अनिल कुमार	जेसी 729360एल	01 मई 2016
सूबेदार	अम्युनेशन तकनीकी	वी कुमरेसन	जेसी 729353पी	01 जून 2016
सूबेदार	अम्युनेशन तकनीकी	राजेश कुमार झा	जेसी 729361एन	01 जून 2016
सूबेदार	अम्युनेशन तकनीकी	राजू पीटी	जेसी 729431एफ	01 जून 2016
सूबेदार	अम्युनेशन तकनीकी	नारुगोपाल गराई	जेसी 728790एच	01 जुलाई 2016
सूबेदार	अम्युनेशन तकनीकी	प्रदीप कुमार मिश्रा	जेसी 729432के	01 जुलाई 2016
सूबेदार	अम्युनेशन तकनीकी	जोनीचन सीके	जेसी 729466एक्स	01 जुलाई 2016
सूबेदार	अम्युनेशन तकनीकी	एन टोन सिंघा	जेसी 729552एच	01 जुलाई 2016
सूबेदार	अम्युनेशन तकनीकी	लोन्डे तुकाराम भीमराव	जेसी 729467ए	01 जुलाई 2016
सूबेदार	अम्युनेशन तकनीकी	पांडव मानीक मारुति	जेसी 729469एल	01 जुलाई 2016
सूबेदार	अम्युनेशन तकनीकी	योगेश लोहानी	जेसी 729470ए	01 जुलाई 2016
सूबेदार	अम्युनेशन तकनीकी	मुकुल भौमिक	जेसी 729471एच	01 जुलाई 2016
सूबेदार	अम्युनेशन तकनीकी	सुरेन्द्र सिंह	जेसी 729472एल	01 जुलाई 2016
सूबेदार	अम्युनेशन तकनीकी	दीप चन्द	जेसी 729473एन	01 अगस्त 2016
सूबेदार	अम्युनेशन तकनीकी	रामजी लाल	जेसी 729474डब्ल्यू	01 सितम्बर 2016
सूबेदार	अम्युनेशन तकनीकी	जोजी जेवियर	जेसी 729475वाई	01 नवम्बर 2016
सूबेदार	अम्युनेशन तकनीकी	संजीव कुमार सीएस	जेसी 729476एफ	01 नवम्बर 2016
सूबेदार	अम्युनेशन तकनीकी	रोहिताश कुमार	जेसी 729477के	01 नवम्बर 2016
सूबेदार	अम्युनेशन तकनीकी	रामवीर सिंह	जेसी 729478एम	01 नवम्बर 2016
सूबेदार	अम्युनेशन तकनीकी	ओम प्रकाश सिंह	जेसी 729479पी	01 दिसम्बर 2016
सूबेदार	अम्युनेशन तकनीकी	श्याम लाल	जेसी 729480के	01 दिसम्बर 2016
सूबेदार	अम्युनेशन तकनीकी	रविन्द्र नाथ मंडल	जेसी 729481एम	01 दिसम्बर 2016
सूबेदार	अम्युनेशन तकनीकी	रविन्द्र कुमार त्रिपाठी	जेसी 729482पी	01 दिसम्बर 2016
सूबेदार	अम्युनेशन तकनीकी	राम बलि सिंह	जेसी 729553एल	01 दिसम्बर 2016
सूबेदार	अम्युनेशन तकनीकी	देसाई मारुति नारायण	जेसी 729483एक्स	01 दिसम्बर 2016
सूबेदार	अम्युनेशन तकनीकी	तपन दास	जेसी 729484ए	01 दिसम्बर 2016
सूबेदार	अम्युनेशन तकनीकी	राजेश कुमार	जेसी 729485एच	01 दिसम्बर 2016
सूबेदार	वर्ल्क एस डी	राजेन्द्र प्रसाद चौधरी	जेसी 730272एफ	01 जनवरी 2016
सूबेदार	वर्ल्क एस डी	मनोज कुमार परीछा	जेसी 730260एम	01 जनवरी 2016
सूबेदार	वर्ल्क एस डी	अशिस कुमार पॉल	जेसी 730261पी	01 जनवरी 2016
सूबेदार	वर्ल्क एस डी	मुरलिधर राउत	जेसी 730262एक्स	01 जनवरी 2016
सूबेदार	वर्ल्क एस डी	किशन सिंह	जेसी 730263ए	01 जनवरी 2016
सूबेदार	वर्ल्क एस डी	वधार्ई सखाराम सम्पत	जेसी 730273के	01 जनवरी 2016
सूबेदार	वर्ल्क एस डी	सवाले संजय सहादु	जेसी 730274एम	01 जनवरी 2016
सूबेदार	वर्ल्क एस डी	गैन्द लाल साहु	जेसी 730582एम	01 जनवरी 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	राज कुमार	जेसी 730264एच	01 जनवरी 2016
सूबेदार	वर्ल्क एस डी	पाटील संजय शिवाजी	जेसी 730275पी	01 जनवरी 2016

सूबेदार	वर्ल्क आई एम	जीबन चन्द्र कलीता	जेसी 730424एक्स	01 जनवरी 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	रमेश कुमार झा	जेसी 730265एल	01 जनवरी 2016
सूबेदार	वर्ल्क एस डी	मोहना कुमार आर	जेसी 730276एक्स	01 जनवरी 2016
सूबेदार	वर्ल्क एस डी	चक्रधर नायक	जेसी 730277ए	01 जनवरी 2016
सूबेदार	वर्ल्क एस डी	अमिया कुमार मंडल	जेसी 730278एच	01 जनवरी 2016
सूबेदार	वर्ल्क एस डी	गौतम सुत्रधार	जेसी 730279एल	01 फरवरी 2016
सूबेदार	वर्ल्क एस डी	वानखांडे अन्नाराया एस	जेसी 730280ए	01 फरवरी 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	अकबर अली	जेसी 730240वाई	01 फरवरी 2016
सूबेदार	वर्ल्क एस डी	राम नरेश प्रसाद	जेसी 730203एल	01 फरवरी 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	राज मोहन बनीक	जेसी 730267डब्ल्यू	01 फरवरी 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	सुरेन्द्र सिंह	जेसी 730268वाई	01 फरवरी 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	संजय कुमार पाठक	जेसी 730269एफ	01 फरवरी 2016
सूबेदार	वर्ल्क एस डी	बाकुल मैति	जेसी 730204एन	01 फरवरी 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	मुनिश कुमार तिवारी	जेसी 730270डब्ल्यू	01 फरवरी 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	अनिल कुमार सिंह	जेसी 730535पी	01 फरवरी 2016
सूबेदार	वर्ल्क एस डी	गोपाल स्वरूप शर्मा	जेसी 730406पी	01 फरवरी 2016
सूबेदार	वर्ल्क एस डी	राजेन्द्र सिंह यादव	जेसी 730407एक्स	01 फरवरी 2016
सूबेदार	वर्ल्क एस डी	राजकुमार तिवारी	जेसी 730366वाई	01 फरवरी 2016
सूबेदार	वर्ल्क एस डी	गौरा कुमार साहु	जेसी 730408ए	01 मार्च 2016
सूबेदार	वर्ल्क एस डी	माने तानाजी विष्णु	जेसी 730409ए	01 मार्च 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	एस चिन्ना चामी	जेसी 730536एक्स	01 मार्च 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	शेर सिंह	जेसी 730584एक्स	01 मार्च 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	जयदेव सिंह	जेसी 730380एल	01 मार्च 2016
सूबेदार	वर्ल्क एस डी	राम अवध यादवा	जेसी 730413एल	01 मार्च 2016
सूबेदार	वर्ल्क एस डी	हरी श्याम	जेसी 730367एफ	01 मार्च 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	कतुरी श्रीनिवासा राव	जेसी 730382डब्ल्यू	01 मार्च 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	बिष्णु पदा बेहरा	जेसी 730383वाई	01 अप्रैल 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	राम चन्द्रा	जेसी 730384एफ	01 अप्रैल 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	सोलंकी पंकज कुमार कल्याण सिंह	जेसी 730385के	01 अप्रैल 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	वरीन्दर कुमार	जेसी 730386एम	01 अप्रैल 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	राम बाबू सिंह	जेसी 730368के	01 अप्रैल 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	रतन भूषन एके	जेसी 730537ए	01 अप्रैल 2016
सूबेदार	वर्ल्क एस डी	अभिमन्यु कुमार	जेसी 730418के	01 अप्रैल 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	गिरधारी शाह	जेसी 730513डब्ल्यू	01 अप्रैल 2016
सूबेदार	वर्ल्क एस डी	अमृत लाल पटेल	जेसी 730419एम	01 अप्रैल 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	सरत कुमार स्वाईन	जेसी 730415डब्ल्यू	01 अप्रैल 2016
सूबेदार	वर्ल्क एस डी	अनिल कुमार	जेसी 730420एफ	01 अप्रैल 2016
सूबेदार	वर्ल्क एस डी	सुनिल कुमार चौधरी	जेसी 730444एल	01 अप्रैल 2016
सूबेदार	वर्ल्क एस डी	सुबे सिंह नेहरा	जेसी 7360421के	01 अप्रैल 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	सत्चिदानन्द दास	जेसी 730416वाई	01 अप्रैल 2016
सूबेदार	वर्ल्क एस डी	दिबयेन्दु जाना	जेसी 730422एम	01 अप्रैल 2016

सूबेदार	वर्ल्क एस डी	बिपीन बिहारी राय	जेसी 730446डब्ल्यू	01 अप्रैल 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	श्यो ताज	जेसी 730417एफ	01 अप्रैल 2016
सूबेदार	वर्ल्क एस डी	सतपा लक्ष्मण पाटील	जेसी 730447वाई	01 अप्रैल 2016
सूबेदार	वर्ल्क एस डी	तमुन्नाडे संजय बाबूराव	जेसी 730423पी	01 अप्रैल 2016
सूबेदार	वर्ल्क एस डी	अमर नाथ पांडे	जेसी 730448एफ	01 मई 2016
सूबेदार	वर्ल्क एस डी	अनूपोम दत्ता	जेसी 730449के	01 मई 2016
सूबेदार	वर्ल्क एस डी	विनोद कुमार टीएस	जेसी 730450वाई	01 मई 2016
सूबेदार	वर्ल्क एस डी	सुनिल कुमार	जेसी 730451एफ	01 मई 2016
सूबेदार	वर्ल्क एस डी	कदम सतेश दन्यादेव	जेसी 730452के	01 जून 2016
सूबेदार	वर्ल्क एस डी	धोरमारे गोविन्द विट्ठल	जेसी 730453एम	01 जून 2016
सूबेदार	वर्ल्क एस डी	अमल डे	जेसी 730454पी	01 जून 2016
सूबेदार	वर्ल्क एस डी	मन्धारे सुनिल बाजी राव	जेसी 730483के	01 जून 2016
सूबेदार	वर्ल्क एस डी	तारक चन्द रॉय	जेसी 730455एक्स	01 जून 2016
सूबेदार	वर्ल्क एस डी	विनोद कुमार शर्मा	जेसी 730576वाई	01 जून 2016
सूबेदार	वर्ल्क एस डी	गोपाला कृष्णा पिल्लई वी	जेसी 730495वाई	01 जून 2016
सूबेदार	वर्ल्क एस डी	छोटे लाल मालविया प्रजापति	जेसी 730509एन	01 जुलाई 2016
सूबेदार	वर्ल्क एस डी	अरुण कुमार मैति	जेसी 730589डब्ल्यू	01 जुलाई 2016
सूबेदार	वर्ल्क एस डी	एम रामचन्द्र नायडू	जेसी 730496एफ	01 जुलाई 2016
सूबेदार	वर्ल्क एस डी	जोदागे बबन आत्मा राम	जेसी 730511एल	01 जुलाई 2016
सूबेदार	वर्ल्क एस डी	अजय कुमार	जेसी 730512एन	01 जुलाई 2016
सूबेदार	वर्ल्क एस डी	उन्नी कृष्णा पिल्लई आर	जेसी 730545वाई	01 जुलाई 2016
सूबेदार	वर्ल्क एस डी	संजीवा कुमार सिंह	जेसी 730546एफ	01 जुलाई 2016
सूबेदार	वर्ल्क एस डी	राम बरन	जेसी 730547के	01 जुलाई 2016
सूबेदार	वर्ल्क एस डी	दिबेन्दु कुमार डे	जेसी 730548एम	01 जुलाई 2016
सूबेदार	वर्ल्क एस डी	अरुल कुमार एसएस	जेसी 730673डब्ल्यू	01 जुलाई 2016
सूबेदार	वर्ल्क एस डी	शिवा प्रसाद नायक	जेसी 730640एल	01 अगस्त 2016
सूबेदार	वर्ल्क एस डी	पटेल महेश कुमार विट्ठलदास	जेसी 730796एच	01 अगस्त 2016
सूबेदार	वर्ल्क एस डी	माने बजरंग शंकर	जेसी 730591एन	01 अगस्त 2016
सूबेदार	वर्ल्क एस डी	राउल सिता राम लक्ष्मण	जेसी 730592डब्ल्यू	01 अगस्त 2016
सूबेदार	वर्ल्क एस डी	शिव कुमार यादव	जेसी 730678पी	01 अगस्त 2016
सूबेदार	वर्ल्क एस डी	हजारे अमरुत धर्माजी	जेसी 730782एच	01 अगस्त 2016
सूबेदार	वर्ल्क एस डी	महेन्द्र सिंह	जेसी 730680एम	01 सितम्बर 2016
सूबेदार	वर्ल्क एस डी	अनन्दा चन्द्र स्वाईन	जेसी 730783एल	01 सितम्बर 2016
सूबेदार	वर्ल्क एस डी	अशोक कुमार यादव	जेसी 730794एक्स	01 सितम्बर 2016
सूबेदार	वर्ल्क एस डी	मोहन सिंह	जेसी 730784एन	01 सितम्बर 2016
सूबेदार	वर्ल्क एस डी	तेज सिंह	जेसी 730785डब्ल्यू	01 सितम्बर 2016
सूबेदार	वर्ल्क एस डी	चेत राम	जेसी 730786वाई	01 अक्टूबर 2016
सूबेदार	वर्ल्क एस डी	रमेश चन्द्र सिंह	जेसी 730787एफ	01 अक्टूबर 2016
सूबेदार	वर्ल्क एस डी	नन्द लाल गुप्ता	जेसी 730788के	01 अक्टूबर 2016
सूबेदार	वर्ल्क एस डी	मन्तोश कुमार	जेसी 730815एच	01 अक्टूबर 2016
सूबेदार	वर्ल्क एस डी	संतोष कुमार तिवारी	जेसी 730816एल	01 अक्टूबर 2016

सूबेदार	वर्लक एस डी	राम प्रकाश त्रिवेदी	जेसी 730934वाई	01 अक्टूबर 2016
सूबेदार	वर्लक एस डी	ओमवीर सिंह	जेसी 730817एन	01 नवम्बर 2016
सूबेदार	वर्लक एस डी	रमा कान्त यादव	जेसी 73818डब्ल्यू	01 नवम्बर 2016
सूबेदार	वर्लक एस डी	अरविन्द कुमार	जेसी 730819वाई	01 नवम्बर 2016
सूबेदार	वर्लक एस डी	उपेन्द्र कुमार तिवारी	जेसी 730820एन	01 नवम्बर 2016
सूबेदार	वर्लक एस डी	बिजेन्द्र सिंह	जेसी 730919के	01 दिसम्बर 2016
सूबेदार	वर्लक एस डी	जमीर आलम	जेसी 730966एफ	01 दिसम्बर 2016
सूबेदार	वर्लक एस डी	देश राज	जेसी 730957ए	01 दिसम्बर 2016
सूबेदार	वर्लक एस डी	राजबीर सिंह	जेसी 730959एल	01 दिसम्बर 2016
सूबेदार	वर्लक एस डी	खेमाराम दोदवारीया	जेसी 731055एक्स	01 दिसम्बर 2016
सूबेदार	वर्लक आई एम	नरेन्द्र कुमार पीबी	जेसी 730457एच	01 मई 2016
सूबेदार	वर्लक आई एम	एपी बेंकटा रमना रेड्डी	जेसी 730458एल	01 मई 2016
सूबेदार	वर्लक आई एम	शिव चन्द्र झा	जेसी 730484एम	01 मई 2016
सूबेदार	वर्लक आई एम	श्याम लाल	जेसी 730485पी	01 मई 2016
सूबेदार	वर्लक आई एम	के थावासिनानथम	जेसी 730459एन	01 मई 2016
सूबेदार	वर्लक आई एम	ए शाहाबथीन	जेसी 730487ए	01 मई 2016
सूबेदार	वर्लक आई एम	मन बहादुर राणा	जेसी 730488एच	01 मई 2016
सूबेदार	वर्लक आई एम	थोता सम्बैय्या	जेसी 730460एच	01 मई 2016
सूबेदार	वर्लक आई एम	बिश्वानाथ मैति	जेसी 730461एल	01 मई 2016
सूबेदार	वर्लक आई एम	संजय कुमार	जेसी 730462एन	01 मई 2016
सूबेदार	वर्लक आई एम	पवन कुमार	जेसी 730481वाई	01 मई 2016
सूबेदार	वर्लक आई एम	मुलतान सिंह	जेसी 730463डब्ल्यू	01 मई 2016
सूबेदार	वर्लक आई एम	शिवधर प्रसाद यादव	जेसी 730464वाई	01 जून 2016
सूबेदार	वर्लक आई एम	गगन बिहारी स्वाईन	जेसी 730465एफ	01 जून 2016
सूबेदार	वर्लक आई एम	मदन लाल चौधरी	जेसी 730466के	01 जून 2016
सूबेदार	वर्लक आई एम	नन्दन बापु भीका	जेसी 730467एम	01 जून 2016
सूबेदार	वर्लक आई एम	आर जेया कुमार	जेसी 730489एल	01 जून 2016
सूबेदार	वर्लक आई एम	विनयगा मुर्ति बी	जेसी 730468पी	01 जून 2016
सूबेदार	वर्लक आई एम	राम बचन यादवा	जेसी 730469एक्स	01 जून 2016
सूबेदार	वर्लक आई एम	काले पोपट एकनाथ	जेसी 730585ए	01 जून 2016
सूबेदार	वर्लक आई एम	संजीव कुमार	जेसी 730514वाई	01 जून 2016
सूबेदार	वर्लक आई एम	वेन्कयाला पति भास्कर	जेसी 730498एम	01 जून 2016
सूबेदार	वर्लक आई एम	जीत सिंह	जेसी 730515एफ	01 जून 2016
सूबेदार	वर्लक आई एम	सुदर्शन कुमार	जेसी 730538एच	01 जून 2016
सूबेदार	वर्लक आई एम	दलीप सिंह	जेसी 730517एम	01 जून 2016
सूबेदार	वर्लक आई एम	अशोक सिंह	जेसी 730518पी	01 जून 2016
सूबेदार	वर्लक आई एम	वी श्रीजिथ कुमार	जेसी 730519एक्स	01 जून 2016
सूबेदार	वर्लक आई एम	मिश्रा जय प्रकाश रमापति	जेसी 730520एम	01 जून 2016
सूबेदार	वर्लक आई एम	त्रिलोचना कुरुप जी	जेसी 730521पी	01 जून 2016
सूबेदार	वर्लक आई एम	नदफ बसीर अहमद नुरमहमद	जेसी 730798एन	01 जून 2016
सूबेदार	वर्लक आई एम	प्रताप किशोर धल	जेसी 730660वाई	01 जून 2016

सूबेदार	वर्ल्क आई एम	सुरेश कुमार	जेसी 730522एक्स	01 जून 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	राजेश कुमार	जेसी 730523ए	01 जून 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	राज कान्त मिश्रा	जेसी 730593वाई	01 जून 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	संजीत कुमार सिंह	जेसी 730594एफ	01 जून 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	मोनी कुमार राजबोंगशी	जेसी 730549पी	01 जून 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	वी श्रीनिवास	जेसी 730534एम	01 जुलाई 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	सरोज कुमार मोहापात्रा	जेसी 730499पी	01 जुलाई 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	अशोक कुमार	जेसी 730550के	01 जुलाई 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	सत्यावान	जेसी 730551एम	01 जुलाई 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	दीपक डे	जेसी 730552पी	01 जुलाई 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	रमा कान्त अगस्ति	जेसी 730553एक्स	01 जुलाई 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	नन्दजी सिंह	जेसी 730554ए	01 जुलाई 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	हरी हर ओझा	जेसी 730555एच	01 जुलाई 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	राघवन वी	जेसी 730637एल	01 जुलाई 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	सफिक मोहम्मद	जेसी 730556एल	01 जुलाई 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	तप्पन कुमार दास	जेसी 730557एन	01 जुलाई 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	सोमनाथ मिश्रा	जेसी 731049के	01 जुलाई 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	जितेन्द्र कुमार	जेसी 730642डब्ल्यू	01 जुलाई 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	सधन दास	जेसी 730661एफ	01 जुलाई 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	अनिल कुमार टीएस	जेसी 730595के	01 जुलाई 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	भेरू लाल कुमावत	जेसी 730657वाई	01 जुलाई 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	कार्तिक चन्द्र मैति	जेसी 730641एन	01 जुलाई 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	नजीबुर रहमान	जेसी 730596एम	01 जुलाई 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	इ रॉबर्ट जॉन केनेंडी	जेसी 730597पी	01 जुलाई 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	राम निवास	जेसी 730662के	01 जुलाई 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	अजित कुमार पालर	जेसी 730598एक्स	01 जुलाई 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	धर्म पाल	जेसी 730663एम	01 जुलाई 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	मुफ्ति अब्दुल निजाम	जेसी 730599ए	01 जुलाई 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	रोशन लाल	जेसी 730600के	01 जुलाई 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	सुरेश कुमार जी	जेसी 730643वाई	01 जुलाई 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	हरदेव सिंह	जेसी 730685एल	01 जुलाई 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	किशन चन्द शर्मा	जेसी 730601एम	01 जुलाई 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	जॉर्ज एम थॉमस	जेसी 730799डब्ल्यू	01 जुलाई 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	प्रसाद पीएन	जेसी 730686एन	01 जुलाई 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	गुलाब सिंह यादव	जेसी 730687डब्ल्यू	01 जुलाई 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	मनोज कुमार चौधरी	जेसी 730688वाई	01 अगस्त 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	वी हरि कृष्णा	जेसी 730689एफ	01 अगस्त 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	आनन्द कुमार	जेसी 730690डब्ल्यू	01 अगस्त 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	अरविन्द कुमार सिंह	जेसी 730691वाई	01 अगस्त 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	प्रकाश चन्द्र गुप्ता	जेसी 730692एफ	01 अगस्त 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	दविन्दर सिंह	जेसी 730693के	01 अगस्त 2016

सूबेदार	वर्ल्क आई एम	विरेन्द्र कुमार सिंह	जेसी 730730एम	01 अगस्त 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	एमडी खोवाज अली	जेसी 730731पी	01 अगस्त 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	रमा कान्त राउतराय	जेसी 730732एक्स	01 अगस्त 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	धीरेन्द्र दत्ता	जेसी 730733ए	01 अगस्त 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	सुबाश चन्द्र सुन्दरा	जेसी 730734एच	01 अगस्त 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	पुर्ण चन्द्र बेहेरा	जेसी 730735एल	01 अगस्त 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	कैलाश प्रसाद बेहेरा	जेसी 730736एन	01 अगस्त 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	दिनेश सिंह यादवा	जेसी 730737डब्ल्यू	01 अगस्त 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	सुरेन्द्र कुमार	जेसी 730738वाई	01 अगस्त 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	दाना राम	जेसी 730739एफ	01 अगस्त 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	मन्दु कुमार जाना	जेसी 730740डब्ल्यू	01 अगस्त 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	जिवाने प्रकाश सखा राम	जेसी 730741वाई	01 अगस्त 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	भोन्देकर चन्द्र शेखर कवाडू	जेसी 730742एफ	01 अगस्त 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	बिरन्ची नारायण साहू	जेसी 730743के	01 अगस्त 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	अश्विन कुमार मलिक	जेसी 730744एम	01 अगस्त 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	दिनेश पटियाल	जेसी 730746एक्स	01 अगस्त 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	महेश कुमार	जेसी 730747ए	01 अगस्त 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	विनय कुमार चौबे	जेसी 730821डब्ल्यू	01 अगस्त 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	अशोक कुमार सिंह	जेसी 730822वाई	01 सितम्बर 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	एम बाबु	जेसी 730823एफ	01 सितम्बर 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	साजी केबी	जेसी 730921एफ	01 सितम्बर 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	ओमनाकुट्टन नायर एन	जेसी 730824के	01 सितम्बर 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	कल्याणम अब्बा राव	जेसी 730826पी	01 सितम्बर 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	तोता कुरा रवि कुमार	जेसी 730827एक्स	01 सितम्बर 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	प्रमोद कुमार सिंह	जेसी 730967के	01 सितम्बर 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	बिश्वानाथ ठाकुर	जेसी 730828ए	01 सितम्बर 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	एम वासु	जेसी 730829एच	01 सितम्बर 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	आलोके सुमर	जेसी 730830एक्स	01 सितम्बर 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	संजीव कुमार यादव	जेसी 730831ए	01 सितम्बर 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	साबु जोसेफ	जेसी 730832एच	01 सितम्बर 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	जे रामा चन्द्रा रेड्डी	जेसी 730922के	01 सितम्बर 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	चेरीयन एम मेथ्यु	जेसी 730833एल	01 सितम्बर 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	मलेयालि के उन्निकरण	जेसी 730834एन	01 अक्टूबर 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	जया कुमार पी	जेसी 730938पी	01 अक्टूबर 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	मीर सहाबुद्दीन	जेसी 730998के	01 अक्टूबर 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	नरेश कुमार	जेसी 730968एम	01 अक्टूबर 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	शोवा नाथ प्रसाद	जेसी 730969पी	01 अक्टूबर 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	एम कृष्णा सामी	जेसी 730923एम	01 अक्टूबर 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	ग्याना रंजन मिश्रा	जेसी 7301004के	01 अक्टूबर 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	हरेन्द्र पांडे	जेसी 730971एम	01 अक्टूबर 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	धर्मेन्द्र	जेसी 730972पी	01 अक्टूबर 2016

सूबेदार	वर्ल्क आई एम	शिव सिंह तोमर	जेसी 730973एक्स	01 अक्टूबर 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	कमल कृष्णा पान्डा	जेसी 730974ए	01 अक्टूबर 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	राजेश कुमार	जेसी 730975एच	01 अक्टूबर 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	महात्मा पांडे	जेसी 731047वाई	01 अक्टूबर 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	जी राम दास चन्द्रभान	जेसी 730999एम	01 अक्टूबर 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	पटारे गोविन्द भास्कर	जेसी 731040पी	01 नवम्बर 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	भापकर परशा राम भीकाजी	जेसी 731048एफ	01 नवम्बर 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	मरल रविकान्त गनपत	जेसी 731016वाई	01 नवम्बर 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	एस मलहारी विठोबा	जेसी 731041एक्स	01 नवम्बर 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	आलोक पटनायक	जेसी 731017एफ	01 नवम्बर 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	चौधरी शरद नारायण	जेसी 731018के	01 नवम्बर 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	होवाले महेन्द्र भगवान	जेसी 731042ए	01 नवम्बर 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	महालिम सुरेश बाबू	जेसी 731019एम	01 नवम्बर 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	पाटिल संतोष कुमार भीम राव	जेसी 731020एफ	01 नवम्बर 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	गणेश प्रसाद राउत	जेसी 731043एच	01 नवम्बर 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	के बाला साहेब सदाशिव	जेसी 731021के	01 नवम्बर 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	शिव शंकर लाल श्रिवास्तवा	जेसी 731022एम	01 दिसम्बर 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	छैदी लाल	जेसी 731023पी	01 दिसम्बर 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	सुनहरी लाल	जेसी 731050वाई	01 दिसम्बर 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	प्रसन्ना कुमार केएन	जेसी 731172एच	01 दिसम्बर 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	नव बहार सिंह	जेसी 731173एल	01 दिसम्बर 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	सनातन दास	जेसी 731067एम	01 दिसम्बर 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	एमडी इब्राहीम नौबी	जेसी 731175डब्ल्यू	01 दिसम्बर 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	नरेन्द्र सिंह	जेसी 731068पी	01 दिसम्बर 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	राजेन्द्र कुमार मिश्रा	जेसी 731069एक्स	01 दिसम्बर 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	संकर प्रमाणिक	जेसी 731071पी	01 दिसम्बर 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	शयोरज सिंह	जेसी 731072एक्स	01 दिसम्बर 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	अजिथ टीआर	जेसी 731176वाई	01 दिसम्बर 2016
सूबेदार	वर्ल्क आई एम	सुरजीत सिंह	जेसी 731162वाई	01 दिसम्बर 2016
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	शिव राखन सिंह	जेसी 730476एन	01 जनवरी 2016
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	ओम प्रकाश	जेसी 730564के	01 जनवरी 2016
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	संतोष कुमार पानी	जेसी 730620एक्स	01 जनवरी 2016
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	सुशीला कुमार पानीग्राही	जेसी 730708एफ	01 जनवरी 2016
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	राम विलास	जेसी 730709के	01 जनवरी 2016
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	सुनिल कुमार एवी	जेसी 730710वाई	01 जनवरी 2016
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	प्रमोद किशाक्यायिल एम	जेसी 730712के	01 फरवरी 2016
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	एस सिवासुब्रामनीयन	जेसी 730725एफ	01 फरवरी 2016
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	चन्द्र शेखर मंडल	जेसी 730763एक्स	01 फरवरी 2016
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	मनोरंजन कुमार	जेसी 730764ए	01 मार्च 2016
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	लखवीन्दर सिंह	जेसी 730765एच	01 अप्रैल 2016
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	नछत्तर सिंह	जेसी 730766एल	01 अप्रैल 2016

सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	कृष्ण चन्द्र	जेसी 730767एन	01 अप्रैल 2016
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	जगत अली मंडल	जेसी 730804डब्ल्यू	01 मई 2016
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	देओरे अशोक रतन	जेसी 730805वाई	01 मई 2016
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	माने अर्जुन हिन्दु राव	जेसी 730884वाई	01 जून 2016
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	चावन कृष्णा राव अर्जुन	जेसी 730885एफ	01 जून 2016
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	निकाम विजय सरजे राव	जेसी 730949एफ	01 जुलाई 2016
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	मेगाने बलवन्त शंकर	जेसी 730886के	01 जुलाई 2016
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	काले प्रभाकर गंगाराम	जेसी 730950डब्ल्यू	01 अगस्त 2016
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	शेदागे राम विट्ठल	जेसी 730887एम	01 सितम्बर 2016
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	श्रीदावादे राजेन्द्र गनपति	जेसी 730888पी	01 नवम्बर 2016
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	घोरपडे मानिक विष्णु	जेसी 730889एक्स	01 दिसम्बर 2016
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	पन्डारे हबिबुल्ला नबिसो	जेसी 730890एम	01 दिसम्बर 2016
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	वैदया सेना सिताराम	जेसी 730891पी	01 दिसम्बर 2016
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	सबाले संतोष गुलाब	जेसी 730892एक्स	01 दिसम्बर 2016
सूबेदार	एस के टी जी एस एंड सी	भोसले सुधीर अन्ना	जेसी 730893ए	01 दिसम्बर 2016
सूबेदार	एस के टी एम टी	मनूज रजक	जेसी 730666ए	01 जनवरी 2016
सूबेदार	एस के टी एम टी	घर भरन यादव	जेसी 730616पी	01 जनवरी 2016
सूबेदार	एस के टी एम टी	पत्तन अबदुल रहमान	जेसी 730651एक्स	01 जनवरी 2016
सूबेदार	एस के टी एम टी	गोविन्द प्रसाद मिश्रा	जेसी 730617एक्स	01 जनवरी 2016
सूबेदार	एस के टी एम टी	शंकर बेपारी	जेसी 730702ए	01 जनवरी 2016
सूबेदार	एस के टी एम टी	सजल दत्ता	जेसी 730703एच	01 जनवरी 2016
सूबेदार	एस के टी एम टी	उत्पल दत्ता	जेसी 730704एल	01 जनवरी 2016
सूबेदार	एस के टी एम टी	सुधीर कुमार	जेसी 730936के	01 फरवरी 2016
सूबेदार	एस के टी एम टी	जसवंत तोमर	जेसी 730755वाई	01 फरवरी 2016
सूबेदार	एस के टी एम टी	सर्वेश्वर प्रसाद	जेसी 730705एन	01 फरवरी 2016
सूबेदार	एस के टी एम टी	पवन कुमार शर्मा	जेसी 730706डब्ल्यू	01 मार्च 2016
सूबेदार	एस के टी एम टी	रेमेश चन्द जांगिड	जेसी 730707वाई	01 मार्च 2016
सूबेदार	एस के टी एम टी	कृष्ण कुमार सिंह	जेसी 730756एफ	01 मार्च 2016
सूबेदार	एस के टी एम टी	बिजु जे	जेसी 730757के	01 अप्रैल 2016
सूबेदार	एस के टी एम टी	रमन बाबू	जेसी 730758एम	01 अप्रैल 2016
सूबेदार	एस के टी एम टी	राजेश कुमार	जेसी 730759पी	01 अप्रैल 2016
सूबेदार	एस के टी एम टी	बलबीर सिंह	जेसी 730760के	01 अप्रैल 2016
सूबेदार	एस के टी एम टी	जगदीप सिंह	जेसी 730761एम	01 मई 2016
सूबेदार	एस के टी एम टी	सतीश कुमार	जेसी 730762पी	01 मई 2016
सूबेदार	एस के टी एम टी	श्याम लाल	जेसी 730803एन	01 मई 2016
सूबेदार	एस के टी एम टी	बंशी धर गौडा	जेसी 730869के	01 मई 2016
सूबेदार	एस के टी एम टी	बाटा कृष्णा रूट	जेसी 730870वाई	01 मई 2016
सूबेदार	एस के टी एम टी	राधे श्याम	जेसी 731986एफ	01 जून 2016
सूबेदार	एस के टी एम टी	उमा कान्ता राव बेथाला	जेसी 730947डब्ल्यू	01 जून 2016
सूबेदार	एस के टी एम टी	सुरज्या कुमार साहु	जेसी 730817एफ	01 जून 2016
सूबेदार	एस के टी एम टी	जगन्नाथ सामल	जेसी 730915एन	01 जून 2016

सूबेदार	एस के टी एम टी	राजेश कुमार	जेसी 730872के	01 जुलाई 2016
सूबेदार	एस के टी एम टी	हेमन्त कुमार	जेसी 730873एम	01 जुलाई 2016
सूबेदार	एस के टी एम टी	लाल धारी	जेसी 730874पी	01 जुलाई 2016
सूबेदार	एस के टी एम टी	अरविन्द सेहगल	जेसी 730875एक्स	01 जुलाई 2016
सूबेदार	एस के टी एम टी	धर्मीन्द्र सिंह	जेसी 730876ए	01 अगस्त 2016
सूबेदार	एस के टी एम टी	सुखविन्दर सिंह	जेसी 730877एच	01 सितम्बर 2016
सूबेदार	एस के टी एम टी	भुपाल सिंह मेहरा	जेसी 730878एल	01 अक्टूबर 2016
सूबेदार	एस के टी एम टी	कार्तिकेय नाथ	जेसी 730879एन	01 अक्टूबर 2016
सूबेदार	एस के टी एम टी	शिव कुमार	जेसी 730880एच	01 नवम्बर 2016
सूबेदार	एस के टी एम टी	राम रतन	जेसी 730881एल	01 नवम्बर 2016
सूबेदार	एस के टी एम टी	सम्युअल चेरीयन	जेसी 730948वाई	01 दिसम्बर 2016
सूबेदार	एस के टी एम टी	अनुरुद्ध पंडित	जेसी 730916डब्ल्यू	01 दिसम्बर 2016
सूबेदार	एस के टी एम टी	उदय कुमार गजमेर	जेसी 730924पी	01 दिसम्बर 2016
सूबेदार	एस के टी एम टी	सलामत हुसैन खॉन	जेसी 730882एन	01 दिसम्बर 2016
सूबेदार	एस के टी एम टी	अनुप कुमार सरकार	जेसी 730883डब्ल्यू	01 दिसम्बर 2016
सूबेदार	एस के टी एम टी	अशोक कुमार	जेसी 730925एक्स	01 दिसम्बर 2016
सूबेदार	एस के टी एम टी	सरीफ शैख	जेसी 730926ए	01 दिसम्बर 2016
सूबेदार	एस के टी अम्युनेशन	पाटिल प्रकाश शंकर	जेसी 730658एफ	01 जनवरी 2016
सूबेदार	एस के टी अम्युनेशन	जोसेफ वी वीरामना	जेसी 730606एल	01 जनवरी 2016
सूबेदार	एस के टी अम्युनेशन	श्री गोविन्द दीक्षित	जेसी 730607एन	01 जनवरी 2016
सूबेदार	एस के टी अम्युनेशन	सुरेश सिंह	जेसी 730644एफ	01 जनवरी 2016
सूबेदार	एस के टी अम्युनेशन	राम सिंह	जेसी 730664पी	01 जनवरी 2016
सूबेदार	एस के टी अम्युनेशन	बिरेन्द्र	जेसी 730674वाई	01 फरवरी 2016
सूबेदार	एस के टी अम्युनेशन	महेन्द्र कुमार शर्मा	जेसी 730608डब्ल्यू	01 फरवरी 2016
सूबेदार	एस के टी अम्युनेशन	संजीवा कुमार मिश्रा	जेसी 730675एफ	01 मार्च 2016
सूबेदार	एस के टी अम्युनेशन	पुकाले अनिल मयप्पा	जेसी 730609वाई	01 अप्रैल 2016
सूबेदार	एस के टी अम्युनेशन	शिव कुमार	जेसी 730645के	01 अप्रैल 2016
सूबेदार	एस के टी अम्युनेशन	अशोक कुमार पांडा	जेसी 730646एम	01 अप्रैल 2016
सूबेदार	एस के टी अम्युनेशन	नम्बाल्ला नरसय्या	जेसी 730676के	01 मई 2016
सूबेदार	एस के टी अम्युनेशन	उमेश शर्मा	जेसी 730847एल	01 मई 2016
सूबेदार	एस के टी अम्युनेशन	राज बहादुर	जेसी 730694एम	01 मई 2016
सूबेदार	एस के टी अम्युनेशन	कुलदीप कुमार	जेसी 730695पी	01 मई 2016
सूबेदार	एस के टी अम्युनेशन	श्री राम बिलास	जेसी 730696एक्स	01 जून 2016
सूबेदार	एस के टी अम्युनेशन	पाटिल रावासाहेब धोन्दीराम	जेसी 730697ए	01 जून 2016
सूबेदार	एस के टी अम्युनेशन	मनोज कुमार	जेसी 730304वाई	01 जुलाई 2016
सूबेदार	एस के टी अम्युनेशन	हरजी सिंह गहलोत	जेसी 730698एच	01 जुलाई 2016
सूबेदार	एस के टी अम्युनेशन	श्री रामदत्त सिंह	जेसी 730699एल	01 जुलाई 2016
सूबेदार	एस के टी अम्युनेशन	इदुला राघावुलु	जेसी 730848एन	01 अगस्त 2016
सूबेदार	एस के टी अम्युनेशन	गुम्मादीदाला वी अंजनेयुलु	जेसी 730700पी	01 सितम्बर 2016
सूबेदार	एस के टी अम्युनेशन	दलबीर सिंह	जेसी 730748एच	01 नवम्बर 2016
सूबेदार	एस के टी अम्युनेशन	प्रीतम सिंह	जेसी 730701एक्स	01 दिसम्बर 2016

सूबेदार	एस के टी अम्युनेशन	मनदीप सिंह	जेसी 730749एल	01 दिसम्बर 2016
सूबेदार	एस के टी अम्युनेशन	कुलदीप कुमार	जेसी 730750ए	01 दिसम्बर 2016
सूबेदार	एस के टी अम्युनेशन	राकेश कुमार	जेसी 730751एच	01 दिसम्बर 2016
सूबेदार	एस के टी अम्युनेशन	रावालिया जोधा भीम	जेसी 730752एल	01 दिसम्बर 2016
सूबेदार	एस के टी वैपन	सुन्दर सिंह	जेसी 730768डब्ल्यू	01 जनवरी 2016
सूबेदार	एस के टी वैपन	बसावन राम	जेसी 730713एम	01 जनवरी 2016
सूबेदार	एस के टी वैपन	श्यामल बिश्वास	जेसी 730769वाई	01 फरवरी 2016
सूबेदार	एस के टी वैपन	शेते विजय प्रहलाद	जेसी 730809पी	01 मार्च 2016
सूबेदार	एस के टी वैपन	बासुदेव सासमल	जेसी 730789एम	01 अप्रैल 2016
सूबेदार	एस के टी वैपन	गेदाला गोविन्दा राव	जेसी 730807के	01 मई 2016
सूबेदार	एस के टी वैपन	पाटिल कृष्णा दन्यानु	जेसी 730905के	01 मई 2016
सूबेदार	एस के टी वैपन	ए रंगा स्वामी	जेसी 730906एम	01 जून 2016
सूबेदार	एस के टी वैपन	उन्निकृष्णन सी	जेसी 730907पी	01 जुलाई 2016
सूबेदार	एस के टी वैपन	सर्बेश्वर प्रधान	जेसी 730954एम	01 अगस्त 2016
सूबेदार	एस के टी वैपन	त्रिनाथ मोहापात्रा	जेसी 730908एक्स	01 अक्टूबर 2016
सूबेदार	एस के टी वैपन	दिबाकर साहु	जेसी 730909ए	01 दिसम्बर 2016
सूबेदार	एस के टी वैपन	श्रुस्तीधर साहु	जेसी 730991ए	01 दिसम्बर 2016
सूबेदार	एस के टी वैपन	प्रशान्ता कुमार पलई	जेसी 730910पी	01 दिसम्बर 2016
सूबेदार	एस के टी सिग्नल	अरूप कुमार चौधरी	जेसी 730727एम	01 जनवरी 2016
सूबेदार	एस के टी सिग्नल	श्यामा सुन्दर साहु	जेसी 730624एन	01 जनवरी 2016
सूबेदार	एस के टी सिग्नल	बंश नारायण प्रसाद	जेसी 730714पी	01 जनवरी 2016
सूबेदार	एस के टी सिग्नल	श्री प्रसाद सी	जेसी 730716एच	01 फरवरी 2016
सूबेदार	एस के टी सिग्नल	केसरकर शरद आत्माराम	जेसी 730771डब्ल्यू	01 मार्च 2016
सूबेदार	एस के टी सिग्नल	पवार दिगम्बर	जेसी 730772वाई	01 अप्रैल 2016
सूबेदार	एस के टी सिग्नल	जाधव बालासाहेब मेघराज	जेसी 730898वाई	01 अप्रैल 2016
सूबेदार	एस के टी सिग्नल	हरि दास ए	जेसी 730899एफ	01 मई 2016
सूबेदार	एस के टी सिग्नल	मधु सुदन्न एमसी	जेसी 730900एल	01 जून 2016
सूबेदार	एस के टी सिग्नल	चन्दन कुमार मिश्रा	जेसी 730953के	01 जून 2016
सूबेदार	एस के टी सिग्नल	सत पाल	जेसी 730806एफ	01 जुलाई 2016
सूबेदार	एस के टी सिग्नल	एम जोसेफ	जेसी 730902डब्ल्यू	01 सितम्बर 2016
सूबेदार	एस के टी सिग्नल	विरेन्दर सिंह	जेसी 730903वाई	01 नवम्बर 2016
सूबेदार	एस के टी सिग्नल	रधुनन्दन पाठक	जेसी 730904एफ	01 दिसम्बर 2016
सूबेदार	एस के टी सिग्नल	देशमुख संजय धोन्दीबा	जेसी 730932एन	01 दिसम्बर 2016
सूबेदार	एस के टी ईंजिनियर	राज किशोर सिंह	जेसी 730629एम	01 जून 2016
सूबेदार	एस के टी ईंजिनियर	जोरावर सिंह	जेसी 730717एच	01 मार्च 2016
सूबेदार	एस के टी ईंजिनियर	बृजेश कुमार सिंह	जेसी 730773एफ	01 मई 2016
सूबेदार	एस के टी ईंजिनियर	अर्जन सिंह	जेसी 731001डब्ल्यू	01 जुलाई 2016
सूबेदार	एस के टी ईंजिनियर	श्यामल मजुमदार	जेसी 730993एल	01 दिसम्बर 2016
सूबेदार	एस के टी ऐविऐशन	अनिल कुमार	जेसी 730718एल	01 मार्च 2016
सूबेदार	एस के टी ऐविऐशन	रघुबर नाथ मिश्रा	जेसी 731056ए	01 जुलाई 2016
सूबेदार	एस के टी ऐविऐशन	सिकन्दर सिंह	जेसी 731136एक्स	01 जुलाई 2016

सूबेदार	एस एच जी डी	दीवान सिंह	जेसी 730163पी	01 जनवरी 2016
सूबेदार	एस एच जी डी	कारनति योगेश्वरा रेड्डी	जेसी 730802एल	01 जनवरी 2016
सूबेदार	एस एच जी डी	यमागर तानाजी शिवाजी	जेसी 730843पी	01 फरवरी 2016
सूबेदार	एस एच जी डी	मोहम्मद शामीन खॉन	जेसी 730844एक्स	01 फरवरी 2016
सूबेदार	एस एच जी डी	वाई स्यामा सुन्दर राव	जेसी 730845ए	01 फरवरी 2016
सूबेदार	एस एच जी डी	संजय कुमार यादव	जेसी 730920वाई	01 फरवरी 2016
सूबेदार	एस एच जी डी	जितेन्दर शर्मा	जेसी 730933डब्ल्यू	01 फरवरी 2016
सूबेदार	एस एच जी डी	उत्तम कुमार कर	जेसी 730935एफ	01 फरवरी 2016
सूबेदार	एस एच जी डी	रमेश चन्दर	जेसी 731035के	01 मार्च 2016
सूबेदार	एस एच जी डी	प्रदीप सिंह राठौड	जेसी 731003एफ	01 अप्रैल 2016
सूबेदार	एस एच जी डी	रवि कुमार	जेसी 730961एच	01 अप्रैल 2016
सूबेदार	एस एच जी डी	रमन कुमार	जेसी 730962एल	01 अप्रैल 2016
सूबेदार	एस एच जी डी	इमादे नानासो लक्ष्मण	जेसी 730963एन	01 अप्रैल 2016
सूबेदार	एस एच जी डी	सोलन्कर बालासो देवप्पा	जेसी 730992एच	01 अप्रैल 2016
सूबेदार	एस एच जी डी	दिनेश कुमार सिंह	जेसी 730964डब्ल्यू	01 अप्रैल 2016
सूबेदार	एस एच जी डी	रवि शंकर	जेसी 731036एम	01 अप्रैल 2016
सूबेदार	एस एच जी डी	अरविन्द कुमार सिंह	जेसी 731037पी	01 अप्रैल 2016
सूबेदार	एस एच जी डी	सुरेन्दर सिंह	जेसी 731038एक्स	01 अप्रैल 2016
सूबेदार	एस एच जी डी	सत्य पाल	जेसी 731054पी	01 अप्रैल 2016
सूबेदार	एस एच जी डी	हेम सिंह	जेसी 731039ए	01 अप्रैल 2016
सूबेदार	एस एच जी डी	नोरीया विजय बाबूलाल	जेसी 731221ए	01 अप्रैल 2016
सूबेदार	एस एच जी डी	सजय सरण श्रीवास्तवा	जेसी 731128वाई	01 अप्रैल 2016
सूबेदार	एस एच जी डी	धर्म बीर	जेसी 731137ए	01 जून 2016
सूबेदार	एस एच जी डी	महम्मद रफी	जेसी 731129एफ	01 जून 2016
सूबेदार	एस एच जी डी	कृष्ण पाल	जेसी 730401डब्ल्यू	01 जुलाई 2016
सूबेदार	एस एच जी डी	पवन कुमार शर्मा	जेसी 730670एच	01 जुलाई 2016
सूबेदार	एस एच जी डी	गोरा वेन्कटा रंगईया	जेसी 731353एन	01 जुलाई 2016
सूबेदार	एस एच जी डी	सुशील कुमार	जेसी 731130डब्ल्यू	01 जुलाई 2016
सूबेदार	एस एच जी डी	महावीर सिंह	जेसी 731131वाई	01 जुलाई 2016
सूबेदार	एस एच जी डी	लाल बहादुर सिंह	जेसी 731132एफ	01 जुलाई 2016
सूबेदार	एस एच जी डी	विंध्याचल प्रसाद गुप्ता	जेसी 731223एल	01 जुलाई 2016
सूबेदार	एस एच जी डी	नरेश कुमार	जेसी 731273डब्ल्यू	01 जुलाई 2016
सूबेदार	एस एच जी डी	संजय कुमार सिंह	जेसी 731224एन	01 सितम्बर 2016
सूबेदार	एस एच जी डी	शिव कान्त	जेसी 731349एल	01 अक्टूबर 2016
सूबेदार	एस एच टी	कुना पटनायक	जेसी 730502के	01 जनवरी 2016
सूबेदार	एस एच टी	जान मोहम्मद	जेसी 730632एम	01 मार्च 2016
सूबेदार	एस एच टी	देवेन्द्र कुमार	जेसी 730726के	01 जून 2016
सूबेदार	एस एच टी	सुरेन्दर सिंह	जेसी 730575डब्ल्यू	01 जुलाई 2016
सूबेदार	एस एच टी	प्रदीप कुमार मिस्त्री	जेसी 730790एफ	01 जुलाई 2016
सूबेदार	एस एच टी	सत्या वोलु सुब्बईया	जेसी 730721एल	01 जुलाई 2016
सूबेदार	एस एच टी	पटोले राज कुमार दरीबा	जेसी 730841के	01 सितम्बर 2016

सूबेदार	एस एच टी	असीम कुमार घोष	जेसी 730940एम	01 सितम्बर 2016
सूबेदार	एस एच टी	रामायण प्रसाद	जेसी 730842एम	01 अक्टूबर 2016
सूबेदार	एस एच टी	उदय नारायण प्रसाद	जेसी 731002वाई	01 नवम्बर 2016
सूबेदार	एस एच टी	ए चन्द्र शेखर राव	जेसी 731377एक्स	01 दिसम्बर 2016
सूबेदार	झाईवर एम टी	कमल नारायण	जेसी 730571ए	01 जनवरी 2016
सूबेदार	झाईवर एम टी	विनोद कुमार	जेसी 730572एच	01 जनवरी 2016
सूबेदार	झाईवर एम टी	दर्शन लाल	जेसी 730573एल	01 मार्च 2016
सूबेदार	झाईवर एम टी	वी मुरुगाराज	जेसी 730574एन	01 मार्च 2016
सूबेदार	झाईवर एम टी	उदय प्रसाद सिंह	जेसी 730587एल	01 अप्रैल 2016
सूबेदार	झाईवर एम टी	शोवोन मुखोपाध्याय	जेसी 730808एम	01 अप्रैल 2016
सूबेदार	झाईवर एम टी	रघुबर उपाध्याय	जेसी 730719एन	01 अप्रैल 2016
सूबेदार	झाईवर एम टी	अजीथ कुमार एमजी	जेसी 730720एच	01 मई 2016
सूबेदार	झाईवर एम टी	श्री भरत सिंह	जेसी 730774के	01 जून 2016
सूबेदार	झाईवर एम टी	राकेश कुमार सोनी	जेसी 730775एम	01 जुलाई 2016
सूबेदार	झाईवर स्पेशल	मंगेश एम	जेसी 730776पी	01 सितम्बर 2016
सूबेदार	झाईवर स्पेशल	दीप नाराइन सिंह	जेसी 730777एक्स	01 सितम्बर 2016
सूबेदार	झाईवर एम टी	बिस्वाम्भर प्रसाद	जेसी 730778ए	01 नवम्बर 2016
सूबेदार	टेलर यू	शर्मा राकेश कुमार बाबू लाल	जेसी 731508एक्स	01 फरवरी 2016
सूबेदार	आर्टिशन वुड वर्क	दिलीप कुमार ओझा	जेसी 731452डब्ल्यू	01 मार्च 2016
सूबेदार	आर्टिशन वुड वर्क	बालक राम	जेसी 731481एल	01 दिसम्बर 2016
सूबेदार	आर्टिशन वुड वर्क	संजय कुमार	जेसी 731504एफ	01 दिसम्बर 2016
सूबेदार	म्युजिशीयन	जी बिजु	जेसी 730104एच	01 जून 2016

अनुराग शर्मा
अवर सचिव

वायु सेना

सं. 114, दिनांक 4 मई 17—राष्ट्रपति निम्नलिखित स्थायी पदोन्नतियां करते हैं :-

भारतीय वायु सेना

स्क्वाड्रन लीडर से विंग कमांडर के स्थायी रैंक में

ए ई (एल) शाखा

रविन्द्र सिंह (26240),	09 जुलाई 12 से प्रभावी
दलीप सिंह गिल (26235),	09 जुलाई 12 से प्रभावी
आर एस विनय राज (26246),	09 जुलाई 12 से प्रभावी
नितीन चतुर्वेदी (26245),	09 जुलाई 12 से प्रभावी

शिक्षा शाखा

शर्मा अनुराधा (26181),	17 जून 13 से प्रभावी
बिष्ट प्रतिभा (26182),	16 सितंबर 13 से प्रभावी

ए ई (एम) शाखा

सिंह राकेश कुमार (26825),	06 जनवरी 14 से प्रभावी
शंभु बी एम (26826),	06 जनवरी 14 से प्रभावी

सिंह रजनीश कुमार (26828),	06 जनवरी 14 से प्रभावी
अग्रवाल नितिन कुमार (26829),	06 जनवरी 14 से प्रभावी
रामालिंगम नवीन प्रसाद (26830),	06 जनवरी 14 से प्रभावी
लक्ष्मण गौतम हसन (26809),	06 जनवरी 14 से प्रभावी
जनार्थन बालसुब्रमण्यम (26810),	06 जनवरी 14 से प्रभावी
पाठक प्रशान्त (26801),	06 जनवरी 14 से प्रभावी
सोन्स हॉनस्टन (26837),	06 जनवरी 14 से प्रभावी
ए ई (एल) शाखा	
गंगाधरन राजीव (26875),	06 जनवरी 14 से प्रभावी
पञ्जाल रोहित (26858)	06 जनवरी 14 से प्रभावी
प्रताप महेश(26842),	06 जनवरी 14 से प्रभावी
शर्मा रोहीन (26853),	06 जनवरी 14 से प्रभावी
ए ई (एम) शाखा	
कुमार समीर (26838),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
प्रशासनिक शाखा	
अरोरा सचिन (26083),	17 जून 13 से प्रभावी
वांतरिक्ष (एल) इंजीनियरी	
सिंह राजेंद्र (26681),	14 दिसम्बर 14 से प्रभावी
गणेश पलानिकेमी (26682),	14 दिसम्बर 14 से प्रभावी
सिंह राम सकल (26683),	14 दिसम्बर 14 से प्रभावी
शिक्षा शाखा	
सुनील कुमार (26389),	20 जनवरी 14 से प्रभावी
प्रशासन शाखा	
दूबे सुरेंद्र (26796),	19 जनवरी 15 से प्रभावी
सिंह महावीर (26797),	19 जनवरी 15 से प्रभावी
शिक्षा शाखा	
नेहरू राजामणकम (26798),	19 जनवरी 15 से प्रभावी
सिंह शंकर बक्स (26799),	19 जनवरी 15 से प्रभावी
प्रशासनिक शाखा	
मैथानी सोनिया (26618),	16 जून 14 से प्रभावी
चौधरी शालिनी (26617),	16 जून 14 से प्रभावी
कौर नवरत्न (26612),	16 जून 14 से प्रभावी
शर्मा प्रतिभा (26613),	16 जून 14 से प्रभावी
मिश्रा पारूल (26614),	16 जून 14 से प्रभावी
लेखा शाखा	
मेहता डेजी (26619),	16 जून 14 से प्रभावी
नमिता आनंद शर्मा (26621),	16 जून 14 से प्रभावी
भगुना प्रीति (26624),	16 जून 14 से प्रभावी
शिक्षा शाखा	
नेगी पूनम (26626),	16 जून 14 से प्रभावी
मौसम विज्ञान शाखा	
वर्मा विनिला (26212),	16 जून 14 से प्रभावी
पंडित श्रेया (26211),	16 जून 14 से प्रभावी

प्रशासनिक शाखा	
ठाकुर पूजा (26611),	16 जून 14 से प्रभावी
ए ई (एम) शाखा	
डिसूजा गृहित क्रिस (27159),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
सादिश आर (27160),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
ओझा अभिषेक (27190),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
डिमैलो थॉमस विल्फ्रेड (27158),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
सुजाता मुथुस्वामी (27166),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
अनिल कुमार पी (27162),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
ए ई (एल) शाखा	
मलिक दीप्ति (27189),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
शर्मा प्रणव (27170),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
सिंह तुहिना (27167),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
सिंह अंजली (27179),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
प्रिया महेश के (27182),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
चौहान शीतल (27184),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
बेदी मनप्रीत (27172),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
नायर रेणुका (27185),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
सारदा वी (27183),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
शुक्ला मनाली (27181),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
सूरी शिल्पा (27178),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
शर्मा पुनीत (27164),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
अरोड़ा सुरमी (27187),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
प्रशासनिक शाखा	
अय्यर कानन चन्द्रशेखरन (26587),	16 जून 14 से प्रभावी
जगन्नाथन विजय (26593),	16 जून 14 से प्रभावी
धवन रंजन (26577),	16 जून 14 से प्रभावी
पालीवाल महेश (26574),	16 जून 14 से प्रभावी
सिंह मुकेश कुमार (26590),	16 जून 14 से प्रभावी
ठाकुर अजय सिंह (26576),	16 जून 14 से प्रभावी
पांडे विपिन कुमार (26582),	16 जून 14 से प्रभावी
श्रीनिवासु गरिजीपति (26588),	16 जून 14 से प्रभावी
खन्ना अंसल (26594),	16 जून 14 से प्रभावी
इलानचेजिहान के (26583),	16 जून 14 से प्रभावी
भट्टाचार्य अनिमेष (26598),	16 जून 14 से प्रभावी
पुरी धीरज (26572),	16 जून 14 से प्रभावी
रावत रविन्द्र सिंह (26573),	16 जून 14 से प्रभावी
राठी सुनील सिंह (26575),	16 जून 14 से प्रभावी
सिद्धिकी अर्शी (26579),	16 जून 14 से प्रभावी
चौहान अशोक कुमार (26581),	16 जून 14 से प्रभावी
श्याम सुंदर (26584),	16 जून 14 से प्रभावी

चौधरी विक्रान्त (26585),	16 जून 14 से प्रभावी
राव मनोहर टी भीमसेन (26586),	16 जून 14 से प्रभावी
मेठानी नवीन (26589),	16 जून 14 से प्रभावी
भनोत्रा सुरेश (26591),	16 जून 14 से प्रभावी
एंटोनी के जे (26592),	16 जून 14 से प्रभावी
अभिषेक जी जे (26595),	16 जून 14 से प्रभावी
बिष्ट रबिन्द्र (26597),	16 जून 14 से प्रभावी
श्रीधर एस (26578),	16 जून 14 से प्रभावी
वर्गीस चैरायिल बिनु (26596),	16 जून 14 से प्रभावी
शर्मा सुरिन्द्र कुमार (26580),	16 जून 14 से प्रभावी

लेखा शाखा

राव ऑबिलिसेट्टी सतीश (26603),	16 जून 14 से प्रभावी
गौर परवेश (26601),	16 जून 14 से प्रभावी
जग्गी हरबीर सिंह (26600),	16 जून 14 से प्रभावी
दासगुप्ता सुभादीप (26604),	16 जून 14 से प्रभावी
शर्मा कुलभूषण (26599),	16 जून 14 से प्रभावी
शर्मा सुधांशु शेखर (26608),	16 जून 14 से प्रभावी
जोशी मनमोहन (26607),	16 जून 14 से प्रभावी
परिहार प्रशान्त (26605),	16 जून 14 से प्रभावी
बाली मनीष कुमार (26602),	16 जून 14 से प्रभावी

शिक्षा शाखा

दंगवाल विजय सिंह (26610),	16 जून 14 से प्रभावी
अमिताभ रंजन (26609),	16 जून 14 से प्रभावी

मौसम विज्ञान शाखा

वर्मा राहुल (26210),	16 जून 14 से प्रभावी
पटनी धीरेन्द्र कुमार (26209),	16 जून 14 से प्रभावी

एफ (पी) शाखा

अब्बोट अंकित (26511),	16 जून 14 से प्रभावी
सिंह सचिन्द्रा (26535),	16 जून 14 से प्रभावी
शर्मा अमित (26529),	16 जून 14 से प्रभावी
प्रसाद मुनिरत्नम केशव (26536),	16 जून 14 से प्रभावी
वर्मा विकास (26517),	16 जून 14 से प्रभावी
गुप्ता दीपांकर (26520),	16 जून 14 से प्रभावी
कौशल विनीत कुमार (26528),	16 जून 14 से प्रभावी
मेहता विशाल (26538),	16 जून 14 से प्रभावी
चीमा हरप्रीत (26543),	16 जून 14 से प्रभावी
नेगी कौशल सिंह (26549),	16 जून 14 से प्रभावी
भार्गव विशाल (26553),	16 जून 14 से प्रभावी
मिश्रा अजय कृष्णा (26522),	16 जून 14 से प्रभावी
अस्थाना अम्बुज शेखर (26562),	16 जून 14 से प्रभावी
श्रीगणेश टी (26527),	16 जून 14 से प्रभावी
दहिया योगेश चन्द्र (26539),	16 जून 14 से प्रभावी
शर्मा अमित (26545),	16 जून 14 से प्रभावी

सिंह अर्जुन (26546),	16 जून 14 से प्रभावी
गोजा उपपेश (26548),	16 जून 14 से प्रभावी
मोहापात्रा दीपक (26550),	16 जून 14 से प्रभावी
गोयल पवन कुमार (26551),	16 जून 14 से प्रभावी
सरावनावेल एस (26552),	16 जून 14 से प्रभावी
श्रोतिया विकास (26555),	16 जून 14 से प्रभावी
शेखर चन्द्र (26556),	16 जून 14 से प्रभावी
मेहता अमित (26557),	16 जून 14 से प्रभावी
शर्मा राजेश कुमार (26559),	16 जून 14 से प्रभावी
कुलकर्णी अतुल बालकृष्णा (26560),	16 जून 14 से प्रभावी
धंकर समर्थ (26513),	16 जून 14 से प्रभावी
नायल नितिन (26515),	16 जून 14 से प्रभावी
बिल्लिंग दलेर सिंह (26516),	16 जून 14 से प्रभावी
पाटिल विजय कृष्णात (26519),	16 जून 14 से प्रभावी
चौधरी आदर्श कुमार (26524),	16 जून 14 से प्रभावी
सिंह मनीष कुमार (26526),	16 जून 14 से प्रभावी
माथुर अंकुर (26531),	16 जून 14 से प्रभावी
शुक्ला विनय (26532),	16 जून 14 से प्रभावी
भारत एम एस (26534),	16 जून 14 से प्रभावी
सिंह सिद्धार्थ के एम जे (26540),	16 जून 14 से प्रभावी
उनियाल विक्रांत (26544),	16 जून 14 से प्रभावी
शंकरम शिव (26561),	16 जून 14 से प्रभावी
रॉय फाल्गुनी लाहा (26512),	16 जून 14 से प्रभावी
पठानिया रोहित आर (26514),	16 जून 14 से प्रभावी
होसे ओवेलिल जीजो (26518),	16 जून 14 से प्रभावी
सॉ परबीर (26521),	16 जून 14 से प्रभावी
दास बुद्धादित्या (26523),	16 जून 14 से प्रभावी
भारत के (26525),	16 जून 14 से प्रभावी
उज्जवल कुमार (26530),	16 जून 14 से प्रभावी
मुखर्जी जॉय (26533),	16 जून 14 से प्रभावी
प्रशासनिक शाखा	
तिवारी विवेक (26558),	16 जून 14 से प्रभावी
एफ (पी) शाखा	
सभरवाल निकिश (26627),	16 जुलाई 14 से प्रभावी
एफ (एन) शाखा	
शर्मा सतीश (26569),	16 जून 14 से प्रभावी
राय प्रदीप कुमार (26566),	16 जून 14 से प्रभावी
पाठक आशीष (26567),	16 जून 14 से प्रभावी
वल्लुरु अनिल कुमार (26570),	16 जून 14 से प्रभावी
शर्मा शशि भूषण (26564),	16 जून 14 से प्रभावी
सूद आशीष कुमार (26568),	16 जून 14 से प्रभावी
प्रशासनिक शाखा	
सिन्हा अविनाश शरण (26571),	16 जून 14 से प्रभावी
भास कुरुम्बुर बिंजु (26565),	16 जून 14 से प्रभावी

प्लाइट लेफ्टिनेंट से स्क्वाड्रन लीडर के मूल रैंक में

एफ (पी) शाखा

कौशिक मिश्रा	(29222)	15 दिसम्बर 2012 से प्रभावी
--------------	---------	----------------------------

एफ पी शाखा

राजा गोपाल मानु	(29227)	15 दिसम्बर 12 से प्रभावी
-----------------	---------	--------------------------

शिक्षा शाखा

मैथ्यू दीपु	(29763)	22 जनवरी 14 से प्रभावी 16 दिसम्बर 13 काल्पनिक वरीयता से प्रभावी
-------------	---------	--

प्रशासनिक शाखा

अभिमन्यु सिंह	(29752)	12 अगस्त 15 से प्रभावी
---------------	---------	------------------------

ए ई (एम) शाखा

यादव दीपेश कुमार	(29652)	02 जुलाई 13 से प्रभावी
------------------	---------	------------------------

प्रशासनिक शाखा

सज्जा श्री चहन्निया	(29532)	6 जून 13 से प्रभावी
लोहानी जुगल किशोर	(29520)	16 जून 13 से प्रभावी
त्रिपाठी ओम कुमार	(29526)	16 जून 13 से प्रभावी

संभारिकी शाखा

अफजल मोहम्मद निशत	(29568)	16 जून 13 से प्रभावी
त्रिपाठी उमेन्द्र कुमार	(29569)	16 जून 13 से प्रभावी
चुलाकल राजू विजयन	(29573)	16 जून 13 से प्रभावी
सिंह धनंजय प्रसाद	(29571)	16 जून 13 से प्रभावी
कुमार एम सुनील	(29572)	16 जून 13 से प्रभावी
सिंह नरेन्द्र कुमार	(29570)	16 जून 13 से प्रभावी

शिक्षा शाखा

वीरेन्द्र सिंह	(29574)	16 जून 13 से प्रभाव
----------------	---------	---------------------

ए ई (एम) शाखा

रावत मिशू	(30262)	08 जनवरी 14 से प्रभावी
देशावल सौरभ	(30269)	08 जनवरी 14 से प्रभावी
कटोच प्रजुल	(30267)	08 जनवरी 14 से प्रभावी
गढ़ोक मुदित	(30266)	08 जनवरी 14 से प्रभावी
कश्यप मनोज	(30264)	08 जनवरी 14 से प्रभावी
प्रदीप आर राम जय	(30263)	08 जनवरी 14 से प्रभावी
भारुंगर राजेश	(30265)	08 जनवरी 14 से प्रभावी
कपूर थलज	(30260)	08 जनवरी 14 से प्रभावी
शुभांकर	(30259)	08 जनवरी 14 से प्रभावी
सिसोदिया चित्रेश	(30261)	08 जनवरी 14 से प्रभावी

ए ई (एल) शाखा

विकास	(30304)	08 जनवरी 14 से प्रभावी
संघेरा कुशदीप सिंह	(30305)	08 जनवरी 14 से प्रभावी
जाखर विकास	(30306)	08 जनवरी 14 से प्रभावी
वालिया संदीप	(30307)	08 जनवरी 14 से प्रभावी
वत्स प्रशांत कुमार	(30308)	08 जनवरी 14 से प्रभावी
बोहरा दीक्षांत	(30309)	08 जनवरी 14 से प्रभावी
वर्मा संकेत	(30270)	08 जनवरी 14 से प्रभावी
कुमार विकास	(30271)	08 जनवरी 14 से प्रभावी
निखिल पी ए	(30272)	08 जनवरी 14 से प्रभावी
चन्द्र विनोद	(30273)	08 जनवरी 14 से प्रभावी
भट्टाचार्य आनंद शंकर	(30274)	08 जनवरी 14 से प्रभावी
मंडल प्रदीप	(30688)	08 जनवरी 14 से प्रभावी
चन्द्र जॉयदीप	(30276)	08 जनवरी 14 से प्रभावी
गुप्ता आयुष	(30277)	08 जनवरी 14 से प्रभावी
रावत दीपक सिंह	(30278)	08 जनवरी 14 से प्रभावी
कुमार धीरज	(30279)	08 जनवरी 14 से प्रभावी
बेतोलिया योगेश कुमार	(30280)	08 जनवरी 14 से प्रभावी
कुमार राकेश	(30281)	08 जनवरी 14 से प्रभावी
द्विवेदी हिमांशु	(30282)	08 जनवरी 14 से प्रभावी
रोहित राजन	(30283)	08 जनवरी 14 से प्रभावी
सिंह राजविन्दर	(30293)	08 जनवरी 14 से प्रभावी
कंसल विन्नी	(30294)	08 जनवरी 14 से प्रभावी
सिद्ध मंदीप	(30295)	08 जनवरी 14 से प्रभावी
सिंघल पुनीत	(30296)	08 जनवरी 14 से प्रभावी
राठौर विधु	(30297)	08 जनवरी 14 से प्रभावी
राणा विवेक सिंह	(30298)	08 जनवरी 14 से प्रभावी
जैन पवेल	(30299)	08 जनवरी 14 से प्रभावी
पाठक गजेन्द्र	(30301)	08 जनवरी 14 से प्रभावी
बाबू संजीव	(30284)	08 जनवरी 14 से प्रभावी
राघवेन्द्र अनकला	(30285)	08 जनवरी 14 से प्रभावी
प्रवीण कुपिली साई	(30286)	08 जनवरी 14 से प्रभावी
सिंह शक्ति	(30687)	08 जनवरी 14 से प्रभावी
सिंह आशुतोष	(30287)	08 जनवरी 14 से प्रभावी
आर्या साकेत	(30288)	08 जनवरी 14 से प्रभावी
ससिधरण रातीश थत्तनपरंबिल	(30289)	08 जनवरी 14 से प्रभावी
फिरोज मोहम्मद काशिफ	(30290)	08 जनवरी 14 से प्रभावी
बिश्नोई प्रमोद	(30291)	08 जनवरी 14 से प्रभावी
गुप्ता रोहित	(30292)	08 जनवरी 14 से प्रभावी
कोत्तुरसामी राजा पांडियन	(30353)	08 जनवरी 14 से प्रभावी
परवेज खालिद	(30303)	08 जनवरी 14 से प्रभावी
गोपाकुमार एस	(30300)	08 जनवरी 14 से प्रभावी

तंवर दिग्विजय सिंह	(30302)	08 जनवरी 14 से प्रभावी
नाथ सौमैन्द्र कुमार	(30316)	08 जनवरी 14 से प्रभावी
नटराज नवीन	(30315)	08 जनवरी 14 से प्रभावी
साहिल दीप	(30314)	08 जनवरी 14 से प्रभावी
रॉय सौरसत्त्व	(30313)	08 जनवरी 14 से प्रभावी
मुखर्जी सुभासीष	(30312)	08 जनवरी 14 से प्रभावी
बघेल शरद कुमार सिंह	(30311)	08 जनवरी 14 से प्रभावी
राज निखिल	(30310)	08 जनवरी 14 से प्रभावी
यादव दीपक	(30275)	08 जनवरी 14 से प्रभावी
ए ई (एम) शाखा		
उन्नीकृष्णन हरि कृष्णन	(30268)	31 जनवरी 14 से प्रभावी
प्रशासनिक शाखा		
कुमार विकास	(29772)	16 दिसम्बर 13 से प्रभावी
मलिक दिनेश सिंह	(29773)	16 दिसम्बर 13 से प्रभावी
मिश्रा सब्यसाची	(29783)	16 दिसम्बर 13 से प्रभावी
सिंह प्रवीण	(29782)	16 दिसम्बर 13 से प्रभावी
कुमार सुनील	(29781)	16 दिसम्बर 13 से प्रभावी
चाहर हरविन्दर सिंह	(29780)	16 दिसम्बर 13 से प्रभावी
परिहार विकास सिंह	(29779)	16 दिसम्बर 13 से प्रभावी
साहू सुरेश चन्द्र	(29778)	16 दिसम्बर 13 से प्रभावी
सिंह प्रणय कुमार	(29774)	16 दिसम्बर 13 से प्रभावी
दुबे भावेश कुमार	(29775)	16 दिसम्बर 13 से प्रभावी
गुप्ता अंकुश	(29776)	16 दिसम्बर 13 से प्रभावी
शर्मा राकेश	(29777)	16 दिसम्बर 13 से प्रभावी
संभारिकी शाखा		
गुप्ता राजेश कुमार	(29785)	16 दिसम्बर 13 से प्रभावी
कुमार नरेश	(29784)	16 दिसम्बर 13 से प्रभावी
जाधव विजय कुमार	(29789)	16 दिसम्बर 13 से प्रभावी
शर्मा विजय कृष्णा	(29788)	16 दिसम्बर 13 से प्रभावी
कुमार अरुण	(29787)	16 दिसम्बर 13 से प्रभावी
प्रकाश विनायक बुध	(29786)	16 दिसम्बर 13 से प्रभावी
लेखा शाखा		
मथार्ई सूरज	(29790)	16 दिसम्बर 13 से प्रभावी
प्रशासनिक शाखा		
शर्मा विनम्रता	(29799)	16 दिसम्बर 13 से प्रभावी
वर्मा प्रियंका	(29797)	16 दिसम्बर 13 से प्रभावी
राणा कनुप्रिया	(29804)	16 दिसम्बर 13 से प्रभावी
प्रार्थना	(29803)	16 दिसम्बर 13 से प्रभावी
सिंह आकांक्षा	(29802)	16 दिसम्बर 13 से प्रभावी
यादव प्रियंका	(29801)	16 दिसम्बर 13 से प्रभावी
यादव प्रीति	(29800)	16 दिसम्बर 13 से प्रभावी
माघव अदिति	(29798)	16 दिसम्बर 13 से प्रभावी

संभारिकी शाखा		
तोमर विभा	(29809)	16 दिसम्बर 13 से प्रभावी
सिंह प्रांजली	(29808)	16 दिसम्बर 13 से प्रभावी
शर्मा शिल्पी	(29807)	16 दिसम्बर 13 से प्रभावी
जून प्रीति	(29806)	16 दिसम्बर 13 से प्रभावी
चोपड़ा सिमरन	(29805)	16 दिसम्बर 13 से प्रभावी
लेखा शाखा		
रेखी सोनिया	(29816)	16 दिसम्बर 13 से प्रभावी
चौहान पल्लवी	(29811)	16 दिसम्बर 13 से प्रभावी
बिष्ट सुजाता	(29812)	16 दिसम्बर 13 से प्रभावी
सिंह दीक्षा	(29815)	16 दिसम्बर 13 से प्रभावी
धर्माई देवयानी	(29814)	16 दिसम्बर 13 से प्रभावी
बोहरा शिल्पा	(29813)	16 दिसम्बर 13 से प्रभावी
शिक्षा शाखा		
सिंह अनुराधा	(29817)	16 दिसम्बर 13 से प्रभावी
पाण्डे श्वेता	(29818)	16 दिसम्बर 13 से प्रभावी
मौसम-विज्ञान शाखा		
यादव तरूणा	(29413)	16 दिसम्बर 13 से प्रभावी
संभारिकी शाखा		
बलहारा सुनील कुमार	(29870)	16 दिसम्बर 13 से प्रभावी
शिक्षा शाखा		
आर्या अजय कुमार	(29771)	16 दिसम्बर 13 से प्रभावी
प्रशासनिक शाखा		
कुमार दीपक	(30001)	21 जून 14 से प्रभावी
कुमार अनूप	(30002)	21 जून 14 से प्रभावी
संभारिकी शाखा		
त्रिवेदी विनीत कुमार	(30004)	21 जून 14 से प्रभावी
केसवानी लकी	(30003)	21 जून 14 से प्रभावी
चौधरी अमन	(30005)	21 जून 14 से प्रभावी
एफ (पी) शाखा		
आर्या सुरभि	(30006)	21 जून 14 से प्रभावी
सेठी सोनाली	(30008)	21 जून 14 से प्रभावी
पाटिल तेजश्री मुकुंद	(30007)	21 जून 14 से प्रभावी
प्रशासनिक शाखा		
शुक्ला प्रभांशु (29980),		21 जून 14 से प्रभावी
शर्मा आशीष (29978),		21 जून 14 से प्रभावी
कटोच अभिषेक (29975),		21 जून 14 से प्रभावी
अजिथ गोपालन (29976),		21 जून 14 से प्रभावी
कुमार जी वी सत्येन्द्र (29969),		21 जून 14 से प्रभावी
सिंह दीपक कुमार (29971),		21 जून 14 से प्रभावी
बुद्धिराजा राघव (29974),		21 जून 14 से प्रभावी

कुमार के किरण (29973),	21 जून 14 से प्रभावी
साहा प्रवास कुमार (29984),	21 जून 14 से प्रभावी
काम्बले प्रबुधा कुमार रविन्द्र (29983),	21 जून 14 से प्रभावी
खान एजाज अली (29982),	21 जून 14 से प्रभावी
पाटिल महेन्द्र कुमार एस (29981),	21 जून 14 से प्रभावी
कुमार नरेश (29979),	21 जून 14 से प्रभावी
सिंह कृष्णवीर (29977),	21 जून 14 से प्रभावी
सिंह शैलेश कुमार (29972),	21 जून 14 से प्रभावी

संभारिकी शाखा

कुम्पावत लोकेन्द्र सिंह (29990),	21 जून 14 से प्रभावी
वर्मा संदीप सहाय (29989),	21 जून 14 से प्रभावी
रजा मोहसिन (29986),	21 जून 14 से प्रभावी
बिष्ट हेमन्त (29987),	21 जून 14 से प्रभावी
कुमार मनीष (29988),	21 जून 14 से प्रभावी
बिनीष मनोथ सदानन्दन (29985),	21 जून 14 से प्रभावी

लेखा शाखा

तोमर रवि (29994),	21 जून 14 से प्रभावी
कुलश्रेष्ठा निमेष (29992),	21 जून 14 से प्रभावी
विल्सन विष्णु (29991),	21 जून 14 से प्रभावी

शिक्षा शाखा

खरबंदा सिद्धार्थ (29996),	21 जून 14 से प्रभावी
तिवारी धर्मवीर (29997),	21 जून 14 से प्रभावी
शर्मा संजीव (29998),	21 जून 14 से प्रभावी
चौधरी संजीव कुमार (29995),	21 जून 14 से प्रभावी

मौसम विज्ञान शाखा

इलारमुरुगु एस शिवा (29670),	21 जून 14 से प्रभावी
सद हरि प्रसाद (29999),	21 जून 14 से प्रभावी

ए ई (एम) शाखा

सिंह नरिन्द्रजीत (30550),	02 जुलाई 14 से प्रभावी
प्रदीप आर जे (30551),	02 जुलाई 14 से प्रभावी
तोमर सौरभ (30552),	02 जुलाई 14 से प्रभावी
थॉमस सनिल पी (30553),	02 जुलाई 14 से प्रभावी
बाली रोहित (30554),	02 जुलाई 14 से प्रभावी
मान राहुल (30556),	02 जुलाई 14 से प्रभावी
कुमार मधुसुदन (30557),	02 जुलाई 14 से प्रभावी
दूबे दर्पण के (30548),	02 जुलाई 14 से प्रभावी
रमन ए रघु (30549),	02 जुलाई 14 से प्रभावी

ए ई (एल) शाखा

कुमार विकास (30564),	02 जुलाई 14 से प्रभावी
शर्मा विनीत कुमार (30583),	02 जुलाई 14 से प्रभावी
कुमार अमित (30566),	02 जुलाई 14 से प्रभावी

अरुणाचलम बी (30567),	02 जुलाई 14 से प्रभावी
डोडला सिवा कृष्णा (30568),	02 जुलाई 14 से प्रभावी
सिंह मनवेन्द्रा (30569),	02 जुलाई 14 से प्रभावी
मूले अंकित (30571),	02 जुलाई 14 से प्रभावी
सिंह जनमीत (30595),	02 जुलाई 14 से प्रभावी
चक्रवर्ती राहुल (30596),	02 जुलाई 14 से प्रभावी
यादव सौरभ (30598),	02 जुलाई 14 से प्रभावी
रवि एच के (30599),	02 जुलाई 14 से प्रभावी
त्यागी अभिमन्यु (30600),	02 जुलाई 14 से प्रभावी
शर्मा मनीष (30601),	02 जुलाई 14 से प्रभावी
सिंह जतिन (30602),	02 जुलाई 14 से प्रभावी
चौहान विशाल (30603),	02 जुलाई 14 से प्रभावी
गुट्टल मानस एम (30559),	02 जुलाई 14 से प्रभावी
खंडेलवाल राहुल (30560),	02 जुलाई 14 से प्रभावी
दत्ता सुदीप कुमार (30561),	02 जुलाई 14 से प्रभावी
वाधवान करन (30562),	02 जुलाई 14 से प्रभावी
अचार चेतन बी (30563),	02 जुलाई 14 से प्रभावी
शर्मा रोनक (30573),	02 जुलाई 14 से प्रभावी
शर्मा विशाल (30574),	02 जुलाई 14 से प्रभावी
यादव योगेश कुमार (30575),	02 जुलाई 14 से प्रभावी
वर्मा दीप भूषण (30576),	02 जुलाई 14 से प्रभावी
रविकांत (30577),	02 जुलाई 14 से प्रभावी
पुजारी अभिषेक (30605),	02 जुलाई 14 से प्रभावी
मित्तल सौरभ (30606),	02 जुलाई 14 से प्रभावी
चंदन आशीष (30607),	02 जुलाई 14 से प्रभावी
मलिक पंकज सिंह (30608),	02 जुलाई 14 से प्रभावी
राठी प्रदीप कुमार (30609),	02 जुलाई 14 से प्रभावी
जितेन्द्र (30610),	02 जुलाई 14 से प्रभावी
कुमार जितेश (30611),	02 जुलाई 14 से प्रभावी
कुमार अभिषेक (30612),	02 जुलाई 14 से प्रभावी
श्रीवास्तव गौतम (30613),	02 जुलाई 14 से प्रभावी
फिलिपोस सिबिन डेनियल (30614),	02 जुलाई 14 से प्रभावी
चक्रवर्ती रीजू (30615),	02 जुलाई 14 से प्रभावी
हुई सौविक (30616),	02 जुलाई 14 से प्रभावी
गोपालकृष्णन आर (30617),	02 जुलाई 14 से प्रभावी
गंगवाल प्रतीक (30684),	02 जुलाई 14 से प्रभावी
शर्मा अंकित (30584),	02 जुलाई 14 से प्रभावी
जामवाल जितेन्द्र (30585),	02 जुलाई 14 से प्रभावी
बजाज भारत (30588),	02 जुलाई 14 से प्रभावी
सिंह संदीप कुमार (30589),	02 जुलाई 14 से प्रभावी
सेठ प्रणय (30590),	02 जुलाई 14 से प्रभावी

कुमार रंजन (30591),	02 जुलाई 14 से प्रभावी
घोष तुहिन (30592),	02 जुलाई 14 से प्रभावी
समर्थ शरद (30593),	02 जुलाई 14 से प्रभावी
गर्ग प्रशान्त (30594),	02 जुलाई 14 से प्रभावी
सक्सेना अम्लिल (30634),	02 जुलाई 14 से प्रभावी
कुमार अप्पाराजू किरण (30689),	02 जुलाई 14 से प्रभावी
अहलावत रवि कुमार (30586),	02 जुलाई 14 से प्रभावी
जसवाल बिक्रमजीत सिंह (30587)	02 जुलाई 14 से प्रभावी
विके दिक्षीत (30558)	12 अगस्त 16 से प्रभावी
प्रतीक वरुण (30604),	02 जुलाई 14 से प्रभावी
आनंदा पदमनाभावन एल (30578),	02 जुलाई 14 से प्रभावी
करूपकार मनी (30579),	02 जुलाई 14 से प्रभावी
जैन अमन (30580),	02 जुलाई 14 से प्रभावी
शर्मा पंकज (30581),	02 जुलाई 14 से प्रभावी
गौरव (30582),	02 जुलाई 14 से प्रभावी
कुमार सौरभ (30565),	02 जुलाई 14 से प्रभावी
शर्मा गायत्री (30120),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
बेडेरे सुनील बाबू जनार्दन (30102),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
सिंह अमनदीप (30104),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
कार्तिक विजय (30105),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
छिब्रर सुशांत (30106),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
बत्रा संयम (30107),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
चोपड़ा रमनदीप सिंह (30108),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
दूबे आलोक (30110),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
राठौर शिवम (30111),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
जॉर्ज स्टैन्ले (30112),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
शर्मा उमेश (30113),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
कुमार अरुण (30114),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
आनंद (30115),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
प्रीतिश (30116),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
वर्मा अभिषेक (30117),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
रस्तोगी मंजरी (30118),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
मिश्रा गरिमा (30119),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
मित्तल अदिति (30122),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
लोमस अनुष्का (30123),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
कौर सरनिश (30124),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
दीपिका (30125),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
कौर गुरविंदर (30126),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
तिवारी प्रेरणा (30127),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
कुमारी वंदना (30128),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
कौर रमनदीप (30130),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
कौर नवजीत (30131),	07 जुलाई 14 से प्रभावी

साहिल ऋषिका (30132),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
दूबे हर्षा (30121),	07 जुलाई 14 से प्रभावी
सुचन्द्रा कयथसन्द्रा रमेश (30155),	28 जुलाई 14 से प्रभावी
ठाकरे प्रतीक्षा (30153),	20 जुलाई 14 से प्रभावी
भटनागर हर्षिता (30152),	20 जुलाई 14 से प्रभावी
मिश्रा मनाली (30151),	20 जुलाई 14 से प्रभावी
ढिल्लो हरप्रीत सिंह (30150),	19 जुलाई 14 से प्रभावी
सिंह अनुपम (30149),	18 जुलाई 14 से प्रभावी
यादव सोनिया (30148),	18 जुलाई 14 से प्रभावी
कंवर अंकित (30147),	18 जुलाई 14 से प्रभावी
पाणिग्रही कस्तूरिका (30144),	16 जुलाई 14 से प्रभावी

प्रशासनिक शाखा

सरवरा देविन्द्र सिंह (30000),	21 जून 14 से प्रभावी
देवी कोंथोजम नंदेशोरी (30018),	21 जून 14 से प्रभावी
रावत मनुराधा (30016),	21 जून 14 से प्रभावी
सिंह रितु (30017),	21 जून 14 से प्रभावी
पंवार वरलिन (30015),	21 जून 14 से प्रभावी
जोशी साधना (30014),	21 जून 14 से प्रभावी
उपाध्या नेहा (30013),	21 जून 14 से प्रभावी
ढाका छवि (30012),	21 जून 14 से प्रभावी
शेखर तान्या (30011),	21 जून 14 से प्रभावी
कुमारी बिरेश (30019),	21 जून 14 से प्रभावी

संभारिकी शाखा

मिश्रा कनक (30026),	21 जून 14 से प्रभावी
चंदोला ऐश्वर्या (30025),	21 जून 14 से प्रभावी
इशानी (30024),	21 जून 14 से प्रभावी
कुत्तप्पा ताशीना (30023),	21 जून 14 से प्रभावी
वशिष्ठ अनामिका (30022),	21 जून 14 से प्रभावी
भावना (30021),	21 जून 14 से प्रभावी
ठाकुर रुपल सोनम (30020),	21 जून 14 से प्रभावी

लेखा शाखा

कुलकर्णी क्षितिजा दिवाकर (30027),	21 जून 14 से प्रभावी
-----------------------------------	----------------------

शिक्षा शाखा

सेठी करिश्मा (30028),	21 जून 14 से प्रभावी
राठी सुचेता (30029),	21 जून 14 से प्रभावी

एफ (पी) शाखा

कटोच दिव्या	(29793)	16 दिसम्बर 13 से प्रभावी
नायक तन्मय एच	(29794)	16 दिसम्बर 13 से प्रभावी
ढिल्लन हरनीत	(29791)	16 दिसम्बर 13 से प्रभावी
चौहान प्रियदर्शिनी	(29792)	16 दिसम्बर 13 से प्रभावी
बालचन्द्रन के स्नेहा	(29795)	16 दिसम्बर 13 से प्रभावी
परिजात अगाशे	(29199)	15 दिसम्बर 12 से प्रभावी

डी जर्स]	(29249)	15 दिसम्बर 12 से प्रभावी
पुष्पा राजगोपाल अभिलाष	(29252)	15 दिसम्बर 12 से प्रभावी
फलाइंग अफसर से फ्लाइट लेफ्टिनेंट के स्थायी रैंक में ए ई (एम) शाखा		
तरुण चंदेल (32245),		07 जनवरी 13 से प्रभावी
कल्बली बेग सरकेल (32246),		07 जनवरी 13 से प्रभावी
अमर पांडे (32250),		07 जनवरी 13 से प्रभावी
ऋषि राज (32248),		07 जनवरी 13 से प्रभावी
क्षितिज (32249),		07 जनवरी 13 से प्रभावी
अभिनव कुमार आचार्य (32247),		07 जनवरी 13 से प्रभावी
सजल श्याम सिंह (32251),		07 जनवरी 13 से प्रभावी
सुशांत कुमार शर्मा(32244),		07 जनवरी 13 से प्रभावी
ए ई (एल) शाखा		
वैभव शर्मा (32270),		07 जनवरी 13 से प्रभावी
गुरासिस सिंह (32273),		07 जनवरी 13 से प्रभावी
प्रथमेश जैन (32275),		07 जनवरी 13 से प्रभावी
ब्रिस्टो थंकचन (32266),		07 जनवरी 13 से प्रभावी
अरविन्द कुमार कादियन (32363),		07 जनवरी 13 से प्रभावी
शिखर अग्रवाल (32263),		07 जनवरी 13 से प्रभावी
इन्द्र सेतिया (32292),		07 जनवरी 13 से प्रभावी
हिमांशु भंडारी (32300),		07 जनवरी 13 से प्रभावी
शंकर विगनेश (32279),		07 जनवरी 13 से प्रभावी
अभिनव अरुण पराशर (32256),		07 जनवरी 13 से प्रभावी
अभिमन्यु सिंह (32293),		07 जनवरी 13 से प्रभावी
मनीष यादव (32287),		07 जनवरी 13 से प्रभावी
सिद्धार्थ त्रिपाठी (32260),		07 जनवरी 13 से प्रभावी
अनुराग कुमार सिंह (32264),		07 जनवरी 13 से प्रभावी
विवेक कुमार (32274),		07 जनवरी 13 से प्रभावी
मनीष अरोड़ा (32280),		07 जनवरी 13 से प्रभावी
अरुण यादव (32302),		07 जनवरी 13 से प्रभावी
प्रवेश शर्मा (32265),		07 जनवरी 13 से प्रभावी
श्रीराज राजन (32282),		07 जनवरी 13 से प्रभावी
अंकित सतीजा (32257),		07 जनवरी 13 से प्रभावी
एम श्री रघु वामसी (32301),		07 जनवरी 13 से प्रभावी
सर्वजीत सिंह (32267),		07 जनवरी 13 से प्रभावी
अभिजीत सुरेश पाटिल (32272),		07 जनवरी 13 से प्रभावी
आशुतोष वर्मा (32277),		07 जनवरी 13 से प्रभावी
रंजीत असैतांबी (32295),		07 जनवरी 13 से प्रभावी
संजय सिंह चौहान (32258),		07 जनवरी 13 से प्रभावी
सुभाजीत मजुमदार (32255),		07 जनवरी 13 से प्रभावी
लोकेश एस (32269),		07 जनवरी 13 से प्रभावी

अंकुश राजपूत (32276),	07 जनवरी 13 से प्रभावी
कृपाल चौधरी (32297),	07 जनवरी 13 से प्रभावी
विनय अत्री (32288),	07 जनवरी 13 से प्रभावी
डब्लिरू रवि (32291),	07 जनवरी 13 से प्रभावी
सुमित गहलावत (32268),	07 जनवरी 13 से प्रभावी
संतोष मणि (32298),	07 जनवरी 13 से प्रभावी
रोहित गुप्ता (32281),	07 जनवरी 13 से प्रभावी
रोहित (32296),	07 जनवरी 13 से प्रभावी
अविनाश कुमार सिंह (32262),	07 जनवरी 13 से प्रभावी
शिवा (32259),	07 जनवरी 13 से प्रभावी
अमित गुप्ता (32286),	07 जनवरी 13 से प्रभावी
सुधांशु त्यागी (32294),	07 जनवरी 13 से प्रभावी
नवीन कुमार सिंह (32252),	07 जनवरी 13 से प्रभावी
आनंद कुमार झा (32744),	07 जनवरी 13 से प्रभावी
एल प्रवीण कुमार (32253),	07 जनवरी 13 से प्रभावी
सिबी क्रिस मैथ्यु (32285),	07 जनवरी 13 से प्रभावी
प्रशान्त कोचर (32290),	07 जनवरी 13 से प्रभावी
एबिन फ्रांसिस (32299),	07 जनवरी 13 से प्रभावी
आसिफ नजीर बेग (32261),	07 जनवरी 13 से प्रभावी
निनाद अंजली वमन (32254),	07 जनवरी 13 से प्रभावी
धर्मज्ञ सिंह (32743),	07 जनवरी 13 से प्रभावी
राहुल दहिया (32289),	07 जनवरी 13 से प्रभावी
विरेन्द्र प्रताप सिंह (32284),	07 जनवरी 13 से प्रभावी
प्रशासन शाखा	
श्रीकान्त मडगी (31798),	18 जून 13 से प्रभावी
एफ (पी) शाखा	
एस कुमार (31888),	25 जून 13 से प्रभावी
तेजस कवाले (31742)	18 जून 13 से प्रभावी
एफ (एन) शाखा	
ए श्रीवास्तव (31867),	18 जुलाई 13 से प्रभावी
एफ (पी) शाखा	
राजेन्द्र सिंह (31819),	18 जून 13 से प्रभावी
ए वी सिंह (31825),	18 जून 13 से प्रभावी
श्रीनाथ एस (31827),	18 जून 13 से प्रभावी
ए टी मनचेकर (31826),	18 जून 13 से प्रभावी
ए ई (एम) शाखा	
सुमित गोयल (31894),	02 जुलाई 12 से प्रभावी
आदित्य नारायण सिंह (31895),	02 जुलाई 12 से प्रभावी
ए ई (एल) शाखा	
नरेनधिरन सरगुनम (31916),	02 जुलाई 12 से प्रभावी

लव गोयल (31917),	02 जुलाई 12 से प्रभावी
विवेक चौहान (31904),	02 जुलाई 12 से प्रभावी
डेनिस जॉन (31918),	02 जुलाई 12 से प्रभावी
प्रियम वार्ष्णेय (31907),	02 जुलाई 12 से प्रभावी
प्रवीण हुडा (31908),	02 जुलाई 12 से प्रभावी
चिन्मय किरण तल्हार (31911),	02 जुलाई 12 से प्रभावी
अजय कुमार (31930),	02 जुलाई 12 से प्रभावी
विकाश कुमार यादव (31934),	02 जुलाई 12 से प्रभावी
शाह नवाज़ आलम (31912),	02 जुलाई 12 से प्रभावी
अभिषेक त्रिपाठी (31909),	02 जुलाई 12 से प्रभावी
नजीव कुमार शर्मा (31927),	02 जुलाई 12 से प्रभावी
सौरभ गुप्ता (32020),	02 जुलाई 12 से प्रभावी
दीपिका (33104),	07 जनवरी 15 से प्रभावी

एफ (पी) शाखा

एस जयसवाल (32779),	15 दिसम्बर 14 से प्रभावी
--------------------	--------------------------

प्र स सुरंगे
विंग कमांडर
संयुक्त निदेशक
कार्मिक अफसर— 3(डी)

वायु सेना

सं. 115, दिनांक 5 मई 2017—राष्ट्रपति निम्नलिखित स्थायी पदोन्नति करते हैं :—

भारतीय वायु सेना

फ्लाइट लेफ्टिनेंट से स्क्वाड्रन लीडर के स्थायी रैंक में

एफ (पी) शाखा

अल्का शुक्ला	(29291)	15 दिसम्बर 12 से प्रभावी
इला अनूप	(29287)	15 दिसम्बर 12 से प्रभावी
दीपिका मिश्रा	(29283)	15 दिसम्बर 12 से प्रभावी
नेहा जायसवाल	(29285)	15 दिसम्बर 12 से प्रभावी
मोना जाखड़	(29284)	15 दिसम्बर 12 से प्रभावी
एकता गांधी	(29289)	15 दिसम्बर 12 से प्रभावी
डी दास	(29286)	15 दिसम्बर 12 से प्रभावी
सपना बालयान	(29288)	15 दिसम्बर 12 से प्रभावी

टी के खरे
विंग कमांडर
संयुक्त निदेशक
कार्मिक अफसर— 3 (डी)

एयर शाखा

सं. 116, दिनांक 8 मई 2017—भारत के राष्ट्रपति ने प्रसन्न होकर निम्नलिखित पदोन्नतियों की हैं:—

(जूवाअ से मूल वाअ)

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल रैंक दिनांक
693432	वाअ	पदम सिंह	एसीएच जीडी	01 जनवरी 16
694621	वाअ	सुरेन्द्र सिंह	एसीएच जीडी	01 जनवरी 16
701756	वाअ	मूलचंद	एसीएच जीडी	01 जनवरी 16
702685	वाअ	मोहम्मद शरफुद्दीन	एसीएच जीडी	01 जनवरी 16
702705	वाअ	उत्तम हलदर	एसीएच जीडी	01 जनवरी 16
701467	वाअ	दिनेश कुमार शर्मा	एसीएच जीडी	03 जनवरी 16
701193	वाअ	रमेश प्रसाद	एसीएच जीडी	05 जनवरी 16
701942	वाअ	रामकरण शेकम	एसीएच जीडी	05 जनवरी 16
706317	वाअ	रिश्पाल सिंह	एसीएच जीडी	05 जनवरी 16
702373	वाअ	सुल्तान साजिद खान	एसीएच जीडी	07 जनवरी 16
701695	वाअ	शिव गणेश	एसीएच जीडी	09 जनवरी 16
702006	वाअ	पवन कुमार अग्रहरि	एसीएच जीडी	11 जनवरी 16
702651	वाअ	जॉर्ज वर्गीस	एसीएच जीडी	02 मार्च 16
725978	वाअ	सतबीर सिंह	एसीएच जीडी	02 मार्च 16
725632	वाअ	राजेन्द्र सिंह	एसीएच जीडी	01 मई 16
703009	वाअ	राघवेंद्र मलिक	एसीएच जीडी	02 जून 16
703797	वाअ	देश राज यादव	एसीएच जीडी	02 जून 16
736757	वाअ	सिद्धार्थ संकर रॉय	एसीएच जीडी	02 जुलाई 16
694040	वाअ	वी दामोदरन	एसीएच जीडी	04 जुलाई 16
685798	वाअ	राम जीत	एडीएसओ	01 जनवरी 16
705737	वाअ	उमा शंकर यादव	एडीएसओ	01 जनवरी 16
706483	वाअ	रामजी यादव	एडीएसओ	01 जनवरी 16
715065	वाअ	मनोहर सिंह सोलंकी	एडीएसओ	01 जनवरी 16
715371	वाअ	सुरो सिंघा	एडीएसओ	01 जनवरी 16
706485	वाअ	अनिल कुमार शर्मा	एडीएसओ	03 जनवरी 16
686293	वाअ	प्रदीप कुमार माजी	एडीएसओ	05 जनवरी 16
706472	वाअ	एल श्रीधर	एडीएसओ	05 जनवरी 16
686441	वाअ	श्याम सुन्दर यादव	एडीएसओ	03 जून 16
707881	वाअ	चिरंजीवी शुक्ला	एडीएसओ	03 जून 16
715190	वाअ	नरेन्द्र पाल सिंह	एडीएसओ	03 जून 16

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल रैंक दिनांक
715831	वाअ	मुकुंद माधव रॉय	एडीएसओ	03 जून 16
685302	वाअ	सुरेन्द्र पाल सिंह	एडीएसओ	05 जून 16
708221	वाअ	अहमद रियाज़ सलीम	एडीएसओ	05 जून 16
740244	वाअ	अक्षय कुमार प्रधान	एडीएसओ	05 जून 16
740356	वाअ	हेमंत कुमार करण	एडीएसओ	07 जून 16
708216	वाअ	राम किशोर रॉय	एडीएसओ	09 जून 16
662576	वाअ	अब्दुल वहाब	एएफ फिटर	06 जनवरी 16
662649	वाअ	सूर्य भान सिंह	एएफ फिटर	06 जनवरी 16
666039	वाअ	तेज प्रताप	एएफ फिटर	06 जनवरी 16
666185	वाअ	विनोद कुमार हरिजन	एएफ फिटर	06 जनवरी 16
666649	वाअ	कर्ण पाल सिंह	एएफ फिटर	06 जनवरी 16
667426	वाअ	नरेन्द्र कुमार	एएफ फिटर	06 जनवरी 16
667699	वाअ	मेताकरी कुंडालिक तुकाराम	एएफ फिटर	06 जनवरी 16
667904	वाअ	राम नरेश	एएफ फिटर	06 जनवरी 16
668703	वाअ	अशोक कुमार	एएफ फिटर	06 जनवरी 16
668891	वाअ	सुदर्शन बेहरा	एएफ फिटर	06 जनवरी 16
676023	वाअ	नरेश कुमार	एएफ फिटर	06 जनवरी 16
676506	वाअ	कनाइ चन्द्र पाल	एएफ फिटर	06 जनवरी 16
676749	वाअ	राधे श्याम सिंह	एएफ फिटर	06 जनवरी 16
676814	वाअ	शिव राज सिंह	एएफ फिटर	06 जनवरी 16
677099	वाअ	अंगद प्रसाद मिश्रा	एएफ फिटर	06 जनवरी 16
677217	वाअ	श्री भगवान सिंह	एएफ फिटर	06 जनवरी 16
677588	वाअ	ईश्वर सिंह यादव	एएफ फिटर	06 जनवरी 16
677680	वाअ	सुकुमार रॉय	एएफ फिटर	06 जनवरी 16
677791	वाअ	जितेन्द्र बहादुर सिंह	एएफ फिटर	06 जनवरी 16
677806	वाअ	अमर नाथ त्रिवेदी	एएफ फिटर	06 जनवरी 16
678508	वाअ	बलवन्त सिंह	एएफ फिटर	06 जनवरी 16
678728	वाअ	भरम यादव	एएफ फिटर	06 जनवरी 16
678970	वाअ	प्रमेन्द्र कुमार	एएफ फिटर	06 जनवरी 16
679397	वाअ	बिनय कुमार तिवारी	एएफ फिटर	06 जनवरी 16
679410	वाअ	नवीन कुमार झा	एएफ फिटर	06 जनवरी 16
679986	वाअ	सुरेन्द्र नाथ	एएफ फिटर	06 जनवरी 16
695253	वाअ	मानस रंजन पॉल	एएफ फिटर	06 जनवरी 16

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल रैंक दिनांक
695979	वाअ	अशोक कुमार शर्मा	एएफ फिटर	06 जनवरी 16
696183	वाअ	बैतुल्ला हुसैन मलिक	एएफ फिटर	06 जनवरी 16
696423	वाअ	ब्रज बल्लभ पराशर	एएफ फिटर	06 जनवरी 16
696502	वाअ	वीर सिंह	एएफ फिटर	06 जनवरी 16
696987	वाअ	दिनेश कुमार सिंह	एएफ फिटर	06 जनवरी 16
697185	वाअ	रवि रंजन पांडेय	एएफ फिटर	06 जनवरी 16
697855	वाअ	समरेश चक्रबोर्ती	एएफ फिटर	06 जनवरी 16
667884	वाअ	बीरेंद्र सिंह	एएफ फिटर	08 जनवरी 16
696076	वाअ	विजय कुमार	एएफ फिटर	10 जनवरी 16
696243	वाअ	राजेश कुमार	एएफ फिटर	10 जनवरी 16
696752	वाअ	धनेश पाल सिंह	एएफ फिटर	10 जनवरी 16
695716	वाअ	अब्दुल अहद	एएफ फिटर	12 जनवरी 16
695173	वाअ	ओमपाल सिंह	एएफ फिटर	14 जनवरी 16
696567	वाअ	अनिल कुमार	एएफ फिटर	14 जनवरी 16
697889	वाअ	सुनील थॉमस कायाथिंकरा	एएफ फिटर	14 जनवरी 16
696836	वाअ	भूपेंद्र नाथ मिश्रा	एएफ फिटर	16 जनवरी 16
697077	वाअ	राम मिलन	एएफ फिटर	16 जनवरी 16
697079	वाअ	अरविन्द कुमार	एएफ फिटर	16 जनवरी 16
697212	वाअ	दिब्याज्योति हंदीक	एएफ फिटर	16 जनवरी 16
661880	वाअ	कमलेश कुमार मिश्रा	एएफ फिटर	18 जनवरी 16
697201	वाअ	प्रभाकर प्रकाश लोहानी	एएफ फिटर	18 जनवरी 16
665923	वाअ	राज बीर सिंह	एएफ फिटर	20 जनवरी 16
698121	वाअ	शाम सिंह चिब	एएफ फिटर	22 जनवरी 16
697810	वाअ	संजय कुमार सिंह	एएफ फिटर	01 फरवरी 16
696475	वाअ	रमन कौशिक	एएफ फिटर	03 फरवरी 16
697977	वाअ	प्रदीप बर्मन	एएफ फिटर	03 फरवरी 16
699606	वाअ	अभय कुमार मिश्रा	एएफ फिटर	02 अप्रैल 16
729934	वाअ	राजीब कुमार बिस्वास	एएफ फिटर	02 अप्रैल 16
730010	वाअ	सीपी बाबू	एएफ फिटर	02 अप्रैल 16
730787	वाअ	इंद्र भूषण झा	एएफ फिटर	02 अप्रैल 16
730856	वाअ	ओमप्रकाश मलिक	एएफ फिटर	02 अप्रैल 16
731094	वाअ	अनिल कुमार शर्मा	एएफ फिटर	02 अप्रैल 16
731500	वाअ	राम प्रकाश दुबे	एएफ फिटर	02 अप्रैल 16

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल रैंक दिनांक
732324	वाअ	राजेन्द्र सिंह	एएफ फिटर	02 अप्रैल 16
696378	वाअ	मदन गोपाल	एएफ फिटर	01 मई 16
728409	वाअ	सतीश कुमार	एएफ फिटर	01 मई 16
736009	वाअ	प्रोनोब केआर दास	एएफ फिटर	01 मई 16
736229	वाअ	विजय सिंह सेंगर	एएफ फिटर	01 जून 16
765287	वाअ	सुनील कुमार	एएफ फिटर	01 जून 16
667526	वाअ	वीर पाल	एएफ फिटर	04 जून 16
765654	वाअ	उदयवीर सिंह	एएफ फिटर	04 जून 16
696262	वाअ	रोहताश सिंह	एएफएसओ	02 जनवरी 16
696973	वाअ	अशोक कुमार तिवारी	एएफएसओ	02 जनवरी 16
678212	वाअ	मुनीन्द्र लहकार	एएफएसओ	04 जनवरी 16
696329	वाअ	सत्यवीर सिंह	एएफएसओ	06 जनवरी 16
695117	वाअ	राघवेंद्र सिंह भदौरिया	एएफएसओ	02 अप्रैल 16
695147	वाअ	प्रदोष कुमार पाढ़ी	एएफएसओ	02 अप्रैल 16
695793	वाअ	उमेश कुमार चावला	एएफएसओ	02 अप्रैल 16
696624	वाअ	राजिन्द्र कुमार भगतार	एएफएसओ	04 अप्रैल 16
705915	वाअ	शिव नाथ ठाकुर	एएफएसओ	02 मई 16
721113	वाअ	पी वी नरेश कुमार	एएफएसओ	02 जून 16
679606	वाअ	सोलोमन क्रिस्टोपर हेनरी	एएफएसओ	05 जून 16
720841	वाअ	साबू टी एल	एएफएसओ	05 जून 16
700935	वाअ	ओम शंकर	कैट असिस्टेंट	03 नवम्बर 15
701291	वाअ	मनोज कुमार	कैट असिस्टेंट	03 नवम्बर 15
702377	वाअ	नोप सिंह	कैट असिस्टेंट	05 नवम्बर 15
701294	वाअ	अंजनी कुमार दुबे	कैट असिस्टेंट	07 नवम्बर 15
700630	वाअ	नरेन्द्र कुमार	कैट असिस्टेंट	03 फरवरी 16
736509	वाअ	रमाकांत चतुर्वेदी	कैट असिस्टेंट	03 मार्च 16
721194	वाअ	रामनिवास	कैट असिस्टेंट	03 जून 16
674377	वाअ	कपिल देव सिंह	अकाउंट क्लर्क	02 जुलाई 16
693881	वाअ	देवेन्द्र कुमार	अकाउंट क्लर्क	02 जुलाई 16
693894	वाअ	राजेन्द्र कुमार जोशी	अकाउंट क्लर्क	02 जुलाई 16
694541	वाअ	मुकेश चड्ढा	अकाउंट क्लर्क	02 जुलाई 16
694730	वाअ	तरुण कुमार मित्रा	अकाउंट क्लर्क	02 जुलाई 16
700552	वाअ	बनवारी लाल अत्री	अकाउंट क्लर्क	02 जुलाई 16

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल रैंक दिनांक
700689	वाअ	आनन्द देव सिंह	अकाउंट क्लर्क	02 जुलाई 16
701940	वाअ	गुरदयाल सिंह सैनी	अकाउंट क्लर्क	02 जुलाई 16
701111	वाअ	सत्य प्रकाश शर्मा	अकाउंट क्लर्क	04 जुलाई 16
702581	वाअ	जयवीर वशिष्ठ	अकाउंट क्लर्क	06 जुलाई 16
729620	वाअ	रविन्द्र कुमार	अकाउंट क्लर्क	08 जुलाई 16
735770	वाअ	किशोर कुमार दास	अकाउंट क्लर्क	08 जुलाई 16
704995	वाअ	बल राम सैनी	अकाउंट क्लर्क	10 जुलाई 16
700648	वाअ	नित्या नंद ओझा	क्लर्क जीडी	03 अक्टूबर 15
700880	वाअ	जयनारायण बेहरा	क्लर्क जीडी	03 अक्टूबर 15
700962	वाअ	राकेश पांडेय	क्लर्क जीडी	03 अक्टूबर 15
701211	वाअ	श्याम शंकर मिश्रा	क्लर्क जीडी	03 अक्टूबर 15
701261	वाअ	संजय कुमार चौधरी	क्लर्क जीडी	03 अक्टूबर 15
701331	वाअ	हुसैन ए	क्लर्क जीडी	03 अक्टूबर 15
701496	वाअ	मिहिर कुमार दास	क्लर्क जीडी	03 अक्टूबर 15
702262	वाअ	राजेश कुमार	क्लर्क जीडी	08 नवम्बर 15
702664	वाअ	श्रीकंठ मल्ली	क्लर्क जीडी	08 नवम्बर 15
702724	वाअ	बलराम मोहन्ती	क्लर्क जीडी	08 नवम्बर 15
701038	वाअ	धमेन्द्र सिंह चौधरी	क्लर्क जीडी	01 जनवरी 16
701815	वाअ	राजकुमार सिंह तोमर	क्लर्क जीडी	01 जनवरी 16
702520	वाअ	सतीश कुमार शर्मा	क्लर्क जीडी	01 जनवरी 16
700672	वाअ	चित्तरंजन कुमार	क्लर्क जीडी	03 जनवरी 16
693966	वाअ	धर्मेश कुमार शर्मा	क्लर्क जीडी	05 जनवरी 16
700408	वाअ	दिनेश यादव	क्लर्क जीडी	05 जनवरी 16
700550	वाअ	शेरपाल सिंह	क्लर्क जीडी	07 जनवरी 16
700635	वाअ	निताइ साहा	क्लर्क जीडी	01 मार्च 16
700669	वाअ	मनोज कुमार चौधरी	क्लर्क जीडी	01 मार्च 16
701246	वाअ	मिथिलेश कुमार सिंह	क्लर्क जीडी	01 मार्च 16
701499	वाअ	पिताबस प्रधान	क्लर्क जीडी	01 मार्च 16
701627	वाअ	अशोक कुमार धामा	क्लर्क जीडी	01 मार्च 16
701951	वाअ	सुब्रत कुमार डे	क्लर्क जीडी	01 मार्च 16
702100	वाअ	कौशल किशोर सिंह	क्लर्क जीडी	01 मार्च 16
701420	वाअ	सुदीप्त सेन	क्लर्क जीडी	03 मार्च 16
701919	वाअ	प्रशांत कुमार त्रिपाठी	क्लर्क जीडी	03 मार्च 16

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल रैंक दिनांक
702231	वाअ	बिप्रादीप बंदोपाध्याय	क्लर्क जीडी	03 मार्च 16
702519	वाअ	संजीव कुमार जैन	क्लर्क जीडी	03 मार्च 16
725221	वाअ	प्रदीप रॉक फ्रांसिस	क्लर्क जीडी	03 अप्रैल 16
727708	वाअ	दिनेश कुमार	क्लर्क जीडी	03 अप्रैल 16
727734	वाअ	अमरीक सिंह सैनी	क्लर्क जीडी	03 अप्रैल 16
728348	वाअ	बाबूजी	क्लर्क जीडी	03 अप्रैल 16
736375	वाअ	कोठारी दीपक	क्लर्क जीडी	03 अप्रैल 16
728360	वाअ	शर्मेन्द्र सिंह	क्लर्क जीडी	05 अप्रैल 16
700920	वाअ	दिनेश कुमार शर्मा	क्लर्क जीडी	01 जुलाई 16
702601	वाअ	मुथैया लक्ष्मणन	क्लर्क जीडी	01 जुलाई 16
719650	वाअ	रायबीर सिंह रावत	क्लर्क जीडी	01 जुलाई 16
726260	वाअ	ब्रजेश कुमार	क्लर्क जीडी	01 जुलाई 16
726375	वाअ	मनोज कुमार रोहल	क्लर्क जीडी	01 जुलाई 16
729636	वाअ	सुरेन्द्र सिंह दथिक	क्लर्क जीडी	01 जुलाई 16
737543	वाअ	साजन एस पी	क्लर्क जीडी	03 जुलाई 16
701421	वाअ	श्रीमंत कुमार केस	क्लर्क जीडी	05 जुलाई 16
701915	वाअ	हारिराम दोलाई	क्लर्क जीडी	05 जुलाई 16
704565	वाअ	नारायणन नायर बीजू	क्लर्क जीडी	05 जुलाई 16
703301	वाअ	हाकीम सिंह	क्रिप्टो	03 जुलाई 15
715728	वाअ	राम प्रसाद तिवारी	क्रिप्टो	03 अगस्त 15
726176	वाअ	शशि कान्त वर्मा	क्रिप्टो	03 अगस्त 15
726334	वाअ	रमेश चंद	क्रिप्टो	03 सितम्बर 15
718901	वाअ	देबाप्रसाद महापात्रा	क्रिप्टो	02 अक्टूबर 15
726860	वाअ	बिनय कुमार पांडा	क्रिप्टो	02 अक्टूबर 15
728510	वाअ	अमर सिंह सैनी	क्रिप्टो	02 नवम्बर 15
728584	वाअ	मो. इसराफिल अंसारी	क्रिप्टो	02 दिसम्बर 15
725152	वाअ	बिमल कुमार दास	क्रिप्टो	02 जनवरी 16
726054	वाअ	पंकज कुमार गुप्ता	क्रिप्टो	03 अप्रैल 16
726352	वाअ	विजय कुमार	क्रिप्टो	03 मई 16
726376	वाअ	विनय कुमार	क्रिप्टो	03 मई 16
774879	वाअ	गंगा प्रसाद खंडूरी	शिक्षा अनुदेशक	02 जनवरी 16
796687	वाअ	सुनील कुमार तिवारी	शिक्षा अनुदेशक	02 जनवरी 16
796690	वाअ	देवेन्द्र प्रताप सिंह	शिक्षा अनुदेशक	02 जनवरी 16

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल रैंक दिनांक
797411	वाअ	ओमपाल पारीक	शिक्षा अनुदेशक	02 जनवरी 16
797412	वाअ	आवेश तेवतिया	शिक्षा अनुदेशक	02 जनवरी 16
902028	वाअ	मनोज कुमार मोहन्ती	शिक्षा अनुदेशक	02 जनवरी 16
901438	वाअ	त्रिपति पानीग्रही	शिक्षा अनुदेशक	04 जनवरी 16
738810	वाअ	अभिजीत सेनगुप्ता	शिक्षा अनुदेशक	03 फरवरी 16
774875	वाअ	पैरी गनेसन	शिक्षा अनुदेशक	03 अप्रैल 16
796112	वाअ	किरण कुमार रांबा	शिक्षा अनुदेशक	01 जून 16
773610	वाअ	दिति कुमार पांडेय	शिक्षा अनुदेशक	03 जून 16
901441	वाअ	अखिलेश कुमार सिंह	शिक्षा अनुदेशक	03 जून 16
683297	वाअ	प्रदीप कुमार अत्री	इलैक्ट फिटर	02 अक्टूबर 09
683478	वाअ	विनोद कुमार सिंह	इलैक्ट फिटर	02 अक्टूबर 09
683662	वाअ	वेद प्रकाश	इलैक्ट फिटर	02 अक्टूबर 09
683663	वाअ	देवी शरण सिंह	इलैक्ट फिटर	02 अक्टूबर 09
683820	वाअ	वीरंकी वी सत्यनारायन	इलैक्ट फिटर	02 अक्टूबर 09
683827	वाअ	जयदेव सिंह	इलैक्ट फिटर	02 अक्टूबर 09
684236	वाअ	बिजेंद्र सिंह	इलैक्ट फिटर	02 नवम्बर 09
684238	वाअ	राकेश कुमार शर्मा	इलैक्ट फिटर	02 नवम्बर 09
684307	वाअ	राज कुमार सिंह	इलैक्ट फिटर	02 नवम्बर 09
684283	वाअ	राजीव कुमार त्यागी	इलैक्ट फिटर	02 दिसम्बर 09
684771	वाअ	प्रदीप कुमार नामदेव	इलैक्ट फिटर	02 दिसम्बर 09
690200	वाअ	जय राम शेरावत	इलैक्ट फिटर	02 दिसम्बर 09
681719	वाअ	जम्बेश्वर साहू	इलैक्ट फिटर	02 जनवरी 10
690564	वाअ	शिव कुमार शर्मा	इलैक्ट फिटर	02 जनवरी 10
690653	वाअ	अवनीत कुमार सिंह	इलैक्ट फिटर	02 जनवरी 10
690794	वाअ	लाल बहादुर यादव	इलैक्ट फिटर	02 जनवरी 10
691323	वाअ	ललित कुमार शर्मा	इलैक्ट फिटर	02 फरवरी 10
691366	वाअ	नरेन्द्र कुमार अत्री	इलैक्ट फिटर	02 फरवरी 10
691464	वाअ	कुलदीप सिंह	इलैक्ट फिटर	02 फरवरी 10
691705	वाअ	अरुण कुमार वर्मा	इलैक्ट फिटर	02 फरवरी 10
691716	वाअ	राजेश कुमार	इलैक्ट फिटर	02 फरवरी 10
691950	वाअ	शशि धर दुबे	इलैक्ट फिटर	02 फरवरी 10
692092	वाअ	सुरेश प्रसाद	इलैक्ट फिटर	02 फरवरी 10
683981	वाअ	दुष्यंत कुमार त्यागी	इलैक्ट फिटर	02 मार्च 10

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल रैंक दिनांक
629928	वाअ	अनिल कुमार सिंह	इलैक्ट फिटर	02 मई 10
680765	वाअ	अशोक कुमार पाल	इलैक्ट फिटर	02 मई 10
681250	वाअ	रामचन्द्र बलहारा	इलैक्ट फिटर	02 मई 10
683376	वाअ	अखलाश गिरी गोस्वामी	इलैक्ट फिटर	02 मई 10
684060	वाअ	लाल चंद यादव	इलैक्ट फिटर	02 मई 10
684648	वाअ	किशोर कुमार तोमर	इलैक्ट फिटर	02 मई 10
685000	वाअ	कैलाश चन्द्र साहू	इलैक्ट फिटर	02 मई 10
685227	वाअ	परमानन्द यादव	इलैक्ट फिटर	02 मई 10
685236	वाअ	दिनेश बाबू	इलैक्ट फिटर	02 मई 10
685385	वाअ	अशोक कुमार अरे	इलैक्ट फिटर	02 मई 10
690822	वाअ	केशव प्रसाद त्रिपाठी	इलैक्ट फिटर	02 मई 10
691334	वाअ	मोहन पाल	इलैक्ट फिटर	02 मई 10
705300	वाअ	मदन मोहन कुंडू	इलैक्ट फिटर	02 मई 10
640827	वाअ	सुरेश प्रसाद यादव	इलैक्ट फिटर	02 जून 10
640933	वाअ	राजेश कुमार त्यागी	इलैक्ट फिटर	02 जून 10
654915	वाअ	रामनरेश	इलैक्ट फिटर	02 जून 10
654946	वाअ	अनिल कुमार	इलैक्ट फिटर	02 जून 10
685604	वाअ	प्रवेश कुमार शर्मा	इलैक्ट फिटर	02 जून 10
685681	वाअ	अलोक बहल	इलैक्ट फिटर	02 जून 10
686232	वाअ	देवलाल प्रसाद सिंह	इलैक्ट फिटर	02 जून 10
690092	वाअ	कुलदीप चौधरी	इलैक्ट फिटर	02 जून 10
705278	वाअ	सतेन्द्र कुमार	इलैक्ट फिटर	02 जून 10
705304	वाअ	मधुसूदन नाथ तिवारी	इलैक्ट फिटर	02 जून 10
681898	वाअ	बिरेन्द्र कुमार साह	इलैक्ट फिटर	02 अप्रैल 11
684963	वाअ	लखन सिंह कुंटल	इलैक्ट फिटर	02 अप्रैल 11
691840	वाअ	रोशन लाल सिंघल	इलैक्ट फिटर	02 अप्रैल 11
691851	वाअ	प्रकाश सिंह रावत	इलैक्ट फिटर	02 अप्रैल 11
691910	वाअ	राम कुमार	इलैक्ट फिटर	02 अप्रैल 11
654700	वाअ	मलूप सिंह राणा	इलैक्ट फिटर	02 मई 11
691706	वाअ	अक्षय कुमार दुबे	इलैक्ट फिटर	02 मई 11
705385	वाअ	करण सिंह	इलैक्ट फिटर	02 मई 11
685968	वाअ	कन्हैया मिश्रा	इलैक्ट फिटर	02 जून 11
705694	वाअ	राम रतन	इलैक्ट फिटर	02 जून 11

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल रैंक दिनांक
666372	वाअ	कामता प्रसाद	इंजन फिटर	02 जुलाई 15
667964	वाअ	ज्ञान प्रकाश कटियार	इंजन फिटर	02 जुलाई 15
669491	वाअ	गणेश शंकर	इंजन फिटर	02 जुलाई 15
676987	वाअ	मनोज कुमार	इंजन फिटर	02 जुलाई 15
677802	वाअ	अरुण कुमार सिंह	इंजन फिटर	02 जुलाई 15
677899	वाअ	सोम दत्त	इंजन फिटर	02 जुलाई 15
678160	वाअ	सतीश कुमार	इंजन फिटर	02 जुलाई 15
675792	वाअ	मोती लाल शर्मा	इंजन फिटर	10 जुलाई 15
675851	वाअ	जितेन्द्र कुमार शर्मा	इंजन फिटर	02 अगस्त 15
695353	वाअ	राजेन्द्र हरि पांडेय	इंजन फिटर	02 अगस्त 15
696469	वाअ	कृष्ण पाल	इंजन फिटर	02 अगस्त 15
696700	वाअ	सुभाष चन्द्र तिवारी	इंजन फिटर	02 अगस्त 15
697407	वाअ	सजिमोन जोसेफ	इंजन फिटर	02 सितम्बर 15
697509	वाअ	चंद्रशेखर वी	इंजन फिटर	02 सितम्बर 15
678644	वाअ	प्रदीप कुमार शर्मा	इंजन फिटर	02 अक्टूबर 15
696960	वाअ	साहब यादव	इंजन फिटर	02 अक्टूबर 15
695735	वाअ	मानिक चन्द्र मिश्रा	इंजन फिटर	02 नवम्बर 15
696656	वाअ	जय भगवान	इंजन फिटर	02 नवम्बर 15
696738	वाअ	सोन पाल सिंह	इंजन फिटर	02 दिसम्बर 15
697218	वाअ	विनोद कुमार उपाध्याय	इंजन फिटर	02 दिसम्बर 15
697809	वाअ	रामा नाथ झा	इंजन फिटर	02 दिसम्बर 15
678118	वाअ	इन्द्र देव प्रसाद सिंह	इंजन फिटर	04 दिसम्बर 15
696256	वाअ	बिनय कुमार	इंजन फिटर	06 दिसम्बर 15
696191	वाअ	पार्था प्रतीम सिन्हा	इंजन फिटर	02 जनवरी 16
696483	वाअ	शुभ कर्ण पांडेय	इंजन फिटर	02 जनवरी 16
697030	वाअ	अनिल कुमार टी एस	इंजन फिटर	02 जनवरी 16
697375	वाअ	अजित सिंह यादव	इंजन फिटर	02 जनवरी 16
728103	वाअ	दिब्येन्दु सत्यपति	इंजन फिटर	02 जनवरी 16
728249	वाअ	बालकृष्ण रॉय	इंजन फिटर	02 जनवरी 16
731446	वाअ	किताब सिंह शर्मा	इंजन फिटर	02 जनवरी 16
728296	वाअ	संजय पाठक	इंजन फिटर	02 फरवरी 16
730904	वाअ	दिनेश पाठक	इंजन फिटर	02 फरवरी 16
765099	वाअ	उमेश कुमार रमन	इंजन फिटर	02 फरवरी 16

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल रैंक दिनांक
765104	वाअ	सचिदानंद यादव	इंजन फिटर	02 फरवरी 16
765151	वाअ	पंडुरु सरीन बाबू राव	इंजन फिटर	02 फरवरी 16
765854	वाअ	बिजय कुमार खुंटिया	इंजन फिटर	02 फरवरी 16
765420	वाअ	राधे श्याम महतो	इंजन फिटर	02 मार्च 16
765435	वाअ	रमेश चन्द्र प्रसाद	इंजन फिटर	02 मार्च 16
765492	वाअ	विनोद त्रिलोक्यमंगलं वरियम	इंजन फिटर	02 मार्च 16
662246	वाअ	रविन्द्र नाथ सिंह	इंजन फिटर	02 अप्रैल 16
667952	वाअ	हृदय नंद प्रसाद	इंजन फिटर	02 अप्रैल 16
669687	वाअ	दिलीप कुमार	इंजन फिटर	02 अप्रैल 16
695810	वाअ	परमेश्वर	इंजन फिटर	02 अप्रैल 16
732296	वाअ	सोमवीर सिंह	इंजन फिटर	02 अप्रैल 16
765113	वाअ	पी कुलसेकर	इंजन फिटर	02 अप्रैल 16
693624	वाअ	विनोद कुमार वर्मा	उपस्कर सहायक	02 जुलाई 15
700182	वाअ	समादर सिंह राठौर	उपस्कर सहायक	02 जुलाई 15
700770	वाअ	सुभाष चन्द्र सामंत	उपस्कर सहायक	02 जुलाई 15
700945	वाअ	भौप्रताप सिंह जादोन	उपस्कर सहायक	02 जुलाई 15
701518	वाअ	चाँद सिंह दहिया	उपस्कर सहायक	02 जुलाई 15
701680	वाअ	अनिलेंद्र पराशर	उपस्कर सहायक	02 जुलाई 15
701681	वाअ	कृष्ण कुमार त्यागी	उपस्कर सहायक	02 जुलाई 15
702142	वाअ	राम कुमार प्रसाद	उपस्कर सहायक	02 जुलाई 15
693985	वाअ	शेर अली	उपस्कर सहायक	02 अगस्त 15
694443	वाअ	जयचंद	उपस्कर सहायक	02 अगस्त 15
700524	वाअ	राम कृष्णा	उपस्कर सहायक	02 सितम्बर 15
701102	वाअ	भवेश चंद	उपस्कर सहायक	02 सितम्बर 15
701183	वाअ	सीताराम	उपस्कर सहायक	02 सितम्बर 15
701232	वाअ	बृज मोहन सिंह	उपस्कर सहायक	02 सितम्बर 15
694223	वाअ	शिव जी रॉय	उपस्कर सहायक	02 नवम्बर 15
701587	वाअ	अनिरुद्ध चन्द्र	उपस्कर सहायक	02 नवम्बर 15
701770	वाअ	साहब सिंह	उपस्कर सहायक	02 नवम्बर 15
702011	वाअ	दीपक केआर डे	उपस्कर सहायक	04 नवम्बर 15
693274	वाअ	बृज भूषण बटला	उपस्कर सहायक	02 जनवरी 16
693330	वाअ	सत प्रकाश वर्मा	उपस्कर सहायक	02 जनवरी 16
694548	वाअ	गुरबक्श सिंह	उपस्कर सहायक	02 जनवरी 16

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल रैंक दिनांक
694555	वाअ	अशोक कुमार सिंह	उपस्कर सहायक	02 जनवरी 16
694571	वाअ	करुणा शंकर त्रिपाठी	उपस्कर सहायक	02 जनवरी 16
700297	वाअ	अशोक कुमार	उपस्कर सहायक	02 जनवरी 16
700707	वाअ	शिवपूजन प्रसाद	उपस्कर सहायक	02 जनवरी 16
701078	वाअ	विरेन्द्र कुमार	उपस्कर सहायक	02 जनवरी 16
701655	वाअ	सत्यवीर सिंह वर्मा	उपस्कर सहायक	02 जनवरी 16
702041	वाअ	कर्मबीर सिंह	उपस्कर सहायक	02 जनवरी 16
702548	वाअ	दलबीर सिंह मान	उपस्कर सहायक	02 जनवरी 16
702709	वाअ	सुजीत रंजन दास	उपस्कर सहायक	02 जनवरी 16
693948	वाअ	किरपा राम शर्मा	उपस्कर सहायक	02 फरवरी 16
700845	वाअ	राधाकृष्णन के बी	उपस्कर सहायक	02 फरवरी 16
701081	वाअ	खजान सिंह	उपस्कर सहायक	02 फरवरी 16
701146	वाअ	नरेश कुमार	उपस्कर सहायक	02 फरवरी 16
701638	वाअ	मुकेश कुमार	उपस्कर सहायक	02 फरवरी 16
701674	वाअ	राकेश कुमार वत्स	उपस्कर सहायक	02 फरवरी 16
702025	वाअ	गौतम साहा	उपस्कर सहायक	02 फरवरी 16
702239	वाअ	नफे सिंह	उपस्कर सहायक	02 फरवरी 16
702738	वाअ	अरुण कुमार शुक्ला	उपस्कर सहायक	02 फरवरी 16
736990	वाअ	कमल कुमार सिंह	उपस्कर सहायक	02 फरवरी 16
704065	वाअ	मुकेश कुमार यादव	उपस्कर सहायक	02 अप्रैल 16
726655	वाअ	कल्लूरी लक्ष्मीनरसिम्हा राव	उपस्कर सहायक	02 अप्रैल 16
727439	वाअ	सतीश कुमार	उपस्कर सहायक	02 अप्रैल 16
727621	वाअ	पी पदमा चरण पात्रा	उपस्कर सहायक	02 अप्रैल 16
727705	वाअ	कमलेन्द्र सिंह	उपस्कर सहायक	02 अप्रैल 16
728491	वाअ	राजकुमार अरोरा	उपस्कर सहायक	02 अप्रैल 16
735610	वाअ	सुधीर शर्मा	उपस्कर सहायक	02 अप्रैल 16
737286	वाअ	राकेश रंजन	उपस्कर सहायक	02 अप्रैल 16
725227	वाअ	मन मोहन सिंह रावत	उपस्कर सहायक	02 मई 16
728522	वाअ	कवेटि वेंकट राम महेश्वर	उपस्कर सहायक	02 मई 16
735138	वाअ	हरीश कुमार	उपस्कर सहायक	02 मई 16
736653	वाअ	संतोष कुमार सिंह	उपस्कर सहायक	02 मई 16
737259	वाअ	संजीव कुमार	उपस्कर सहायक	02 मई 16
737295	वाअ	अनिल कुमार यादव	उपस्कर सहायक	02 जून 16

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल रैंक दिनांक
737578	वाअ	गायकवाड नरेश भगवान	उपस्कर सहायक	02 जून 16
768544	वाअ	रंजीत कुमार	फ्लाइट इंजीनियर	03 अगस्त 15
768585	वाअ	कालिंगा रंजन प्रधान	फ्लाइट इंजीनियर	03 अगस्त 15
768582	वाअ	देवेन्द्र नाथ रॉय	फ्लाइट इंजीनियर	01 सितम्बर 15
775134	वाअ	एबे वर्गिस	फ्लाइट इंजीनियर	01 सितम्बर 15
775161	वाअ	बीजू देवासिया	फ्लाइट इंजीनियर	01 सितम्बर 15
769281	वाअ	अलोक कुमार रॉय	फ्लाइट इंजीनियर	04 दिसम्बर 15
769833	वाअ	कर्मल श्रीनिवासाचारी	फ्लाइट इंजीनियर	04 दिसम्बर 15
775154	वाअ	बीजू थॉमस	फ्लाइट इंजीनियर	04 दिसम्बर 15
767306	वाअ	अजय कुमार शर्मा	फ्लाइट इंजीनियर	28 मार्च 16
775136	वाअ	सतीश कुमार सिंह	फ्लाइट इंजीनियर	28 मार्च 16
775206	वाअ	केजहोलिकल एम एस के	फ्लाइट इंजीनियर	28 मार्च 16
776130	वाअ	अनिल कुमार बाजपेयी	फ्लाइट इंजीनियर	28 मार्च 16
775520	वाअ	रामदीन प्रजापत	फ्लाइट इंजीनियर	01 अप्रैल 16
776146	वाअ	वुप्पुनटुल मोहन राज	फ्लाइट इंजीनियर	03 अप्रैल 16
768951	वाअ	ओमप्रकाश मौर्य	फ्लाइट इंजीनियर	02 जुलाई 16
769018	वाअ	अजय कुमार जैसवाल	फ्लाइट इंजीनियर	02 जुलाई 16
775508	वाअ	राजर्षि पांडेय	फ्लाइट इंजीनियर	02 जुलाई 16
775543	वाअ	प्रकाश एम	फ्लाइट इंजीनियर	02 जुलाई 16
776135	वाअ	गगन कुमार शॉ	फ्लाइट इंजीनियर	02 जुलाई 16
766401	वाअ	प्रकाश ओ	फ्लाइट गनर	07 दिसम्बर 15
767421	वाअ	रमेन्द्र कुमार यादव	फ्लाइट गनर	07 दिसम्बर 15
767425	वाअ	भुवनेश चन्द्र द्विवेदी	फ्लाइट गनर	07 दिसम्बर 15
768079	वाअ	तेजमणी तिवारी	फ्लाइट गनर	07 दिसम्बर 15
769044	वाअ	संतोष कुमार पाठक	फ्लाइट गनर	07 दिसम्बर 15
769363	वाअ	अरुण्डोस प्रेम कुमार	फ्लाइट गनर	07 दिसम्बर 15
769394	वाअ	मनोज कुमार धुदसिया	फ्लाइट गनर	07 दिसम्बर 15
775663	वाअ	वीरेश कुमार	फ्लाइट गनर	07 दिसम्बर 15
775955	वाअ	बिष्णु चरण साहू	फ्लाइट गनर	07 दिसम्बर 15
776020	वाअ	जलागम दयाकर	फ्लाइट गनर	07 दिसम्बर 15
776485	वाअ	भंवर लाल	फ्लाइट गनर	07 दिसम्बर 15
775662	वाअ	दर्शन कुमार	फ्लाइट गनर	09 दिसम्बर 15
766387	वाअ	ओम प्रकाश	फ्लाइट गनर	11 दिसम्बर 15

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल रैंक दिनांक
765196	वाअ	राकेश कुमार त्रिपाठी	फ्लाइट गनर	02 अगस्त 16
766709	वाअ	मोहन किशोर ठाकुर	फ्लाइट गनर	02 अगस्त 16
767433	वाअ	सोमासुन्दरन के टी	फ्लाइट गनर	02 अगस्त 16
768082	वाअ	सतीश कुमार	फ्लाइट गनर	02 अगस्त 16
775675	वाअ	रमेश कुमार सिंह	फ्लाइट गनर	02 अगस्त 16
775950	वाअ	जगनारायण शर्मा	फ्लाइट गनर	02 अगस्त 16
775996	वाअ	निहार कुमार राउत	फ्लाइट गनर	02 अगस्त 16
671791	वाअ	रत्नेश्वर झा	जीटीआई	01 जनवरी 16
736572	वाअ	जगदीप सिंह जसरोटिया	जीटीआई	01 जुलाई 16
737693	वाअ	संजय कुमार येनेगुरे	जीटीआई	01 अगस्त 16
727803	वाअ	बी हरि कृष्णन	जीटीआई (एस)	01 नवम्बर 15
736781	वाअ	हीरेन्द्र नाथ सरदार	जीटीआई (एस)	03 नवम्बर 15
737093	वाअ	जसबीर सिंह	जीटीआई (एस)	01 जनवरी 16
739034	वाअ	जेरॉम कुजूर	जीटीआई (एस)	01 जनवरी 16
770007	वाअ	एस एस किशोर	जीटीआई (एस)	03 जनवरी 16
770008	वाअ	नवनीत महेश्वरी	जीटीआई (एस)	01 जुलाई 16
770034	वाअ	सुनील गोस्वामी	जीटीआई (एस)	01 जुलाई 16
706742	वाअ	अशोक कुमार	भावासे (पु)	10 सितम्बर 15
706224	वाअ	भोगेन्द्र झा	भावासे (पु)	12 सितम्बर 15
629286	वाअ	सुभेन्दु मिश्रा	भावासे (पु)	02 फरवरी 16
705452	वाअ	शिव चरण शर्मा	भावासे (पु)	02 फरवरी 16
706237	वाअ	रविन्द्र विल्फ्रेड दास	भावासे (पु)	04 फरवरी 16
706007	वाअ	बिजॉय कुमार शॉ	भावासे (पु)	06 फरवरी 16
706338	वाअ	अनिल कुमार शर्मा	भावासे (पु)	08 फरवरी 16
629671	वाअ	विद्यानंद यादव	भावासे (पु)	02 जुलाई 16
705813	वाअ	जयपाल सिंह	भावासे (पु)	02 जुलाई 16
706259	वाअ	वेद प्रकाश यादव	भावासे (पु)	02 जुलाई 16
706678	वाअ	रेवा शंकर सिंह	भावासे (पु)	02 जुलाई 16
725406	वाअ	विनोद कुमार सिंह	भावासे (पु)	04 जुलाई 16
729543	वाअ	राम निवास	भावासे (पु)	06 जुलाई 16
629670	वाअ	कर्मवीर यादव	भावासे (पु)	08 जुलाई 16
725600	वाअ	राजीव कुमार चौधरी	भावासे (पु)	08 जुलाई 16
639022	वाअ	राम रतन राजपूत	इंस्ट्रुमेंट फिटर	03 जुलाई 15

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल रैंक दिनांक
685677	वाअ	रोहताश कुमार मलिक	इंस्ट्रुमेंट फिटर	02 सितम्बर 15
705666	वाअ	रामकेश्वर प्रसाद	इंस्ट्रुमेंट फिटर	02 सितम्बर 15
686316	वाअ	संजय कुमार पराशर	इंस्ट्रुमेंट फिटर	01 नवम्बर 15
706190	वाअ	इस्तियाक अहमद	इंस्ट्रुमेंट फिटर	01 नवम्बर 15
686073	वाअ	मदन लाल बोराणा	इंस्ट्रुमेंट फिटर	02 दिसम्बर 15
705755	वाअ	त्रिलोक चंद	इंस्ट्रुमेंट फिटर	02 दिसम्बर 15
706905	वाअ	सुसंता कुमार सिट	इंस्ट्रुमेंट फिटर	04 दिसम्बर 15
685364	वाअ	ओम प्रकाश वर्मा	इंस्ट्रुमेंट फिटर	04 जनवरी 16
686268	वाअ	नरेन्द्र उपाध्याय	इंस्ट्रुमेंट फिटर	04 जनवरी 16
690853	वाअ	कृष्ण कुमार दहिया	इंस्ट्रुमेंट फिटर	04 जनवरी 16
706887	वाअ	अरुण कर	इंस्ट्रुमेंट फिटर	04 जनवरी 16
715401	वाअ	उमेश प्रसाद तिवारी	इंस्ट्रुमेंट फिटर	04 जनवरी 16
690537	वाअ	राम प्रकाश	इंस्ट्रुमेंट फिटर	03 मार्च 16
706200	वाअ	ब्रजेश कुमार	इंस्ट्रुमेंट फिटर	03 मार्च 16
708800	वाअ	संतोष कुमार सी यू एन	इंस्ट्रुमेंट फिटर	05 मार्च 16
686815	वाअ	सोमीनाथ दत्ता	इंस्ट्रुमेंट फिटर	03 अप्रैल 16
689011	वाअ	सम्पद कुमार आचार्य	इंस्ट्रुमेंट फिटर	03 अप्रैल 16
709072	वाअ	आजाद सिंह	इंस्ट्रुमेंट फिटर	03 अप्रैल 16
689858	वाअ	उमेश कुमार सिंह	इंस्ट्रुमेंट फिटर	02 मई 16
760649	वाअ	शिवाश्रय यादव	इंस्ट्रुमेंट फिटर	02 मई 16
686343	वाअ	बिरेन्द्र सिंह	इंस्ट्रुमेंट फिटर	02 जून 16
655806	वाअ	अरुण कुमार सिंह	चिकित्सा सहायक	02 नवम्बर 15
656126	वाअ	बिरेन कुमार भराली	चिकित्सा सहायक	02 नवम्बर 15
656200	वाअ	सईद अफरोज	चिकित्सा सहायक	02 नवम्बर 15
656620	वाअ	असोकन थंडायिल	चिकित्सा सहायक	02 नवम्बर 15
656645	वाअ	ओम प्रकाश श्रीवास्तव	चिकित्सा सहायक	02 नवम्बर 15
656715	वाअ	अशोक कुमार	चिकित्सा सहायक	02 नवम्बर 15
656987	वाअ	राम तीर्थ पटेल	चिकित्सा सहायक	02 नवम्बर 15
710096	वाअ	अशोक कुमार दत्ताबनिक	चिकित्सा सहायक	02 नवम्बर 15
656789	वाअ	करण सिंह धामा	चिकित्सा सहायक	02 दिसम्बर 15
656828	वाअ	संजीव चौहान	चिकित्सा सहायक	02 दिसम्बर 15
710073	वाअ	संजय चौधरी	चिकित्सा सहायक	02 दिसम्बर 15
656923	वाअ	एब्राहूल हक खान	चिकित्सा सहायक	02 फरवरी 16

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल रैंक दिनांक
710131	वाअ	विष्णु मिश्रा	चिकित्सा सहायक	02 फरवरी 16
656297	वाअ	उमेश्वर मिश्रा	चिकित्सा सहायक	04 फरवरी 16
656810	वाअ	ओम प्रकाश खटोरे	चिकित्सा सहायक	04 फरवरी 16
656950	वाअ	सत्य नारायण पॉल	चिकित्सा सहायक	07 फरवरी 16
656974	वाअ	विजय कुमार	चिकित्सा सहायक	07 फरवरी 16
710093	वाअ	सुनील कुमार विजय	चिकित्सा सहायक	07 फरवरी 16
656822	वाअ	सुरेन्द्र कुमार काजल	चिकित्सा सहायक	09 फरवरी 16
656530	वाअ	कोरे प्रकाश बासालिंग	चिकित्सा सहायक	01 मार्च 16
710030	वाअ	प्रेम प्रकाश गौतम	चिकित्सा सहायक	03 मार्च 16
710076	वाअ	नरेन्द्र कुमार फल्सवाल	चिकित्सा सहायक	02 जून 16
710138	वाअ	मृमॉय प्रधान	चिकित्सा सहायक	02 जून 16
710140	वाअ	राजेश प्रसाद	चिकित्सा सहायक	02 जून 16
656446	वाअ	मनोज कुमार प्रसाद	चिकित्सा सहायक	04 जून 16
656541	वाअ	हरवेन्द्र पाल	चिकित्सा सहायक	04 जून 16
656840	वाअ	मनो कर्णिका मिश्रा	चिकित्सा सहायक	06 जून 16
656167	वाअ	राकेश कुमार खन्ना	चिकित्सा सहायक	02 अगस्त 16
656809	वाअ	अजैब सिंह सैनी	चिकित्सा सहायक	02 अगस्त 16
710556	वाअ	श्याम लाल शॉ	चिकित्सा सहायक	02 अगस्त 16
710631	वाअ	राकेश कुमार	चिकित्सा सहायक	02 अगस्त 16
628569	वाअ	राम कंवल विरोधिया	मेट सहायक	06 फरवरी 16
679514	वाअ	कमल प्रसाद शर्मा	मेट सहायक	06 फरवरी 16
679643	वाअ	रोशन लाल वर्मा	मेट सहायक	06 फरवरी 16
679692	वाअ	अतुल कुमार मिश्रा	मेट सहायक	06 फरवरी 16
679851	वाअ	अरविन्द कुमार शर्मा	मेट सहायक	06 फरवरी 16
692646	वाअ	अरुण कुमार मिश्रा	मेट सहायक	06 फरवरी 16
697897	वाअ	जय सिंह सिंघल	मेट सहायक	06 फरवरी 16
698084	वाअ	रमेश चन्द्र शिवकंद	मेट सहायक	06 फरवरी 16
697437	वाअ	असीम कुमार दत्ता	मेट सहायक	08 फरवरी 16
701728	वाअ	रामगोपाल सरोहा	मेट सहायक	02 मार्च 16
697378	वाअ	हमबीर सिंह	मेट सहायक	01 मई 16
698088	वाअ	सुरेश कुमार	मेट सहायक	01 मई 16
720903	वाअ	प्रेम प्रकाश तिवारी	मेट सहायक	01 जुलाई 16
696330	वाअ	जोगिन्दर सिंह	मेट सहायक	03 जुलाई 16

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल रैंक दिनांक
695906	वाअ	सरवेश कुमार तिवारी	मेट सहायक	05 जुलाई 16
695983	वाअ	लक्ष्मण सिंह सिरवी	मेट सहायक	05 जुलाई 16
755258	वाअ	उदय प्रसाद	एमएस फिटर(ई)	02 जुलाई 15
755279	वाअ	मनोज कुमार	एमएस फिटर(ई)	02 अगस्त 15
689337	वाअ	गौतम धर गुप्ता	एमएस फिटर(ई)	02 अप्रैल 16
750010	वाअ	अमिताभ चक्रवर्ती	एमएस फिटर(ई)	02 अप्रैल 16
755244	वाअ	गुर्रम भानु मूर्ति	एमएस फिटर(ई)	02 अप्रैल 16
755285	वाअ	संतोष कुमार	एमएस फिटर(ई)	02 अप्रैल 16
755256	वाअ	दीपक कुमार खुराना	एमएस फिटर(ई)	02 जून 16
755348	वाअ	मनोज कुमार साहू	एमएस फिटर(एल)	03 जुलाई 15
732301	वाअ	दीपक कुमार	एमएस फिटर(एम)	02 अक्टूबर 15
732579	वाअ	संजय कुमार अवरथी	एमएस फिटर(एम)	02 अक्टूबर 15
732658	वाअ	सुरेन्द्र कुमार गुप्ता	एमएस फिटर(एम)	02 अक्टूबर 15
750036	वाअ	राज कुमार पांडेय	एमएस फिटर(एम)	04 अक्टूबर 15
732581	वाअ	अजय पाल सिंह	एमएस फिटर(एम)	01 जुलाई 16
662680	मवाअ	राजेन्द्र सिंह	एम टी फिटर	02 मई 13
668055	वाअ	बृजेश कुमार मिश्रा	एम टी फिटर	02 मई 13
668613	वाअ	जितेन्द्र कुमार तिवारी	एम टी फिटर	02 मई 13
669196	वाअ	हरि नारायण पांडेय	एम टी फिटर	02 मई 13
669697	वाअ	अशोक कुमार सिंह	एम टी फिटर	02 मई 13
669964	वाअ	मूल चंद जाट	एम टी फिटर	02 मई 13
675028	वाअ	मंजूनाथ	एम टी फिटर	02 मई 13
675328	वाअ	सोमे नाथ बनर्जी	एम टी फिटर	02 मई 13
675417	वाअ	ओमबीर सिंह	एम टी फिटर	02 मई 13
675559	वाअ	दया शंकर शॉ	एम टी फिटर	02 मई 13
675574	वाअ	सुब्रत मौलिक	एम टी फिटर	02 मई 13
675866	वाअ	अशोक कुमार सिंह	एम टी फिटर	02 मई 13
678631	वाअ	पर्वन सिंह	एम टी फिटर	01 दिसम्बर 13
678348	वाअ	नीले मोहन डे	एम टी फिटर	01 मई 14
678362	वाअ	पैरी मोहन चट्टोपाध्याय	एम टी फिटर	01 जून 14
676002	वाअ	उपेन्द्र कुमार	एम टी फिटर	02 जुलाई 14
677377	वाअ	तपस कुमार संतरा	एम टी फिटर	04 जुलाई 14
662743	वाअ	जवाहर लाल	एम टी फिटर	02 अक्टूबर 14

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल रैंक दिनांक
677829	वाअ	ओम प्रकाश सिंह	एम टी फिटर	02 अक्टूबर 14
662774	वाअ	मान सिंह	एम टी फिटर	04 अक्टूबर 15
662775	वाअ	देविन्दर कुमार	एम टी फिटर	04 अक्टूबर 15
668873	वाअ	सशि भूषण भोले	एम टी फिटर	04 अक्टूबर 15
675340	वाअ	मनोज कुमार	एम टी फिटर	04 अक्टूबर 15
676121	वाअ	राजेश्वर शॉ	एम टी फिटर	04 अक्टूबर 15
676443	वाअ	श्रीनिवास चन्द्र महाना	एम टी फिटर	04 अक्टूबर 15
677261	वाअ	नर सिंह मल्हान	एम टी फिटर	04 अक्टूबर 15
677279	वाअ	बलवान सिंह वर्मा	एम टी फिटर	04 अक्टूबर 15
677587	वाअ	अशोक कुमार शर्मा	एम टी फिटर	04 अक्टूबर 15
678080	वाअ	रघु कुल भूषण	एम टी फिटर	04 अक्टूबर 15
679993	वाअ	विष्णु दत्त सरस्वत	एम टी फिटर	04 अक्टूबर 15
695161	वाअ	संतोष कुमार	एम टी फिटर	04 अक्टूबर 15
731047	वाअ	हर्षवर्धनन के पी	एम टी फिटर	04 अक्टूबर 15
679974	वाअ	नरेन्द्र प्रसाद	एम टी फिटर	01 नवम्बर 15
676249	वाअ	तुंग नाथ तिवारी	एम टी फिटर	01 जनवरी 16
675875	वाअ	केशव नारायण प्रसाद	एम टी फिटर	01 फरवरी 16
676092	वाअ	सुशील कुमार	एम टी फिटर	01 फरवरी 16
676233	वाअ	रंजन कुमार	एम टी फिटर	01 फरवरी 16
676753	वाअ	अशोक कुमार पांडेय	एम टी फिटर	01 फरवरी 16
677252	वाअ	नरेन्द्र सिंह	एम टी फिटर	01 फरवरी 16
677487	वाअ	धन पाल शर्मा	एम टी फिटर	01 फरवरी 16
678497	वाअ	मधु सूदन	एम टी फिटर	01 फरवरी 16
677525	वाअ	कश्मीरी लाल	एम टी फिटर	03 फरवरी 16
623663	वाअ	रघुवीर सिंह शेखावत	एमटीडी	25 सितम्बर 15
627195	वाअ	शिव शंकर तिवारी	एमटीडी	25 सितम्बर 15
629371	वाअ	लोकेश कुमार माथुर	एमटीडी	25 सितम्बर 15
627776	वाअ	धर्म वीर सिंह	एमटीडी	27 सितम्बर 15
706382	वाअ	असीम पाल	एमटीडी	27 सितम्बर 15
627721	वाअ	बृजेन्द्र सिंह	एमटीडी	03 अक्टूबर 15
628581	वाअ	स्वर्णजीत सिंह	एमटीडी	03 अक्टूबर 15
628816	वाअ	चन्द्र कुमार बाजपेयी	एमटीडी	03 अक्टूबर 15
629138	वाअ	दलीप कुमार यादव	एमटीडी	03 अक्टूबर 15

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल रैंक दिनांक
705633	वाअ	गणपत गणेश	एमटीडी	03 अक्टूबर 15
629697	वाअ	प्रकाश वीर	एमटीडी	01 नवम्बर 15
629744	वाअ	शिव प्रसाद साहू	एमटीडी	01 नवम्बर 15
629834	वाअ	राजेश धर दुबे	एमटीडी	01 नवम्बर 15
705137	वाअ	कौशल किशोर सिंह	एमटीडी	01 जनवरी 16
705245	वाअ	जय सिंह	एमटीडी	01 जनवरी 16
627634	वाअ	प्रकाश कुमार दत्ता	एमटीडी	01 फरवरी 16
629755	वाअ	रवि के	एमटीडी	01 फरवरी 16
705532	वाअ	राजेश कुमार कौशिक	एमटीडी	01 फरवरी 16
705819	वाअ	सजीमोन थॉमस	एमटीडी	01 फरवरी 16
706028	वाअ	सुकुमार नायक	एमटीडी	01 फरवरी 16
706322	वाअ	विपन कुमार सोढ़ी	एमटीडी	01 फरवरी 16
706339	वाअ	ओमप्रकाश वैष्णव	एमटीडी	01 फरवरी 16
706358	वाअ	सत्य देव यादव	एमटीडी	01 फरवरी 16
706613	वाअ	जय भगवान	एमटीडी	01 फरवरी 16
628861	वाअ	गणेश्वर प्रसाद यादव	एमटीडी	01 मार्च 16
629319	वाअ	बलजीत सिंह ढोंचक	एमटीडी	01 मार्च 16
629440	वाअ	सुशील कुमार पाल	एमटीडी	01 मार्च 16
629699	वाअ	इमान कुमार सुरेदिया	एमटीडी	01 मार्च 16
629815	वाअ	कमलेश कुमार महर्षि	एमटीडी	01 मार्च 16
706340	वाअ	भंवर लाल चौधरी	एमटीडी	01 मार्च 16
706370	वाअ	विजय पाल	एमटीडी	01 मार्च 16
706602	वाअ	पंकज कुमार त्यागी	एमटीडी	01 मार्च 16
628869	वाअ	अरुण कुमार गुजर	एमटीडी	01 अप्रैल 16
629805	वाअ	मलिक राम सोलंकी	एमटीडी	01 अप्रैल 16
705005	वाअ	वी बी वासु देवचार्युलु	एमटीडी	01 अप्रैल 16
705072	वाअ	अशोक कुमार शर्मा	एमटीडी	01 अप्रैल 16
706244	वाअ	संदीप	एमटीडी	01 अप्रैल 16
629459	वाअ	बलजीत सिंह	एमटीडी	03 मई 16
721278	वाअ	नरेन्द्र कुमार	एमटीडी	03 मई 16
721597	वाअ	यशपाल सिंह	एमटीडी	03 मई 16
722460	वाअ	संतोष मनत	एमटीडी	03 मई 16
721561	वाअ	गुलाब सिंह	एमटीडी	03 जून 16

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल रैंक दिनांक
721858	वाअ	राज कुमार बधन	एमटीडी	03 जून 16
722510	वाअ	राजू सिंह	एमटीडी	03 जून 16
722554	वाअ	तुषार कान्त बारिक	एमटीडी	03 जून 16
629717	वाअ	सुदेश पाल	एमटीडी	02 अगस्त 16
720967	वाअ	अलोक चौधरी	एमटीडी	02 अगस्त 16
721294	वाअ	श्रीचंद सिंह यादव	एमटीडी	02 अगस्त 16
721322	वाअ	उत्पल चक्रबोर्ती	एमटीडी	02 अगस्त 16
629513	वाअ	भजन कुमार दास	म्यूजिशियन	01 जुलाई 16
689481	वाअ	राजेश कुमार उपाध्याय	फोटो फिटर	03 सितम्बर 15
689464	वाअ	मो. तौकीर अहमद	फोटो फिटर	01 फरवरी 16
689517	वाअ	कृष्ण चन्द्र कौशिक	फोटो फिटर	01 फरवरी 16
723977	वाअ	सुरेन्द्र कुमार सिंह चौहान	पीजेआई	02 जुलाई 15
739605	वाअ	अभिमन्यु मोहापात्रा	पीजेआई	02 जुलाई 15
704271	मावाअ	सुरेन्द्र सिंह	पीजेआई	03 सितम्बर 15
702977	मावाअ	मेहर सिंह पुंडीर	पीजेआई	05 सितम्बर 15
683458	वाअ	रामबाबू मौर्या	रेडार फिटर	18 जनवरी 11
683512	वाअ	अनुपम रतूडी	रेडार फिटर	18 जनवरी 11
683880	वाअ	शिव नारायण कौशल	रेडार फिटर	18 जनवरी 11
684520	वाअ	अलक कांति मुखर्जी	रेडार फिटर	18 जनवरी 11
684844	वाअ	कृष्णन कॉलिंगल लक्ष्मणन	रेडार फिटर	18 जनवरी 11
690234	वाअ	विष्णु भगवान उपमन्यु	रेडार फिटर	18 जनवरी 11
690335	वाअ	विनोद कुमार तोमर	रेडार फिटर	20 जनवरी 11
690447	वाअ	सोमनाथ संतरा	रेडार फिटर	20 जनवरी 11
690499	वाअ	राम केवल दुबे	रेडार फिटर	22 जनवरी 11
684276	वाअ	आनन्द कुमार गिरी	रेडार फिटर	24 जनवरी 11
690473	वाअ	शिव शरण शर्मा	रेडार फिटर	24 जनवरी 11
691976	वाअ	लोक नाथ सिंह यादव	रेडार फिटर	28 जनवरी 11
680875	वाअ	अश्वनी कुमार हरितवाल	रेडार फिटर	30 जनवरी 11
684290	वाअ	रमा कान्त	रेडार फिटर	30 जनवरी 11
691827	वाअ	लखन पाल नेरवत	रेडार फिटर	30 जनवरी 11
691869	वाअ	अलोके कुमार पांडा	रेडार फिटर	30 जनवरी 11
692453	वाअ	भृगु कुमार मिश्रा	रेडार फिटर	30 जनवरी 11
640230	वाअ	सत्य नारायण कुमार	रेडार फिटर	01 फरवरी 11

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल रैंक दिनांक
640930	वाअ	महेन्द्र पाल सिंह	रेडार फिटर	01 फरवरी 11
685021	मावाअ	सुनील कुमार	रेडार फिटर	01 फरवरी 11
685140	वाअ	मुनेश्वर ठाकुर	रेडार फिटर	01 फरवरी 11
686436	वाअ	अभय कुमार साहू	रेडार फिटर	01 फरवरी 11
690395	वाअ	शिव बालक प्रसाद यादव	रेडार फिटर	01 फरवरी 11
690934	वाअ	प्रमोद विश्वनाथ बदगुजर	रेडार फिटर	01 फरवरी 11
705652	वाअ	मनोज कुमार	रेडार फिटर	01 फरवरी 11
715278	वाअ	अजय कुमार श्रीवास्तव	रेडार फिटर	01 फरवरी 11
715890	वाअ	दया चंद	रेडार फिटर	01 फरवरी 11
685053	वाअ	एलनगोवन एसी	रेडार फिटर	03 फरवरी 11
654691	वाअ	नरेश कुमार	रेडार फिटर	05 फरवरी 11
690325	वाअ	सुरेन्द्र सिंह नेगी	रेडार फिटर	02 मई 11
640966	मावाअ	रामचंद्रन के पी	रेडार फिटर	02 जून 11
683154	वाअ	दत्ता जीवन कुमार	रेडार फिटर	02 जून 11
684986	वाअ	चौधरी अजय कुमार पटनायक	रेडार फिटर	02 जून 11
685456	वाअ	भरत पाल भाटी	रेडार फिटर	02 जून 11
686027	वाअ	नारायण मारी हरिकान्त	रेडार फिटर	02 जून 11
691344	वाअ	सत्य पाल सिंह	रेडार फिटर	02 जून 11
691748	वाअ	बीरेश कुमार सिंह	रेडार फिटर	02 जून 11
691926	वाअ	अनिल कुमार रावत	रेडार फिटर	02 जून 11
691974	वाअ	राजन कुमार श्रीवास्तव	रेडार फिटर	02 जून 11
692031	वाअ	पुष्कर कुमार भटनागर	रेडार फिटर	02 जून 11
673843	वाअ	प्रमोद कुमार सिंह	रेडार फिटर	02 जुलाई 11
674017	वाअ	मणि लाल प्रसाद	रेडार फिटर	02 जुलाई 11
674385	वाअ	प्रदीप कुमार	रेडार फिटर	02 जुलाई 11
674972	वाअ	अखिलेश कुमार सिंह	रेडार फिटर	02 जुलाई 11
680026	वाअ	अशोक कुमार	रेडार फिटर	02 जुलाई 11
680750	वाअ	सत्यवीर सिंह	रेडार फिटर	02 जुलाई 11
682745	वाअ	जय चंद	रेडार फिटर	02 जुलाई 11
683310	वाअ	उमेश चंद यादव	रेडार फिटर	02 जुलाई 11
683997	वाअ	सुनीत कुमार शर्मा	रेडार फिटर	02 जुलाई 11
684309	वाअ	देवेन्द्र बहादुर सिंह	रेडार फिटर	02 जुलाई 11
690211	वाअ	राजेन्द्र सिंह	रेडार फिटर	02 जुलाई 11

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल रैंक दिनांक
683584	वाअ	मार्कण्डेय सिंह	रेडार फिटर	02 अगस्त 11
690297	वाअ	तारा चंद सोनी	रेडार फिटर	02 अगस्त 11
690642	वाअ	आर बालाकृष्णन	रेडार फिटर	02 सितम्बर 11
691261	वाअ	ब्रह्म पाल	रेडार फिटर	02 सितम्बर 11
685076	वाअ	रविन्द्र कुमार तोमर	रेडार फिटर	02 अक्टूबर 11
690370	वाअ	प्रकाश चन्द्र महाराणा	रेडार फिटर	02 अक्टूबर 11
692454	वाअ	कमलेश कुमार द्विवेदी	रेडार फिटर	02 अक्टूबर 11
653325	वाअ	विनय कुमार सिंह	रेडियो फिटर	01 अक्टूबर 15
673411	वाअ	प्रदीप कुमार	रेडियो फिटर	01 अक्टूबर 15
674242	वाअ	सुकुमार बिस्वास	रेडियो फिटर	01 अक्टूबर 15
674547	वाअ	वर्मा राधे श्याम	रेडियो फिटर	01 अक्टूबर 15
674761	वाअ	राम मेहर शर्मा	रेडियो फिटर	01 अक्टूबर 15
681690	वाअ	मधु सूदन घोष	रेडियो फिटर	01 अक्टूबर 15
683655	वाअ	कल्हू राम यादव	रेडियो फिटर	01 अक्टूबर 15
690539	वाअ	कौशल कुमार सिंह	रेडियो फिटर	01 अक्टूबर 15
691589	वाअ	कौशल सिंह	रेडियो फिटर	01 अक्टूबर 15
673434	वाअ	शत्रुंजय कुमार तिवारी	रेडियो फिटर	03 अक्टूबर 15
682474	वाअ	सुशील कुमार छेत्री	रेडियो फिटर	03 अक्टूबर 15
680118	वाअ	उमर फारुक	रेडियो फिटर	08 अक्टूबर 15
681019	वाअ	मंजीत सिंह	रेडियो फिटर	08 अक्टूबर 15
640440	वाअ	हरीश चन्द्र तिवारी	रेडियो फिटर	02 जनवरी 16
683364	वाअ	राज कुमार	रेडियो फिटर	02 जनवरी 16
684079	वाअ	देवेन्द्र कुमार सिंह	रेडियो फिटर	02 जनवरी 16
685071	वाअ	अरुण कुमार	रेडियो फिटर	02 जनवरी 16
691302	वाअ	सुरेन्द्र कुमार वर्मा	रेडियो फिटर	02 जनवरी 16
692190	वाअ	नंद किशोर	रेडियो फिटर	02 जनवरी 16
715189	वाअ	राम धारी	रेडियो फिटर	02 जनवरी 16
715394	वाअ	राम गोपाल चौधरी	रेडियो फिटर	02 जनवरी 16
684393	वाअ	महाबीर प्रसाद जतैवाल	रेडियो फिटर	04 जनवरी 16
681387	वाअ	नहत्तयेला मुल्लान विनोद	रेडियो फिटर	06 जनवरी 16
685179	वाअ	मनोज कुमार पॉल	रेडियो फिटर	06 जनवरी 16
680983	वाअ	राम सागर प्रसाद यादव	रेडियो फिटर	08 जनवरी 16
640793	वाअ	धनंजय किशोर श्रीवास्तवा	रेडियो फिटर	02 फरवरी 16

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल रैंक दिनांक
640939	वाअ	सतीश कुमार	रेडियो फिटर	02 फरवरी 16
680938	वाअ	राजेन्द्र कुमार भार्गव	रेडियो फिटर	02 फरवरी 16
682629	वाअ	दिलीप कुमार मंडल	रेडियो फिटर	02 फरवरी 16
683273	वाअ	विजय कुमार दहिया	रेडियो फिटर	02 फरवरी 16
683538	वाअ	सुरेन्द्र कुमार दीक्षित	रेडियो फिटर	02 फरवरी 16
684230	वाअ	संजय कुमार साहा	रेडियो फिटर	02 फरवरी 16
684833	वाअ	पाटिल राजकुमार धनसिंग	रेडियो फिटर	02 फरवरी 16
685471	वाअ	मनोज कुमार	रेडियो फिटर	02 फरवरी 16
690158	वाअ	राम प्रकाश त्रिपाठी	रेडियो फिटर	02 फरवरी 16
705765	वाअ	धर्म सिंह	रेडियो फिटर	02 फरवरी 16
705780	वाअ	रोताश कुमार	रेडियो फिटर	02 फरवरी 16
706849	वाअ	चन्द्र कुमार झा	रेडियो फिटर	02 फरवरी 16
715420	वाअ	अभय कुमार मिश्रा	रेडियो फिटर	02 फरवरी 16
629943	वाअ	अजीत कुमार श्रीवास्तवा	रेडियो फिटर	02 मई 16
640709	वाअ	आनंद मोय घोष	रेडियो फिटर	02 मई 16
654812	वाअ	बिधान कुमार पॉल	रेडियो फिटर	02 मई 16
683179	वाअ	शर्मा योगेन्द्र कुमार	रेडियो फिटर	02 मई 16
685115	वाअ	रमेश कुमार	रेडियो फिटर	02 मई 16
685496	वाअ	जयभगवान शर्मा	रेडियो फिटर	02 मई 16
690544	वाअ	संतोष कुमार	रेडियो फिटर	02 मई 16
690713	वाअ	राम निवास	रेडियो फिटर	02 मई 16
691003	वाअ	सथीसन एम एन	रेडियो फिटर	02 मई 16
691054	वाअ	गवंदलकर एस वी	रेडियो फिटर	02 मई 16
691570	वाअ	संजय कुमार शाही	रेडियो फिटर	02 मई 16
691732	वाअ	जोगिन्द्र प्रसाद प्रजापति	रेडियो फिटर	02 मई 16
691788	वाअ	अमरीश कुमार	रेडियो फिटर	02 मई 16
691980	वाअ	राजेश कुमार दीक्षित	रेडियो फिटर	02 मई 16
692139	वाअ	राम चन्द्र मौर्या	रेडियो फिटर	02 मई 16
715761	वाअ	मौ. असगर अली आजाद	रेडियो फिटर	02 मई 16
680095	वाअ	पिजूष कान्ति साहा	रेडियो फिटर	04 मई 16
640948	वाअ	कृष्ण चन्द्र	रेडियो फिटर	06 मई 16
715806	वाअ	राजेश्वर प्रसाद रॉय	रेडियो फिटर	06 मई 16
685730	वाअ	अरुण कुमार सिंह	रेडियो फिटर	02 जून 16

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल रैंक दिनांक
706134	वाअ	प्रेम चंद सिंह	रेडियो फिटर	02 जून 16
715524	वाअ	सत्य प्रकाश	रेडियो फिटर	02 जून 16
715562	वाअ	अखिलेश कुमार सिंह	रेडियो फिटर	02 जून 16
673431	वाअ	अबधेश कुमार	रेडियो फिटर	01 अगस्त 16
686163	वाअ	बैद्य नाथ मंडल	रेडियो फिटर	01 अगस्त 16
686280	वाअ	समरजीत दास	रेडियो फिटर	01 अगस्त 16
687540	वाअ	श्याम सुन्दर बारिक	रेडियो फिटर	01 अगस्त 16
687776	वाअ	प्रवीण कुमार त्यागी	रेडियो फिटर	01 अगस्त 16
715884	वाअ	लोकेन्द्र सिंह चाहर	रेडियो फिटर	01 अगस्त 16
691469	वाअ	सुरिन्दर सिंह बाहरी	रेडियो फिटर	03 अगस्त 16
706825	वाअ	मनोज कुमार	रेडियो फिटर	03 अगस्त 16
715073	वाअ	रतन कुमार चौहान	रेडियो फिटर	03 अगस्त 16
685463	वाअ	दिलबाग सिंह	रेडियो टेक	02 अक्टूबर 14
685825	वाअ	धीरेन्द्र कुमार पटेल	रेडियो टेक	02 अक्टूबर 14
718269	वाअ	जितेन्द्र कुमार	रेडियो टेक	02 अक्टूबर 14
719882	वाअ	मृन्ल कान्ति घोष	रेडियो टेक	02 अप्रैल 15
685941	वाअ	दुर्गेश मिश्रा	रेडियो टेक	02 जुलाई 15
695526	वाअ	सुनील दत्त	एसईडब्ल्यू	01 अप्रैल 15
730460	वाअ	श्री राम तिवारी	एसईडब्ल्यू	03 अप्रैल 15
696670	वाअ	मुकेश कुमार	एसईडब्ल्यू	02 जनवरी 16
697085	वाअ	प्रदीप तिवारी	एसईडब्ल्यू	02 फरवरी 16
640061	वाअ	रमेश कुमार	टेलिस्ट आरटीओ	02 जुलाई 15
640089	वाअ	राजेश कुमार वर्मा	टेलिस्ट आरटीओ	02 जुलाई 15
640136	वाअ	सत्य बीर सिंह	टेलिस्ट आरटीओ	02 जुलाई 15
640765	वाअ	श्याम किशोर सिंह	टेलिस्ट आरटीओ	02 जुलाई 15
640083	वाअ	सुदेश कुमार लाल दास	टेलिस्ट आरटीओ	02 अगस्त 15
715709	वाअ	एन मुकुंद राज	टेलिस्ट आरटीओ	02 अगस्त 15
715145	वाअ	रजनी कान्त ओझा	टेलिस्ट आरटीओ	02 सितम्बर 15
640891	वाअ	सम्भु सरकार	टेलिस्ट आरटीओ	08 सितम्बर 15
640011	वाअ	मोहम्मद अकरम तंवर	टेलिस्ट आरटीओ	03 अक्टूबर 15
640124	वाअ	नबाब खान	टेलिस्ट आरटीओ	03 अक्टूबर 15
640202	वाअ	अशोक कुमार	टेलिस्ट आरटीओ	03 अक्टूबर 15
640215	वाअ	परमात्मा सिर्वेस्वरन	टेलिस्ट आरटीओ	03 अक्टूबर 15

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल रैंक दिनांक
640102	वाअ	दिलबाग सिंह दहिया	टेलेस्ट आरटीओ	02 नवम्बर 15
640146	वाअ	भवानी शंकर शर्मा	टेलेस्ट आरटीओ	02 नवम्बर 15
640760	वाअ	राजवीर सिंह	टेलेस्ट आरटीओ	02 दिसम्बर 15
715675	वाअ	देबब्रत मिश्रा	टेलेस्ट आरटीओ	02 दिसम्बर 15
687833	वाअ	पी कृष्ण कुमार	टेलेस्ट आरटीओ	02 जनवरी 16
715698	वाअ	राधा कृष्ण ठाकुर	टेलेस्ट आरटीओ	02 जनवरी 16
717361	वाअ	सुभाष कुमार	टेलेस्ट आरटीओ	02 फरवरी 16
719737	वाअ	अतेंद्र कुमार तोमर	टेलेस्ट आरटीओ	02 फरवरी 16
716778	वाअ	हरेन्द्र सिंह	टेलेस्ट आरटीओ	03 मार्च 16
718636	वाअ	शाजी कोरोथ नायर	टेलेस्ट आरटीओ	03 मार्च 16
718656	वाअ	विकास चौधरी	टेलेस्ट आरटीओ	03 मार्च 16
719489	वाअ	वीरेन्द्र कुमार औदीच्य	टेलेस्ट आरटीओ	03 मार्च 16
745743	वाअ	हरदीप सिंह	टेलेस्ट आरटीओ	03 मार्च 16
640301	वाअ	पुरुषोत्तम नारायण सिंह	टेलेस्ट आरटीओ	02 अप्रैल 16
687981	वाअ	रमेश कुमार सिंह	टेलेस्ट आरटीओ	02 मई 16
639008	वाअ	दुर्गा प्रसाद पात्रो	टेलेस्ट आरटीओ	01 जुलाई 16
696105	वाअ	दिनेश कुमार यादव	वेपन फिटर	02 जुलाई 15
696247	वाअ	नवीन कुमार	वेपन फिटर	02 अक्टूबर 15
696574	वाअ	विक्रम सिंह	वेपन फिटर	02 नवम्बर 15
696940	वाअ	आशा राम	वेपन फिटर	02 दिसम्बर 15
730523	वाअ	अपूर्वा मुखर्जी	वेपन फिटर	04 दिसम्बर 15
696559	वाअ	अमर पाल	वेपन फिटर	03 जनवरी 16
696776	वाअ	राम नरेश दुबे	वेपन फिटर	03 जनवरी 16
696850	वाअ	पंकज प्रसून	वेपन फिटर	03 जनवरी 16
696976	वाअ	अनिल कुमार सिंह	वेपन फिटर	03 जनवरी 16
697316	वाअ	अशोक कुमार गुप्ता	वेपन फिटर	03 जनवरी 16
696147	वाअ	कुलतार चंद राणा	वेपन फिटर	03 फरवरी 16
696544	वाअ	शाबीर अली	वेपन फिटर	03 फरवरी 16
696589	वाअ	अशोक कुमार यादव	वेपन फिटर	03 फरवरी 16
696608	वाअ	प्रभाकर मिश्रा	वेपन फिटर	03 फरवरी 16
696797	वाअ	श्री कान्त त्रिपाठी	वेपन फिटर	03 फरवरी 16
696977	वाअ	रमेश कुमार पांडेय	वेपन फिटर	03 फरवरी 16
697356	वाअ	उदय कुमार सिंह	वेपन फिटर	03 फरवरी 16
698023	वाअ	मुकुन्दन किझक्के विट्टल	वेपन फिटर	03 फरवरी 16
697210	वाअ	नरेन्द्र कुमार सिंह	वेपन फिटर	03 मार्च 16
697307	वाअ	ब्रह्मा प्रसाद	वेपन फिटर	03 मार्च 16
697777	वाअ	हरीश भारती	वेपन फिटर	03 मार्च 16

सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल रैंक दिनांक
696561	वाअ	विजेन्द्र सिंह	वेपन फिटर	03 अप्रैल 16
697065	वाअ	संतोष कुमार पांडेय	वेपन फिटर	03 अप्रैल 16
697362	वाअ	याकूब खान	वेपन फिटर	03 अप्रैल 16
697782	वाअ	सुभाष चन्द्र पंडित	वेपन फिटर	03 अप्रैल 16
697847	वाअ	माधव घोष	वेपन फिटर	03 अप्रैल 16
698128	वाअ	संजीव कुमार ठाकुर	वेपन फिटर	03 अप्रैल 16
698402	वाअ	देवेन्द्र दर्शन रावत	वेपन फिटर	03 अप्रैल 16
699565	वाअ	प्रमोद शर्मा	वेपन फिटर	03 अप्रैल 16
729163	वाअ	अनिल कुमार सेंगर	वेपन फिटर	03 अप्रैल 16
730328	वाअ	परमा नन्द सेमवल	वेपन फिटर	03 मई 16
765557	वाअ	चमन लाल	वेपन फिटर	03 मई 16
765883	वाअ	बैज नाथ सिंह ठाकुर	वेपन फिटर	03 मई 16
695668	वाअ	ओम प्रकाश सोनी	वेपन फिटर	03 जून 16
729263	वाअ	के प्रवीण	वेपन फिटर	03 जून 16
732073	वाअ	बिद्याधर पुहान	वेपन फिटर	03 जून 16
732383	वाअ	विरेंद्र कुमार	वेपन फिटर	03 जून 16
765528	वाअ	उमा शंकर तिवारी	वेपन फिटर	03 जून 16
697820	वाअ	शैलेश कुमार द्विवेदी	वर्कशॉप फिटर (बी)	02 जनवरी 16
697817	वाअ	रवि शंकर सिंह	वर्कशॉप फिटर (बी)	02 मार्च 16
697866	वाअ	सुशोवन घोष	वर्कशॉप फिटर (बी)	03 अप्रैल 16
733580	वाअ	राजेश कुमार चन्दोलिया	वर्कशॉप फिटर (बी)	03 जून 16
665238	वाअ	गाँधी राम खतानियार	वर्कशॉप फिटर (सी)	02 जुलाई 15
698115	वाअ	रमेश कुमार मलिक	वर्कशॉप फिटर (सी)	02 जुलाई 15
697938	वाअ	नागेश कुमार मिश्रा	वर्कशॉप फिटर (सी)	01 जनवरी 16
697861	वाअ	बिकाश चन्द्र डे	वर्कशॉप फिटर (सी)	01 फरवरी 16
698061	वाअ	नंदीयील परमेस्वरन स्याम	वर्कशॉप फिटर (सी)	01 फरवरी 16
733124	वाअ	अर्पण बासु	वर्कशॉप फिटर (सी)	03 अप्रैल 16
733603	वाअ	पवन कुमार यादव	वर्कशॉप फिटर (सी)	05 अप्रैल 16
696916	वाअ	अरविन्द कुमार त्रिपाठी	वर्कशॉप फिटर (एम)	01 अगस्त 15
699788	वाअ	अशोक कुमार तिवारी	वर्कशॉप फिटर (एम)	01 अगस्त 15
678960	वाअ	सतीश कुमार	वर्कशॉप फिटर (एम)	02 नवम्बर 15
679813	वाअ	सत्येन्द्र नराइ सिंह	वर्कशॉप फिटर (एम)	01 दिसम्बर 15

यू के तिवारी
अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 24th June 2017

AIR BRANCH

No. 110, dated 28th April 2017—The President is pleased to award Permanent Commission (On Probation) and Wings to the undermentioned officers of 194 Pilot Course in the rank of Fg Offr wef the dates mentioned against their names, under the provisions of AFO 59/98. These officers will be eligible for grant of flying pay with effect from the date of grant of PC(On Probation) & Wings i.e. 20 Dec 14.

INDIAN AIR FORCE

FLYING (PILOT) BRANCH

EX FLIGHT CADETS TO BE FLYING OFFICERS

Fg Offr Pankaj Kumar Nandal (34110), wef 20 Dec 14

The President is pleased to terminate the Provisional Short Service Commission granted to the undermentioned officers and grant them Permanent Commission (On Probation) in the rank of Fg Offr wef the date mentioned against their names under the provisions of AFO 59/98

INDIAN AIR FORCE

U/T OFFICERS TO BE FG OFFR

METEOROLOGICAL BRANCH

Fg Offr Seljin Mathew (34743), Elavarasan K (34744) : wef 20 Jun 15

Fg Offr R Arun (33838), wef 20 Dec 14

The President is pleased to terminate the Provisional Short Service Commission granted to the undermentioned officers of 134 GDOC and grant them Permanent Commission (On Probation) in the rank of Fg Offr wef the date mentioned against their names under the provisions of AFO 59/98

INDIAN AIR FORCE

U/T OFFICERS TO BE FG OFFR

METEOROLOGICAL BRANCH

Fg Offr Abhishek (33434), Mallela Mahesh (33435), Abhay Pratap Singh Chandel (33436), Abhimanyu Ujjwal (33437), Gurjinder Singh (33438), Jha Ashish Kumar (33439), Rakesh Chandra Sharma (33440): wef 21 Jun 14

The President is pleased to terminate the Provisional Short Service Commission granted to the undermentioned officers of 133 GDOC and grant them Permanent Commission (On Probation) in the rank of Fg Offr wef the date mentioned against their names under the provisions of AFO 59/98

INDIAN AIR FORCE

U/T OFFICERS TO BE FG OFFR

METEOROLOGICAL BRANCH

Fg Offr Harjot Singh Viridi (33116), Amol Tatyaso Jadhav (33117), Ranele Kiran Arun (33118), Ravichandran R (33119), wef 14 Dec 13

The President is pleased to terminate the Provisional Short Service Commission granted to the undermentioned officers and grant them Permanent Commission (On Probation) in the rank of Fg Offr wef the date mentioned against their names under the provisions of AFO 59/98

INDIAN AIR FORCE

U/T OFFICERS TO BE FG OFFR

METEOROLOGICAL BRANCH

Fg Offr Ravi Rohaj (32720), Raghul R (32721), wef 22 Jun 13

The President is pleased to award Provisional Short Service Commission to the undermentioned U/T officers wef the dates mentioned against their names under the provisions of AFO 59/98.

INDIAN AIR FORCE

MET BRANCH

Fg Offr Abhishek (32719), Ravi Rohaj (32720), Raghul R (32721), wef 09 Jul 12

The President is pleased to award Provisional Short Service Commission to the under mentioned U/T officers of 133 GDOC wef the date mentioned against their names under the provisions of AFO 59/98.

INDIAN AIR FORCE

MET BRANCH

Fg Offr Harjot Singh Viridi (33116), Amol Tatyaso Jadhav (33117), Ranele Kiran Arun (33118), Ravichandran R (33119), wef 07 Jan 13

The President is pleased to award Provisional Short Service Commission to the under mentioned U/T officers of 134 GDOC wef the date mentioned against their names under the provisions of AFO 59/98.

INDIAN AIR FORCE

MET BRANCH

Fg Offr Abhishek (33434), Mallela Mahesh (33435), Abhay Pratap Singh Chandel (33436), Abhimanyu Ujjwal (33437), Gurjinder Singh (33438), Jha Ashish Kumar (33439), Rakesh Chandra Sharma (33440), wef 01 Jul 13

The President is pleased to award Provisional Short Service Commission to the under mentioned U/T officer wef the date mentioned against their name under the provisions of AFO 59/98.

INDIAN AIR FORCE

MET BRANCH

Fg Offr R Arun (33838), wef 06 Jan 14

Fg Offr Seljin Mathew (34743), Elavarasan K (34744), wef 07 Jul 14

The President is pleased to grant Provisional Short Service Commission to the under mentioned U/T officer of 25 SSC(M) GDOC wef the date mentioned against their name under the provisions of Govt of India, Min of Def letter No. Air HQ/S 24745/4/PP(O)/PC-I/184/DS/D(Air-III) dated 23 Apr 01.

INDIAN AIR FORCE

MET BRANCH

Fg Offr Neeraj Kumar (32722), wef 09 Jul 12

The President is pleased to terminate the Provisional Short Service Commission and grant Short Service Commission (on probation) to the undermentioned U/T officer of 25 SSC(M) GDOC wef the date mentioned against his name under the provisions of Govt of India, Min of Def letter No. Air HQ/S 24745/4/PP(O)/PC-I/184/DS/D(Air-III) dated 23 Apr 01.

INDIAN AIR FORCE

U/T OFFR TO BE FG OFFR

METEOROLOGICAL BRANCH

Fg Offr Neeraj Kumar (32722), wef 22 Jun 13

The President is pleased to grant Provisional Short Service Commission to the under mentioned U/T officer of 26 SSC(M) GDOC wef the date mentioned against his name under the provisions of Govt of India, Min of Def letter No. Air HQ/S 24745/4/PP(O)/PC-I/184/DS/D(Air-III) dated 23 Apr 01.

INDIAN AIR FORCE

MET BRANCH

Fg Offr Nair James Raghu (33120), wef 07 Jan 13

The President is pleased to terminate the Provisional Short Service Commission and grant Short Service Commission (on probation) to the undermentioned U/T officer of 26 SSC(M) GDOC wef the date mentioned against his

name under the provisions of Govt of India, Min of Def letter No. Air HQ/S 24745/4/PP(O)/PC-I/184/DS/D(Air-III) dated 23 Apr 01.

INDIAN AIR FORCE
U/T OFFR TO BE FG OFFR
METEOROLOGICAL BRANCH

Fg Offr Nair James Raghu (33120), wef 14 Dec 13

The President is pleased to grant Provisional Short Service Commission to the under mentioned U/T officers of 41 SSC (W) GDOC wef the date mentioned against their name under the provisions of Govt of India, Min of Def letter No. Air HQ/S 24745/4/PP(O)/PC-I/184/DS/D(Air-III) dated 23 Apr 01.

INDIAN AIR FORCE
MET BRANCH

Fg Offr Deepti (32723), Cheshta Shankar (32724), wef 09 Jul 12.

The President is pleased to terminate the Provisional Short Service Commission and grant Short Service Commission (on probation) to the undermentioned U/T officers of 41 SSC (W) GDOC wef the date mentioned against their names under the provisions of Govt of India, Min of Def letter No. Air HQ/S 24745/4/PP(O)/PC-I/184/DS/D(Air-III) dated 23 Apr 01.

INDIAN AIR FORCE
U/T OFFR TO BE FG OFFR
METEOROLOGICAL BRANCH

Fg Offr Deepti (32723), Cheshta Shankar (32724), wef 22 Jun 13

The President is pleased to grant Provisional Short Service Commission to the under mentioned U/T officers of 42 SSC (W) GDOC wef the date mentioned against their name under the provisions of Govt of India, Min of Def letter No. Air HQ/S 24745/4/PP(O)/PC-I/184/DS/D(Air-III) dated 23 Apr 01.

INDIAN AIR FORCE
MET BRANCH

Fg Offr Deepti Sharma (33121), Renu Kumari (33122), wef 07 Jan 13

The President is pleased to terminate the Provisional Short Service Commission and grant Short Service Commission (on probation) to the undermentioned U/T officers of 42 SSC (W) GDOC wef the date mentioned against their names under the provisions of Govt of India, Min of Def letter No. Air HQ/S 24745/4/PP(O)/PC-I/184/DS/D(Air-III) dated 23 Apr 01.

INDIAN AIR FORCE
U/T OFFR TO BE FG OFFR
METEOROLOGICAL BRANCH

Fg Offr Deepti Sharma (33121), Renu Kumari (33122), wef 14 Dec 13

The President is pleased to grant Provisional Short Service Commission to the under mentioned U/T officers of 43 SSC (W) GDOC wef the date mentioned against their name under the provisions of Govt of India, Min of Def letter No. Air HQ/S 24745/4/PP(O)/PC-I/184/DS/D(Air-III) dated 23 Apr 01.

INDIAN AIR FORCE
MET BRANCH

Fg Offr Bharatiya Tiwari (33441), Sharma Srysty S (33442), Uttara Anwekar (33443), Neha Singh (33445), Jolly Goswami (33446), wef 01 Jul 13 Robin Sharma (33460), wef 08 Jul 13

The President is pleased to terminate the Provisional Short Service Commission and grant Short Service Commission (on probation) to the undermentioned U/T officers of 43 SSC (W) GDOC wef the date mentioned against their

names under the provisions of Govt of India, Min of Def letter No. Air HQ/S 24745/4/PP(O)/PC-I/184/DS/D(Air-III) dated 23 Apr 01.

INDIAN AIR FORCE

U/T OFFR TO BE FG OFFR

METEOROLOGICAL BRANCH

Fg Offr Bharatiya Tiwari (33441), Sharma Srysty S (33442), Uttara Anwekar (33443), Neha Singh (33445), Jolly Goswami (33446), Robin Sharma (33460), wef 21 Jun 14

The President is pleased to grant Provisional Short Service Commission to the under mentioned U/T officers wef the date mentioned against their name under the provisions of Govt of India, Min of Def letter No. Air HQ/S 24745/4/PP(O)/PC-I/184/DS/D(Air-III) dated 23 Apr 01.

INDIAN AIR FORCE

MET BRANCH

Fg Offr Aditi (33839), Nidhi Chauhan (33840), wef 06 Jan 14

The President is pleased to terminate the Provisional Short Service Commission and grant Short Service Commission (on probation) to the undermentioned U/T officers wef the date mentioned against their names under the provisions of Govt of India, Min of Def letter No. Air HQ/S 24745/4/PP(O)/PC-I/184/DS/D(Air-III) dated 23 Apr 01.

INDIAN AIR FORCE

U/T OFFR TO BE FG OFFR

METEOROLOGICAL BRANCH

Fg Offr Aditi (33839), Nidhi Chauhan (33840), wef 20 Dec 14

The President is pleased to grant Provisional Short Service Commission to the under mentioned U/T officer wef the date mentioned against her name under the provisions of Govt of India, Min of Def letter No. Air HQ/S 24745/4/PP(O)/PC-I/184/DS/D(Air-III) dated 23 Apr 01.

INDIAN AIR FORCE

MET BRANCH

Fg Offr Bhavna Verma (34745), wef 07 Jul 14

The President is pleased to terminate the Provisional Short Service Commission and grant Short Service Commission (on probation) to the undermentioned U/T officer wef the date mentioned against her name under the provisions of Govt of India, Min of Def letter No. Air HQ/S 24745/4/PP(O)/PC-I/184/DS/D(Air-III) dated 23 Apr 01.

INDIAN AIR FORCE

TO BE FG OFFR

METEOROLOGICAL BRANCH

Fg Offr Bhavna Verma (34745), wef 20 Jun 15

The President is pleased to grant Provisional Short Service Commission to the under mentioned officer of 194/14T/SSC wef the date as mentioned against her name under the provisions of Govt. of India, Ministry of Defence letter No. Air HQ/24745/4/PP(O)/PC-I/184/DS/D(Air-III) dated 23 Apr 2001 in the rank of Flying Officer.

INDIAN AIR FORCE

AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)

Fg Offr Anhima Budholia (33797), wef 06 Jan 14

PS SURANGE
Wg Cdr
JDPO-3(D)

MILITARY SECRETARY'S BRANCH

No. 111, dated 1st May 2017—The President is pleased to make Substantive promotion of Lt General to the following officers :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

TO BE SUBSTANTIVE LT GENERAL

IC NO.	RANK	NAME	ARM	DATE OF SUBS LT GEN
IC-39283	MAJ GEN	KANWAL KUMAR	ARMY AVN	01.12.16
IC-40098	MAJ GEN	DUSHYANT SINGH, AVSM	MARATHA LI	01.12.16
IC-40101	MAJ GEN	RK JAGGA, VSM	ARMD	17.12.16
IC-40235	MAJ GEN	R GOPAL, SM	GREN	01.01.17
IC-38643	MAJ GEN	RS SALARIA, VSM	ARTY	20.01.17
IC-40025	MAJ GEN	GIRI RAJ SINGH, SM	AOC	25.01.17
IC-39996	MAJ GEN	RAJEEV SABHERWAL, VSM	SIGS	28.01.17
IC-39140	MAJ GEN	PS JAGGI	AAD	30.01.17
IC-39438	MAJ GEN	PC THIMMAYA, VSM	MECH INF	31.01.17/ 01.07.16*
IC-39590	MAJ GEN	HARISH THUKRAL, SM	SIKH LI	31.01.17/ 01.08.16*
IC-39865	MAJ GEN	MICHAEL MATHEWS, VSM**	ENGRS	01.02.17

* Notional Seniority

DEBASIS PRADHAN
Dy Dir MS (X)

ARMY BRANCH

No. 112, dated 2nd May 2017—The President is pleased to make the following promotion :

TERRITORIAL ARMY

TERRITORIAL COMMISSION

TO BE LT COL

Maj Prageet Kumar	TA-42947	(Infantry)	21 Jan 2016
Maj MS Rathore	TA-42230	(Infantry)	03 Jun 2015

M.P. SINGH
Under Secy.

ARMY BRANCH

No. 113, dated 3rd May 2017—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

ARMY ORDNANCE CORPS

TO BE SUBSTANTIVE SUBEDAR MAJOR

SUBEDAR MAJOR	AMN TECH	JITEN KALITA	JC725135Y	01 FEB 2016
SUBEDAR MAJOR	AMN TECH	I DHARMALINGAM	JC725254P	01 FEB 2016
SUBEDAR MAJOR	AMN TECH	SARAGADA MANGA BABU	JC725309N	01 MAR 2016
SUBEDAR MAJOR	AMN TECH	SHIVRAM SINGH KHYALIA	JC725377F	01 APR 2016
SUBEDAR MAJOR	AMN TECH	NATHU LAL	JC725524Y	01 MAY 2016

SUBEDAR MAJOR	AMN TECH	DURGA RAM SAU	JC725581A	01 JUL 2016
SUBEDAR MAJOR	AMN TECH	SATYAVEER	JC725676A	01 SEP 2016
SUBEDAR MAJOR	AMN TECH	SURENDER SINGH	JC725708X	01 NOV 2016
SUBEDAR MAJOR	CLK SD	HARIBHAN SINGH	JC728541K	01 JAN 2016
SUBEDAR MAJOR	CLK SD	ANJANI KUMAR PATEL	JC728688A	01 JAN 2016
SUBEDAR MAJOR	CLK IM	PRABHAT SARMAH	JC729050A	01 JAN 2016
SUBEDAR MAJOR	CLK IM	R MADHU	JC729041Y	01 FEB 2016
SUBEDAR MAJOR	CLK SD	R NARASIMMON	JC728750F	01 FEB 2016
SUBEDAR MAJOR	CLK IM	DONDU D'SOUZA	JC728757L	01 APR 2016
SUBEDAR MAJOR	CLK SD	PRODIP KUMAR DAS	JC728885H	01 MAY 2016
SUBEDAR MAJOR	CLK IM	VIKRAM SINGH	JC728928M	01 JUN 2016
SUBEDAR MAJOR	CLK SD	SHIV DUTT SINGH	JC728983H	01 JUN 2016
SUBEDAR MAJOR	CLK IM	B KASI VISWANADHAM	JC728991F	01 JUN 2016
SUBEDAR MAJOR	CLK IM	MAHAMAD DADAMIYA	JC728992K	13 JUN 2016
SUBEDAR MAJOR	CLK SD	KANTA PRASAD	JC729054W	01 JUL 2016
SUBEDAR MAJOR	CLK IM	RADHAY SHYAM SHARMA	JC729119Y	01 JUL 2016
SUBEDAR MAJOR	CLK SD	KRISHN KUMAR SINGH	JC729146H	01 AUG 2016
SUBEDAR MAJOR	CLK IM	PATIL VILAS BABU RAO	JC729155K	01 AUG 2016
SUBEDAR MAJOR	CLK IM	K DNYANESHWAR DHONDI RAM	JC729159A	01 AUG 2016
SUBEDAR MAJOR	CLK SD	HARISH SINGH	JC729303K	01 AUG 2016
SUBEDAR MAJOR	CLK SD	CHANDRAKANT KUMAR	JC729304M	01 AUG 2016
SUBEDAR MAJOR	CLK SD	HORI LAL	JC729305P	01 AUG 2016
SUBEDAR MAJOR	CLK SD	SUDHIR CHANDRA BAIDYA	JC729317K	01 SEP 2016
SUBEDAR MAJOR	CLK SD	N GOPAL HARI RAM	JC729319P	01 SEP 2016
SUBEDAR MAJOR	CLK IM	KULWINDER SINGH	JC729428F	01 NOV 2016
SUBEDAR MAJOR	CLK SD	RASHIK CHANDRA BARMAN	JC729583H	01 NOV 2016
SUBEDAR MAJOR	CLK SD	G SELVAM	JC729585N	01 DEC 2016
SUBEDAR MAJOR	CLK SD	S KRISHNA MOORTHY	JC729606Y	01 DEC 2016
SUBEDAR MAJOR	CLK SD	RETHISH KUMAR VS	JC729613P	05 DEC 2016
SUBEDAR MAJOR	SKT SIG	BB BABU RAO MALAKA	JC728830Y	01 JAN 2016
SUBEDAR MAJOR	SKT AMN	SUGHAR SINGH	JC728831F	01 JAN 2016
SUBEDAR MAJOR	SKT SIG	JIWAN LAL	JC728843W	01 JAN 2016
SUBEDAR MAJOR	SKT GS&C	SHRI RAM SINGH	JC728901P	01 FEB 2016
SUBEDAR MAJOR	SKT AMN	MANDROOP RAM	JC728932P	01 FEB 2016
SUBEDAR MAJOR	SKT GS&C	SURJIT SINGH	JC728943F	01 FEB 2016
SUBEDAR MAJOR	SKT GS&C	SURESH KUMAR SAINI	JC728944K	01 FEB 2016
SUBEDAR MAJOR	SKT MT	RAM MOHAN	JC728966H	01 FEB 2016
SUBEDAR MAJOR	SKT GS&C	JAGANNATH PRASAD SHARMA	JC728997H	01 MAR 2016
SUBEDAR MAJOR	SKT GS&C	DINESH SINGH	JC729044M	01 APR 2016
SUBEDAR MAJOR	SKT GS&C	RASHPAL SINGH	JC729003H	01 MAY 2016
SUBEDAR MAJOR	SKT MT	TASBIR SINGH	JC729047A	01 MAY 2016
SUBEDAR MAJOR	SKT MT	RAM PAL	JC729048H	01 MAY 2016
SUBEDAR MAJOR	SKT GS&C	YASHPAL	JC729075M	01 JUN 2016

SUBEDAR MAJOR	SKT GS&C	ALOK KUMAR DAS	JC729077X	01 JUN 2016
SUBEDAR MAJOR	SKT GS&C	BHABANI SANKARA DASH	JC729130X	01 JUN 2016
SUBEDAR MAJOR	SKT GS&C	BASHUDEV MANDAL	JC719192X	01 JUN 2016
SUBEDAR MAJOR	SKT GS&C	KHAMKAR PANDIT BABU	JC729239X	01 AUG 2016
SUBEDAR MAJOR	SKT ENGR	KARAN SINGH	JC729271M	01 AUG 2016
SUBEDAR MAJOR	SKT WEP	JADHAV SUNIL SADASHIV	JC729326L	01 SEP 2016
SUBEDAR MAJOR	SKT GS&C	LOKESH SAHARAM	JC729395F	01 SEP 2016
SUBEDAR MAJOR	SKT MT	RAM RATTAN	JC729620L	01 NOV 2016
SUBEDAR MAJOR	SKT GS&C	CHAND SINGH	JC729545M	01 NOV 2016
SUBEDAR MAJOR	SKT MT	SURAJ PAL	JC729712X	01 NOV 2016
SUBEDAR MAJOR	SHT	NANDKISHORE SINGH YADAV	JC729924H	01 NOV 2016
SUBEDAR MAJOR	SHGD	JAYA RAJ S	JC727139N	01 FEB 2016
SUBEDAR MAJOR	SHGD	SANJAY KHARA	JC727983W	01 APR 2016
SUBEDAR MAJOR	SHGD	RAMJI MISHRA	JC729633H	01 JUN 2016
SUBEDAR MAJOR	SHGD	SHER SINGH	JC729722F	01 JUN 2016
SUBEDAR MAJOR	SHGD	DALIP SINGH	JC729724M	01 SEP 2016
SUBEDAR MAJOR	SHGD	HAUDA NANDA SWAIN	JC729725P	01 SEP 2016
SUBEDAR MAJOR	SHGD	PRADEEP KUMAR	JC729747N	01 OCT 2016
SUBEDAR MAJOR	DVR MT	PRAKASH CHANDRA	JC729744A	01 SEP 2016
SUBEDAR MAJOR	TAILOR 'U'	SATYA PAL	JC727416N	01 FEB 2016
SUBEDAR MAJOR	ARTISAN WW	AMARJIT YADAV	JC729551A	01 MAR 2016

TO BE SUBSTANTIVE SUBEDAR

SUBEDAR	AMN TECH	YAMUNA PRASAD YADAV	JC728731W	01 JAN 2016
SUBEDAR	AMN TECH	KARUNAKARA SENAPATHY	JC728632N	01 JAN 2016
SUBEDAR	AMN TECH	BASANTA KUMAR MOHALIK	JC728674A	01 JAN 2016
SUBEDAR	AMN TECH	BAILOCHAN MOHANTY	JC728732Y	01 JAN 2016
SUBEDAR	AMN TECH	DILEEP SINGH TOMAR	JC728733F	01 JAN 2016
SUBEDAR	AMN TECH	NISITH KARMAKAR	JC728734K	01 JAN 2016
SUBEDAR	AMN TECH	BABAR DHANAJAY SHANKAR RAO	JC728787H	01 JAN 2016
SUBEDAR	AMN TECH	SANTOSH KUMAR ROUT	JC728788L	01 FEB 2016
SUBEDAR	AMN TECH	PRADEEP KUMAR PATRO	JC728789N	01 FEB 2016
SUBEDAR	AMN TECH	RAJENDRA PRASAD SHAW	JC728735M	01 FEB 2016
SUBEDAR	AMN TECH	MAINUDDIN ALI KHAN	JC729250W	01 FEB 2016
SUBEDAR	AMN TECH	BIDHU RANJAN BARMAN	JC729347F	01 FEB 2016
SUBEDAR	AMN TECH	KUNJA BIHARI SAHOO	JC729336P	01 FEB 2016
SUBEDAR	AMN TECH	JAYA KUMAR K	JC729329Y	01 MAR 2016
SUBEDAR	AMN TECH	NARAKE BABU RAO MAHADEV	JC729331W	01 MAR 2016
SUBEDAR	AMN TECH	SUJITH B	JC729405A	01 MAR 2016
SUBEDAR	AMN TECH	DALJIT SINGH	JC729333F	01 MAR 2016
SUBEDAR	AMN TECH	JASWINDER CHAND	JC729334K	01 MAR 2016
SUBEDAR	AMN TECH	MANOJ KUMAR	JC729349M	01 APR 2016
SUBEDAR	AMN TECH	RAJENDRA PRASAD JOSHI	JC729342H	01 APR 2016

SUBEDAR	AMN TECH	SUMMERA SINGH	JC729350F	01 APR 2016
SUBEDAR	AMN TECH	NAVEEN KUMAR RAWAT	JC729351K	01 APR 2016
SUBEDAR	AMN TECH	SHAJI JM	JC729343L	01 APR 2016
SUBEDAR	AMN TECH	RAJENDER YADAV	JC729344N	01 APR 2016
SUBEDAR	AMN TECH	RABINDRA KUMAR	JC729345W	01 APR 2016
SUBEDAR	AMN TECH	RAKESH SINGH	JC729335M	01 APR 2016
SUBEDAR	AMN TECH	JADHAV JAYAVANT MADHUKAR	JC729330N	01 APR 2016
SUBEDAR	AMN TECH	RATHOD NARENDRA SINH PRATAP SINH	JC729352M	01 APR 2016
SUBEDAR	AMN TECH	JAGDISH CHANDER	JC729332Y	01 APR 2016
SUBEDAR	AMN TECH	BHOSALE SHIVAJI PANDURANG	JC729356H	01 APR 2016
SUBEDAR	AMN TECH	VIJAY VARDHAN RAJU	JC729406H	01 APR 2016
SUBEDAR	AMN TECH	K HARIBHAU VITHOBA	JC729338A	01 APR 2016
SUBEDAR	AMN TECH	KUMBHAR ARUN DINKAR	JC729340X	01 APR 2016
SUBEDAR	AMN TECH	JUGAL KISHORE	JC729357L	01 APR 2016
SUBEDAR	AMN TECH	DARWAN SINGH	JC729341A	01 APR 2016
SUBEDAR	AMN TECH	RAM SINGH	JC729407L	01 APR 2016
SUBEDAR	AMN TECH	DHIREN CHANDRA SINGHA	JC729358N	01 APR 2016
SUBEDAR	AMN TECH	KADAM SANTOSH GOVIND	JC729337X	01 MAY 2016
SUBEDAR	AMN TECH	DESAI SANJAY BALIRAM	JC729359W	01 MAY 2016
SUBEDAR	AMN TECH	ANIL KUMAR	JC729360L	01 MAY 2016
SUBEDAR	AMN TECH	V KUMARESAN	JC729353P	01 JUN 2016
SUBEDAR	AMN TECH	RAJESH KUMAR JHA	JC729361N	01 JUN 2016
SUBEDAR	AMN TECH	RAJU PT	JC729431F	01 JUN 2016
SUBEDAR	AMN TECH	NARUGOPAL GARAI	JC728790H	01 JUL 2016
SUBEDAR	AMN TECH	PRADEEP KUMAR MISHRA	JC729432K	01 JUL 2016
SUBEDAR	AMN TECH	JOHNICHAN CK	JC729466X	01 JUL 2016
SUBEDAR	AMN TECH	N TON SINGHA	JC729552H	01 JUL 2016
SUBEDAR	AMN TECH	LONDHE TUKARAM BHIMRAV	JC729467A	01 JUL 2016
SUBEDAR	AMN TECH	PANDAV MANIK MARUTI	JC729469L	01 JUL 2016
SUBEDAR	AMN TECH	YOGESH LOHANI	JC729470A	01 JUL 2016
SUBEDAR	AMN TECH	MUKUL BHOWMIK	JC729471H	01 JUL 2016
SUBEDAR	AMN TECH	SURENDER KUMAR	JC729472L	01 JUL 2016
SUBEDAR	AMN TECH	DEEP CHAND	JC729473N	01 AUG 2016
SUBEDAR	AMN TECH	RAMJI LAL	JC729474W	01 SEP 2016
SUBEDAR	AMN TECH	JOJY XAVIER	JC729475Y	01 NOV 2016
SUBEDAR	AMN TECH	SANJEEV KUMAR CS	JC729476F	01 NOV 2016
SUBEDAR	AMN TECH	ROHITASH KUMAR	JC729477K	01 NOV 2016
SUBEDAR	AMN TECH	RAMVIR SINGH	JC729478M	01 NOV 2016
SUBEDAR	AMN TECH	OM PRAKASH SINGH	JC729479P	01 DEC 2016
SUBEDAR	AMN TECH	SHYAM LAL	JC729480K	01 DEC 2016
SUBEDAR	AMN TECH	RAVINDRA NATH MANDAL	JC729481M	01 DEC 2016
SUBEDAR	AMN TECH	RAVINDRA KUMAR TRIPATHI	JC729482P	01 DEC 2016
SUBEDAR	AMN TECH	RAM BALI SINGH	JC729553L	01 DEC 2016

SUBEDAR	AMN TECH	DESAI MARUTI NARAYAN	JC729483X	01 DEC 2016
SUBEDAR	AMN TECH	TAPAN DAS	JC729484A	01 DEC 2016
SUBEDAR	AMN TECH	RAJESH KUMAR	JC729485H	01 DEC 2016
SUBEDAR	CLK SD	RAJENDRA PRASAD CHOUDHARY	JC730272F	01 JAN 2016
SUBEDAR	CLK SD	MANOJ KUMAR PARICHHA	JC730260M	01 JAN 2016
SUBEDAR	CLK SD	ASHIS KUMAR PAUL	JC730261P	01 JAN 2016
SUBEDAR	CLK SD	MURALIDHAR ROUT	JC730262X	01 JAN 2016
SUBEDAR	CLK SD	KISHAN SINGH	JC730263A	01 JAN 2016
SUBEDAR	CLK SD	WADHAI SAKHARAM SAMPAT	JC730273K	01 JAN 2016
SUBEDAR	CLK SD	SAVALE SANJAY SAHADU	JC730274M	01 JAN 2016
SUBEDAR	CLK SD	GAIND LAL SAHU	JC730582M	01 JAN 2016
SUBEDAR	CLK IM	RAJ KUMAR	JC730264H	01 JAN 2016
SUBEDAR	CLK SD	PATIL SANJAY SHIVAJI	JC730275P	01 JAN 2016
SUBEDAR	CLK IM	JIBAN CHANDRA KALITA	JC730424X	01 JAN 2016
SUBEDAR	CLK IM	RAMESH KUMAR JHA	JC730265L	01 JAN 2016
SUBEDAR	CLK SD	MOHANA KUMAR R	JC730276X	01 JAN 2016
SUBEDAR	CLK SD	CHAKRADHAR NAYAK	JC730277A	01 JAN 2016
SUBEDAR	CLK SD	AMIYA KUMAR MONDAL	JC730278H	01 JAN 2016
SUBEDAR	CLK SD	GOUTAM SUTRADHAR	JC730279L	01 FEB 2016
SUBEDAR	CLK SD	VANAKHANDE ANNARAYA S	JC730280A	01 FEB 2016
SUBEDAR	CLK IM	AKBAR ALI	JC730240Y	01 FEB 2016
SUBEDAR	CLK SD	RAM NARESH PRASAD	JC730203L	01 FEB 2016
SUBEDAR	CLK IM	RAJ MOHAN BANIK	JC730267W	01 FEB 2016
SUBEDAR	CLK IM	SURENDER SINGH	JC730268Y	01 FEB 2016
SUBEDAR	CLK IM	SANJAY KUMAR PATHAK	JC730269F	01 FEB 2016
SUBEDAR	CLK SD	BAKUL MAITI	JC730204N	01 FEB 2016
SUBEDAR	CLK IM	MUNISH KUMAR TIWARI	JC730270W	01 FEB 2016
SUBEDAR	CLK IM	ANIL KUMAR SINGH	JC730535P	01 FEB 2016
SUBEDAR	CLK SD	GOPAL SWARUP SHARMA	JC730406P	01 FEB 2016
SUBEDAR	CLK SD	RAJENDRA SINGH YADAV	JC730407X	01 FEB 2016
SUBEDAR	CLK SD	RAJKUMAR TIWARI	JC730366Y	01 FEB 2016
SUBEDAR	CLK SD	GOURA KUMAR SAHOO	JC730408A	01 MAR 2016
SUBEDAR	CLK SD	MANE TANAJI VISHNU	JC730409A	01 MAR 2016
SUBEDAR	CLK IM	S CHINNA CHAMY	JC730536X	01 MAR 2016
SUBEDAR	CLK IM	SHER SINGH	JC730584X	01 MAR 2016
SUBEDAR	CLK IM	JAIDEV SINGH	JC730380L	01 MAR 2016
SUBEDAR	CLK SD	RAM AVADHA YADVA	JC730413L	01 MAR 2016
SUBEDAR	CLK SD	HARI SHYAM	JC730367F	01 MAR 2016
SUBEDAR	CLK IM	KATURI SRINIVASA RAO	JC730382W	01 MAR 2016
SUBEDAR	CLK IM	BISHNU PADA BEHERA	JC730383Y	01 APR 2016
SUBEDAR	CLK IM	RAM CHANDRA	JC730384F	01 APR 2016
SUBEDAR	CLK IM	SOLANKI PANKAJ KUMAR KALYAN SINH	JC730385K	01 APR 2016

SUBEDAR	CLK IM	VARINDER KUMAR	JC730386M	01 APR 2016
SUBEDAR	CLK IM	RAM BABU SINGH	JC730368K	01 APR 2016
SUBEDAR	CLK IM	RATNA BOOSHAN AK	JC730537A	01 APR 2016
SUBEDAR	CLK SD	ABHIMANYU KUMAR	JC730418K	01 APR 2016
SUBEDAR	CLK IM	GIRDHARI SHAH	JC730513W	01 APR 2016
SUBEDAR	CLK SD	AMRIT LAL PATEL	JC730419M	01 APR 2016
SUBEDAR	CLK IM	SARAT KUMAR SWAIN	JC730415W	01 APR 2016
SUBEDAR	CLK SD	ANIL KUMAR	JC730420F	01 APR 2016
SUBEDAR	CLK SD	SUNIL KUMAR CHAUDHARY	JC730444L	01 APR 2016
SUBEDAR	CLK SD	SUBE SINGH NEHRA	JC730421K	01 APR 2016
SUBEDAR	CLK IM	SATCHIDANANDA DAS	JC730416Y	01 APR 2016
SUBEDAR	CLK SD	DIBYENDU JANA	JC730422M	01 APR 2016
SUBEDAR	CLK SD	BIPIN BIHARI RAI	JC730446W	01 APR 2016
SUBEDAR	CLK IM	SHEO TAJ	JC730417F	01 APR 2016
SUBEDAR	CLK SD	SATAPA LAXMAN PATIL	JC730447Y	01 APR 2016
SUBEDAR	CLK SD	TAMUNGADE SANJAY BABURAO	JC730423P	01 APR 2016
SUBEDAR	CLK SD	AMAR NATH PANDEY	JC730448F	01 MAY 2016
SUBEDAR	CLK SD	ANUPOM DUTTA	JC730449K	01 MAY 2016
SUBEDAR	CLK SD	VINOD KUMAR TS	JC730450Y	01 MAY 2016
SUBEDAR	CLK SD	SUNIL KUMAR	JC730451F	01 MAY 2016
SUBEDAR	CLK SD	KADAM SATESH DNYANDEO	JC730452K	01 JUN 2016
SUBEDAR	CLK SD	DHORMARE GOVIND VITTHAL	JC730453M	01 JUN 2016
SUBEDAR	CLK SD	AMAL DEY	JC730454P	01 JUN 2016
SUBEDAR	CLK SD	MANDHARE SUNIL BAJI RAO	JC730483K	01 JUN 2016
SUBEDAR	CLK SD	TARAK CHAND ROY	JC730455X	01 JUN 2016
SUBEDAR	CLK SD	VINOD KUMAR SHARMA	JC730576Y	01 JUN 2016
SUBEDAR	CLK SD	GOPALA KRISHNA PILLAI V	JC730495Y	01 JUN 2016
SUBEDAR	CLK SD	CHOTE LAL MALVIYA PRAJAPATI	JC730509N	01 JUL 2016
SUBEDAR	CLK SD	ARUN KUMAR MAITI	JC730589W	01 JUL 2016
SUBEDAR	CLK SD	M RAMACHANDRA NAIDU	JC730496F	01 JUL 2016
SUBEDAR	CLK SD	ZODAGE BABAN ATMA RAM	JC730511L	01 JUL 2016
SUBEDAR	CLK SD	AJAY KUMAR	JC730512N	01 JUL 2016
SUBEDAR	CLK SD	UNNI KRISHNA PILLAI R	JC730545Y	01 JUL 2016
SUBEDAR	CLK SD	SANJEEVA KUMAR SINGH	JC730546F	01 JUL 2016
SUBEDAR	CLK SD	RAM BARAN	JC730547K	01 JUL 2016
SUBEDAR	CLK SD	DIBYENDU KUMAR DE	JC730548M	01 JUL 2016
SUBEDAR	CLK SD	ARUL KUMAR SS	JC730673W	01 JUL 2016
SUBEDAR	CLK SD	SHIVA PRASAD NAIK	JC730640L	01 AUG 2016
SUBEDAR	CLK SD	PATEL MAHESH KUMAR VITTHALDAS	JC730796H	01 AUG 2016
SUBEDAR	CLK SD	MANE BAJARANG SHANKAR	JC730591N	01 AUG 2016
SUBEDAR	CLK SD	RAWOOL SITA RAM LAXMAN	JC730592W	01 AUG 2016
SUBEDAR	CLK SD	SHIV KUMAR YADAV	JC730678P	01 AUG 2016
SUBEDAR	CLK SD	HAJARE AMRUT DHARMAJI	JC730782H	01 AUG 2016

SUBEDAR	CLK SD	MAHENDRA SINGH	JC730680M	01 SEP 2016
SUBEDAR	CLK SD	ANANDA CHANDRA SWAIN	JC730783L	01 SEP 2016
SUBEDAR	CLK SD	ASHOK KUMAR YADAV	JC730794X	01 SEP 2016
SUBEDAR	CLK SD	MOHAN SINGH	JC730784N	01 SEP 2016
SUBEDAR	CLK SD	TEJ SINGH	JC730785W	01 SEP 2016
SUBEDAR	CLK SD	CHET RAM	JC730786Y	01 OCT 2016
SUBEDAR	CLK SD	RAMESH CHANDRA SINGH	JC730787F	01 OCT 2016
SUBEDAR	CLK SD	NAND LAL GUPTA	JC730788K	01 OCT 2016
SUBEDAR	CLK SD	MANTOSH KUMAR	JC730815H	01 OCT 2016
SUBEDAR	CLK SD	SANTOSH KUMAR TIWARI	JC730816L	01 OCT 2016
SUBEDAR	CLK SD	RAM PRAKASH TRIVEDI	JC730934Y	01 OCT 2016
SUBEDAR	CLK SD	OMVIR SINGH	JC730817N	01 NOV 2016
SUBEDAR	CLK SD	RAMA KANT YADAV	JC730818W	01 NOV 2016
SUBEDAR	CLK SD	ARVIND KUMAR	JC730819Y	01 NOV 206
SUBEDAR	CLK SD	UPENDRA KUMAR TIWARI	JC730820N	01 NOV 2016
SUBEDAR	CLK SD	BIJENDER SINGH	JC730919K	01 DEC 2016
SUBEDAR	CLK SD	ZAMEER ALAM	JC730966F	01 DEC 2016
SUBEDAR	CLK SD	DESH RAJ	JC730957A	01 DEC 2016
SUBEDAR	CLK SD	RAJBIR SINGH	JC730959L	01 DEC 2016
SUBEDAR	CLK SD	KHEMARAM DODWARIYA	JC731055X	01 DEC 2016
SUBEDAR	CLK IM	NARENDRA KUMAR PB	JC730457H	01 MAY 2016
SUBEDAR	CLK IM	AP VENKATA RAMANA REDDY	JC730458L	01 MAY 2016
SUBEDAR	CLK IM	SHIV CHANDRA JHA	JC730484M	01 MAY 2016
SUBEDAR	CLK IM	SHYAM LAL	JC730485P	01 MAY 2016
SUBEDAR	CLK IM	K THAVASIANANTHAM	JC730459N	01 MAY 2016
SUBEDAR	CLK IM	A SHAHABTHEEN	JC730487A	01 MAY 2016
SUBEDAR	CLK IM	MAN BAHADUR RANA	JC730488H	01 MAY 2016
SUBEDAR	CLK IM	THOTA SAMBAIAH	JC730460H	01 MAY 2016
SUBEDAR	CLK IM	BISWANATH MAITY	JC730461L	01 MAY 2016
SUBEDAR	CLK IM	SANJAY KUMAR	JC730462N	01 MAY 2016
SUBEDAR	CLK IM	PAWAN KUMAR	JC730481Y	01 MAY 2016
SUBEDAR	CLK IM	MULTAN SINGH	JC730463W	01 MAY 2016
SUBEDAR	CLK IM	SHIVDHAR PRASAD YADAV	JC730464Y	01 JUN 2016
SUBEDAR	CLK IM	GAGAN BIHARI SWAIN	JC730465F	01 JUN 2016
SUBEDAR	CLK IM	MADAN LAL CHOUDHARY	JC730466K	01 JUN 2016
SUBEDAR	CLK IM	NANDAN BAPU BHIKA	JC730467M	01 JUN 2016
SUBEDAR	CLK IM	R JEYA KUMAR	JC730489L	01 JUN 2016
SUBEDAR	CLK IM	VINAYAGA MOORTY B	JC730468P	01 JUN 2016
SUBEDAR	CLK IM	RAM BACHAN YADAVA	JC730469X	01 JUN 2016
SUBEDAR	CLK IM	KALE POPAT EKANATH	JC730585A	01 JUN 2016
SUBEDAR	CLK IM	SANJEEV KUMAR	JC730514Y	01 JUN 2016
SUBEDAR	CLK IM	VANKAYALA PATI BHASKAR	JC730498M	01 JUN 2016
SUBEDAR	CLK IM	JEET SINGH	JC730515F	01 JUN 2016

SUBEDAR	CLK IM	SUDARSHAN KUMAR	JC730538H	01 JUN 2016
SUBEDAR	CLK IM	DALIP SINGH	JC730517M	01 JUN 2016
SUBEDAR	CLK IM	ASHOK SINGH	JC730518P	01 JUN 2016
SUBEDAR	CLK IM	V SREEJITH KUMAR	JC730519X	01 JUN 2016
SUBEDAR	CLK IM	MISHRA JAY PRAKASH RAMAPATI	JC730520M	01 JUN 2016
SUBEDAR	CLK IM	TRILOCHANA KURUP G	JC730521P	01 JUN 2016
SUBEDAR	CLK IM	NADAF BASIR AHAMAD NURMAHAMAD	JC730798N	01 JUN 2016
SUBEDAR	CLK IM	PRATAP KISHORE DHAL	JC730660Y	01 JUN 2016
SUBEDAR	CLK IM	SURESH KUMAR	JC730522X	01 JUN 2016
SUBEDAR	CLK IM	RAJESH KUMAR	JC730523A	01 JUN 2016
SUBEDAR	CLK IM	RAJ KANT MISHRA	JC730593Y	01 JUN 2016
SUBEDAR	CLK IM	SANJIT KUMAR SINGH	JC730594F	01 JUN 2016
SUBEDAR	CLK IM	MONI KUMAR RAJBONGSHI	JC730549P	01 JUN 2016
SUBEDAR	CLK IM	V SRINIVAS	JC730534M	01 JUL 2016
SUBEDAR	CLK IM	SAROJ KUMAR MOHAPATRA	JC730499P	01 JUL 2016
SUBEDAR	CLK IM	ASHOK KUMAR	JC730550K	01 JUL 2016
SUBEDAR	CLK IM	SATYAWAN	JC730551M	01 JUL 2016
SUBEDAR	CLK IM	DIPAK DE	JC730552P	01 JUL 2016
SUBEDAR	CLK IM	RAMA KANTA AGASTI	JC730553X	01 JUL 2016
SUBEDAR	CLK IM	NANDJEE SINGH	JC730554A	01 JUL 2016
SUBEDAR	CLK IM	HARI HAR OJHA	JC730555H	01 JUL 2016
SUBEDAR	CLK IM	RAGHAVAN V	JC730637L	01 JUL 2016
SUBEDAR	CLK IM	SAFIQ MOHAMMED	JC730556L	01 JUL 2016
SUBEDAR	CLK IM	TAPPAN KUMAR DAS	JC730557N	01 JUL 2016
SUBEDAR	CLK IM	SOMNATH MISRA	JC731049K	01 JUL 2016
SUBEDAR	CLK IM	JITENDRA KUMAR	JC730642W	01 JUL 2016
SUBEDAR	CLK IM	SADHAN DAS	JC730661F	01 JUL 2016
SUBEDAR	CLK IM	ANIL KUMAR TS	JC730595K	01 JUL 2016
SUBEDAR	CLK IM	BHERU LAL KUMAWAT	JC730657Y	01 JUL 2016
SUBEDAR	CLK IM	KARTIK CHANDRA MAITY	JC730641N	01 JUL 2016
SUBEDAR	CLK IM	NAJIBUR RAHAMAN	JC730596M	01 JUL 2016
SUBEDAR	CLK IM	E ROBERT JOHN KENNEDY	JC730597P	01 JUL 2016
SUBEDAR	CLK IM	RAM NIWAS	JC730662K	01 JUL 2016
SUBEDAR	CLK IM	AJIT KUMAR PALAR	JC730598X	01 JUL 2016
SUBEDAR	CLK IM	DHARM PAL	JC730663M	01 JUL 2016
SUBEDAR	CLK IM	MUFTI ABDUL NIZAM	JC730599A	01 JUL 2016
SUBEDAR	CLK IM	ROSHAN LAL	JC730600K	01 JUL 2016
SUBEDAR	CLK IM	SURESH KUMAR G	JC730643Y	01 JUL 2016
SUBEDAR	CLK IM	HARDEV SINGH	JC730685L	01 JUL 2016
SUBEDAR	CLK IM	KISHAN CHAND SHARMA	JC730601M	01 JUL 2016
SUBEDAR	CLK IM	GEORGE M THOMAS	JC730799W	01 JUL 2016
SUBEDAR	CLK IM	PRASAD PN	JC730686N	01 JUL 2016
SUBEDAR	CLK IM	GULAB SINGH YADAV	JC730687W	01 JUL 2016

SUBEDAR	CLK IM	MANOJ KUMAR CHAUDHARY	JC730688Y	01 AUG 2016
SUBEDAR	CLK IM	V HARI KRISHNA	JC730689F	01 AUG 2016
SUBEDAR	CLK IM	ANAND KUMAR	JC730690W	01 AUG 2016
SUBEDAR	CLK IM	ARVIND KUMAR SINGH	JC730691Y	01 AUG 2016
SUBEDAR	CLK IM	PRAKASH CHANDRA GUPTA	JC730692F	01 AUG 2016
SUBEDAR	CLK IM	DAVINDER SINGH	JC730693K	01 AUG 2016
SUBEDAR	CLK IM	VIRENDRA KUMAR SINGH	JC730730M	01 AUG 2016
SUBEDAR	CLK IM	MD KHOWAJ ALI	JC730731P	01 AUG 2016
SUBEDAR	CLK IM	RAMA KANTA ROUTRAY	JC730732X	01 AUG 2016
SUBEDAR	CLK IM	DHIRENDRA DUTTA	JC730733A	01 AUG 2016
SUBEDAR	CLK IM	SUBASH CHANDRA SUNDARA	JC730734H	01 AUG 2016
SUBEDAR	CLK IM	PURNA CHANDRA BEHERA	JC730735L	01 AUG 2016
SUBEDAR	CLK IM	KAILASH PRASAD BEHERA	JC730736N	01 AUG 2016
SUBEDAR	CLK IM	DINESH SINGH YADAVA	JC730737W	01 AUG 2016
SUBEDAR	CLK IM	SURENDRA KUMAR	JC730738Y	01 AUG 2016
SUBEDAR	CLK IM	DANA RAM	JC730739F	01 AUG 2016
SUBEDAR	CLK IM	MANTU KUMAR JANA	JC730740W	01 AUG 2016
SUBEDAR	CLK IM	JIWANE PRAKASH SAKHA RAM	JC730741Y	01 AUG 2016
SUBEDAR	CLK IM	BHONDEKAR CHANDRA SHEKHAR KAWADU	JC730742F	01 AUG 2016
SUBEDAR	CLK IM	BIRANCHI NARAYAN SAHU	JC730743K	01 AUG 2016
SUBEDAR	CLK IM	ASHVIN KUMAR MALIK	JC730744M	01 AUG 2016
SUBEDAR	CLK IM	DINESH PATIYAL	JC730746X	01 AUG 2016
SUBEDAR	CLK IM	MAHESH KUMAR	JC730747A	01 AUG 2016
SUBEDAR	CLK IM	VINAY KUMAR CHAUBEY	JC730821W	01 AUG 2016
SUBEDAR	CLK IM	ASHOK KUMAR SINGH	JC730822Y	01 SEP 2016
SUBEDAR	CLK IM	M BABU	JC730823F	01 SEP 2016
SUBEDAR	CLK IM	SAJI KB	JC730921F	01 SEP 2016
SUBEDAR	CLK IM	OMNAKUTTAN NAIR N	JC730824K	01 SEP 2016
SUBEDAR	CLK IM	KALYANAM ABBA RAO	JC730826P	01 SEP 2016
SUBEDAR	CLK IM	TOTA KURA RAVI KUMAR	JC730827X	01 SEP 2016
SUBEDAR	CLK IM	PRAMOD KUMAR SINGH	JC730967K	01 SEP 2016
SUBEDAR	CLK IM	BISHWANATH THAKUR	JC730828A	01 SEP 2016
SUBEDAR	CLK IM	M VASU	JC730829H	01 SEP 2016
SUBEDAR	CLK IM	ALOKE SUMAR	JC730830X	01 SEP 2016
SUBEDAR	CLK IM	SANJEEV KUMAR YADAV	JC730831A	01 SEP 2016
SUBEDAR	CLK IM	SABU JOSEPH	JC730832H	01 SEP 2016
SUBEDAR	CLK IM	J RAMA CHANDRA REDDY	JC730922K	01 SEP 2016
SUBEDAR	CLK IM	CHERIAN M MATHEW	JC730833L	01 SEP 2016
SUBEDAR	CLK IM	MALEYALI K UNNIKARAN	JC730834N	01 OCT 2016
SUBEDAR	CLK IM	JAYA KUMAR P	JC730938P	01 OCT 2016
SUBEDAR	CLK IM	MIR SAHABUDDIN	JC730998K	01 OCT 2016
SUBEDAR	CLK IM	NARESH KUMAR	JC730968M	01 OCT 2016

SUBEDAR	CLK IM	SHOVA NATH PRASAD	JC730969P	01 OCT 2016
SUBEDAR	CLK IM	M KRISHNA SAMY	JC730923M	01 OCT 2016
SUBEDAR	CLK IM	GYANA RANJAN MISHRA	JC731004K	01 OCT 2016
SUBEDAR	CLK IM	HARENDRA PANDEY	JC730971M	01 OCT 2016
SUBEDAR	CLK IM	DHARMENDER	JC730972P	01 OCT 2016
SUBEDAR	CLK IM	SHIV SINGH TOMAR	JC730973X	01 OCT 2016
SUBEDAR	CLK IM	KAMAL KRISHNA PANDA	JC730974A	01 OCT 2016
SUBEDAR	CLK IM	RAJESH KUMAR	JC730975H	01 OCT 2016
SUBEDAR	CLK IM	MAHATMA PANDEY	JC731047Y	01 OCT 2016
SUBEDAR	CLK IM	G RAM DAS CHANDRABHAN	JC730999M	01 OCT 2016
SUBEDAR	CLK IM	PATARE GOVIND BHASKAR	JC731040P	01 NOV 2016
SUBEDAR	CLK IM	BHAPKAR PARASHA RAM BHIKAJI	JC731048F	01 NOV 2016
SUBEDAR	CLK IM	MARAL RAVIKANT GANPAT	JC731016Y	01 NOV 2016
SUBEDAR	CLK IM	S MALHARI VITHOBA	JC731041X	01 NOV 2016
SUBEDAR	CLK IM	ALOK PATTANAYAK	JC731017F	01 NOV 2016
SUBEDAR	CLK IM	CHOUDHARI SHARAD NARAYAN	JC731018K	01 NOV 2016
SUBEDAR	CLK IM	HOWALE MAHENDRA BHGAWAN	JC731042A	01 NOV 2016
SUBEDAR	CLK IM	MHALIM SURESH BABU	JC731019M	01 NOV 2016
SUBEDAR	CLK IM	PATIL SANTOSH KUMAR BHIM RAO	JC731020F	01 NOV 2016
SUBEDAR	CLK IM	GANESH PRASAD ROUT	JC731043H	01 NOV 2016
SUBEDAR	CLK IM	K BALA SAHEB SADASHIV	JC731021K	01 NOV 2016
SUBEDAR	CLK IM	SHIV SHANKER LAL SRIVASTAVA	JC731022M	01 DEC 2016
SUBEDAR	CLK IM	CHHEDI LAL	JC731023P	01 DEC 2016
SUBEDAR	CLK IM	SUNAHARI LAL	JC731050Y	01 DEC 2016
SUBEDAR	CLK IM	PRASANNA KUMAR KN	JC731172H	01 DEC 2016
SUBEDAR	CLK IM	NAW BAHAR SINGH	JC731173L	01 DEC 2016
SUBEDAR	CLK IM	SANATAN DAS	JC731067M	01 DEC 2016
SUBEDAR	CLK IM	MD EBRAHIM NOBI	JC731175W	01 DEC 2016
SUBEDAR	CLK IM	NARENDRA SINGH	JC731068P	01 DEC 2016
SUBEDAR	CLK IM	RAJANDRA KUMAR MISHRA	JC731069X	01 DEC 2016
SUBEDAR	CLK IM	SANKAR PRAMANIK	JC731071P	01 DEC 2016
SUBEDAR	CLK IM	SHEORAJ SINGH	JC731072X	01 DEC 2016
SUBEDAR	CLK IM	AJITH TR	JC731176Y	01 DEC 2016
SUBEDAR	CLK IM	SURJIT SINGH	JC731162Y	01 DEC 2016
SUBEDAR	SKT GS&C	SHIV RAKHAN SINGH	JC730476N	01 JAN 2016
SUBEDAR	SKT GS&C	OM PARKASH	JC730564K	01 JAN 2016
SUBEDAR	SKT GS&C	SANTOSH KUMAR PANI	JC730620X	01 JAN 2016
SUBEDAR	SKT GS&C	SUSILA KUMAR PANIGRAHI	JC730708F	01 JAN 2016
SUBEDAR	SKT GS&C	RAM VILAS	JC730709K	01 JAN 2016
SUBEDAR	SKT GS&C	SUNIL KUMAR AV	JC730710Y	01 JAN 2016
SUBEDAR	SKT GS&C	PRAMOD KIZHAKKAYIL M	JC730712K	01 FEB 2016
SUBEDAR	SKT GS&C	S SIVASUBRAMANIAN	JC730725F	01 FEB 2016
SUBEDAR	SKT GS&C	CHANDRA SHEKHAR MANDAL	JC730763X	01 FEB 2016

SUBEDAR	SKT GS&C	MANORANJAN KUMAR	JC730764A	01 MAR 2016
SUBEDAR	SKT GS&C	LAKHVINDER SINGH	JC730765H	01 APR 2016
SUBEDAR	SKT GS&C	NACHHATTAR SINGH	JC730766L	01 APR 2016
SUBEDAR	SKT GS&C	KRISHAN CHANDER	JC730767N	01 APR 2016
SUBEDAR	SKT GS&C	JAGAT ALI MANDAL	JC730804W	01 MAY 2016
SUBEDAR	SKT GS&C	DEORE ASHOK RATAN	JC730805Y	01 MAY 2016
SUBEDAR	SKT GS&C	MANE ARJUN HINDU RAO	JC730884Y	01 JUN 2016
SUBEDAR	SKT GS&C	CHAVAN KRISHNA RAO ARJUN	JC730885F	01 JUN 2016
SUBEDAR	SKT GS&C	NIKAM VIJAY SARJE RAO	JC730949F	01 JUL 2016
SUBEDAR	SKT GS&C	MENGANE BALAVANT SHANKAR	JC730886K	01 JUL 2016
SUBEDAR	SKT GS&C	KALE PRABHAKAR GANGARAM	JC730950W	01 AUG 2016
SUBEDAR	SKT GS&C	SHEDAGE RAM VITTHAL	JC730887M	01 SEP 2016
SUBEDAR	SKT GS&C	SHIRDAVADE RAJENDRA GANPATI	JC730888P	01 NOV 2016
SUBEDAR	SKT GS&C	GHORPADE MANIK VISHNU	JC730889X	01 DEC 2016
SUBEDAR	SKT GS&C	PENDHARE HABIBULLA NABISO	JC730890M	01 DEC 2016
SUBEDAR	SKT GS&C	VAIDYA SENA SITARAM	JC730891P	01 DEC 2016
SUBEDAR	SKT GS&C	SABALE SANTOSH GULAB	JC730892X	01 DEC 2016
SUBEDAR	SKT GS&C	BHOSALE SUDHIR ANNA	JC730893A	01 DEC 2016
SUBEDAR	SKT MT	MANOOJ RAJAK	JC730666A	01 JAN 2016
SUBEDAR	SKT MT	GHAR BHARAN YADAV	JC730616P	01 JAN 2016
SUBEDAR	SKT MT	PATTAN ABDUL RAHMAN	JC730651X	01 JAN 2016
SUBEDAR	SKT MT	GOVIND PRASAD MISHRA	JC730617X	01 JAN 2016
SUBEDAR	SKT MT	SANKAR BEPARI	JC730702A	01 JAN 2016
SUBEDAR	SKT MT	SAJAL DUTTA	JC730703H	01 JAN 2016
SUBEDAR	SKT MT	UTPAL DUTTA	JC730704L	01 JAN 2016
SUBEDAR	SKT MT	SUDHIR KUMAR	JC730936K	01 FEB 2016
SUBEDAR	SKT MT	JASWANT TOMAR	JC730755Y	01 FEB 2016
SUBEDAR	SKT MT	SARWESWAR PRASAD	JC730705N	01 FEB 2016
SUBEDAR	SKT MT	PAVAN KUMAR SHARMA	JC730706W	01 MAR 2016
SUBEDAR	SKT MT	REMESH CHAND JANGIR	JC730707Y	01 MAR 2016
SUBEDAR	SKT MT	KRISHN KUMAR SINGH	JC730756F	01 MAR 2016
SUBEDAR	SKT MT	BIJU J	JC730757K	01 APR 2016
SUBEDAR	SKT MT	RAMAN BABOO	JC730758M	01 APR 2016
SUBEDAR	SKT MT	RAJESH KUMAR	JC730759P	01 APR 2016
SUBEDAR	SKT MT	BALBIR SINGH	JC730760K	01 APR 2016
SUBEDAR	SKT MT	JAGDIP SINGH	JC730761M	01 MAY 2016
SUBEDAR	SKT MT	SATISH KUMAR	JC730762P	01 MAY 2016
SUBEDAR	SKT MT	SHYAM LAL	JC730803N	01 MAY 2016
SUBEDAR	SKT MT	BANSI DHARA GOUDA	JC730869K	01 MAY 2016
SUBEDAR	SKT MT	BATA KRISHNA ROUT	JC730870Y	01 MAY 2016
SUBEDAR	SKT MT	RADHEY SHYAM	JC731986F	01 JUN 2016
SUBEDAR	SKT MT	UMA KANTA RAO BETHALA	JC730947W	01 JUN 2016
SUBEDAR	SKT MT	SURJYA KUMAR SAHU	JC730871F	01 JUN 2016

SUBEDAR	SKT MT	JAGANNATH SAMAL	JC730915N	01 JUN 2016
SUBEDAR	SKT MT	RAJESH KUMAR	JC730872K	01 JUL 2016
SUBEDAR	SKT MT	HEMANT KUMAR	JC730873M	01 JUL 2016
SUBEDAR	SKT MT	LAL DHARI	JC730874P	01 JUL 2016
SUBEDAR	SKT MT	ARVIND SEHGAL	JC730875X	01 JUL 2016
SUBEDAR	SKT MT	DHARMINDER SINGH	JC730876A	01 AUG 2016
SUBEDAR	SKT MT	SUKHWINDER SINGH	JC730877H	01 SEP 2016
SUBEDAR	SKT MT	BHUPAL SINGH MEHRA	JC730878L	01 OCT 2016
SUBEDAR	SKT MT	KARTIKEY NATH	JC730879N	01 OCT 2016
SUBEDAR	SKT MT	SHIV KUMAR	JC730880H	01 NOV 2016
SUBEDAR	SKT MT	RAM RATAN	JC730881L	01 NOV 2016
SUBEDAR	SKT MT	SAMUEL CHERIAN	JC730948Y	01 DEC 2016
SUBEDAR	SKT MT	ANIRUDDH PANDIT	JC730916W	01 DEC 2016
SUBEDAR	SKT MT	UDAY KUMAR GAJMER	JC730924P	01 DEC 2016
SUBEDAR	SKT MT	SALAMAT HOSSEN KHAN	JC730882N	01 DEC 2016
SUBEDAR	SKT MT	ANUP KUMAR SARKAR	JC730883W	01 DEC 2016
SUBEDAR	SKT MT	ASHOK KUMAR	JC730925X	01 DEC 2016
SUBEDAR	SKT MT	SARIF SHEIKH	JC730926A	01 DEC 2016
SUBEDAR	SKT AMN	PATIL PRAKASH SHANKAR	JC730658F	01 JAN 2016
SUBEDAR	SKT AMN	JOSEPH V VEERAMANA	JC730606L	01 JAN 2016
SUBEDAR	SKT AMN	SHRI GOVIND DIXIT	JC730607N	01 JAN 2016
SUBEDAR	SKT AMN	SURESH SINGH	JC730644F	01 JAN 2016
SUBEDAR	SKT AMN	RAM SINGH	JC730664P	01 JAN 2016
SUBEDAR	SKT AMN	BIRENDRA	JC730674Y	01 FEB 2016
SUBEDAR	SKT AMN	MAHENDRA KUMAR SHARMA	JC730608W	01 FEB 2016
SUBEDAR	SKT AMN	SANJIVA KUMAR MISHRA	JC730675F	01 MAR 2016
SUBEDAR	SKT AMN	PUKALE ANIL MAYAPPA	JC730609Y	01 APR 2016
SUBEDAR	SKT AMN	SHIV KUMAR	JC730645K	01 APR 2016
SUBEDAR	SKT AMN	ASHOK KUMAR PANDA	JC730646M	01 APR 2016
SUBEDAR	SKT AMN	NAMBALLA NARASAYYA	JC730676K	01 MAY 2016
SUBEDAR	SKT AMN	UMESH SHARMA	JC730847L	01 MAY 2016
SUBEDAR	SKT AMN	RAJ BAHADUR	JC730694M	01 MAY 2016
SUBEDAR	SKT AMN	KULDIP KUMAR	JC730695P	01 MAY 2016
SUBEDAR	SKT AMN	SRI RAM BILAS	JC730696X	01 JUN 2016
SUBEDAR	SKT AMN	PATIL RAVASAHEB DHONDIRAM	JC730697A	01 JUN 2016
SUBEDAR	SKT AMN	MANOJ KUMAR	JC730304Y	01 JUL 2016
SUBEDAR	SKT AMN	HARJI SINGH GAHLOT	JC730698H	01 JUL 2016
SUBEDAR	SKT AMN	SRI RAMDATT SINGH	JC730699L	01 JUL 2016
SUBEDAR	SKT AMN	EDULA RAGHAVULU	JC730848N	01 AUG 2016
SUBEDAR	SKT AMN	GUMMADIDALA V ANJANEYULU	JC730700P	01 SEP 2016
SUBEDAR	SKT AMN	DALBIR SINGH	JC730748H	01 NOV 2016
SUBEDAR	SKT AMN	PRITAM SINGH	JC730701X	01 DEC 2016
SUBEDAR	SKT AMN	MANDEEP SINGH	JC730749L	01 DEC 2016

SUBEDAR	SKT AMN	KULDIP KUMAR	JC730750A	01 DEC 2016
SUBEDAR	SKT AMN	RAKESH KUMAR	JC730751H	01 DEC 2016
SUBEDAR	SKT AMN	RAVALIYA JODHA BHIMA	JC730752L	01 DEC 2016
SUBEDAR	SKT WEP	SUNDAR SINGH	JC730768W	01 JAN 2016
SUBEDAR	SKT WEP	BASAWAN RAM	JC730713M	01 JAN 2016
SUBEDAR	SKT WEP	SHYMAL BISWAS	JC730769Y	01 FEB 2016
SUBEDAR	SKT WEP	SHETE VIJAY PRALHAD	JC730809P	01 MAR 2016
SUBEDAR	SKT WEP	BASUDEV SASMAL	JC730789M	01 APR 2016
SUBEDAR	SKT WEP	GEDALA GOVINDA RAO	JC730807K	01 MAY 2016
SUBEDAR	SKT WEP	PATIL KRISHNA DNYANU	JC730905K	01 MAY 2016
SUBEDAR	SKT WEP	A RANGA SWAMY	JC730906M	01 JUN 2016
SUBEDAR	SKT WEP	UNNIKRISHNAN C	JC730907P	01 JUL 2016
SUBEDAR	SKT WEP	SARBESWAR PRADHAN	JC730954M	01 AUG 2016
SUBEDAR	SKT WEP	TRINATH MOHAPATRA	JC730908X	01 OCT 2016
SUBEDAR	SKT WEP	DIBAKAR SAHOO	JC730909A	01 DEC 2016
SUBEDAR	SKT WEP	SRUSTIDHAR SAHU	JC730991A	01 DEC 2016
SUBEDAR	SKT WEP	PRASANTA KUMAR PALAI	JC730910P	01 DEC 2016
SUBEDAR	SKT SIG	ARUP KUMAR CHOWDHURY	JC730727M	01 JAN 2016
SUBEDAR	SKT SIG	SYAMA SUNDAR SAHU	JC730624N	01 JAN 2016
SUBEDAR	SKT SIG	BANSH NARAYAN PRASAD	JC730714P	01 JAN 2016
SUBEDAR	SKT SIG	SRI PRASAD C	JC730716H	01 FEB 2016
SUBEDAR	SKT SIG	KESARKAR SHARAD ATMARAM	JC730771W	01 MAR 2016
SUBEDAR	SKT SIG	PAWAR DIGAMBAR	JC730772Y	01 APR 2016
SUBEDAR	SKT SIG	JADHAV BALASAHEB MEGHARAJ	JC730898Y	01 APR 2016
SUBEDAR	SKT SIG	HARI DAS A	JC730899F	01 MAY 2016
SUBEDAR	SKT SIG	MADHU SOODANAN MC	JC730900L	01 JUN 2016
SUBEDAR	SKT SIG	CHANDAN KUMAR MISHRA	JC730953K	01 JUN 2016
SUBEDAR	SKT SIG	SAT PAL	JC730806F	01 JUL 2016
SUBEDAR	SKT SIG	M JOSEPH	JC730902W	01 SEP 2016
SUBEDAR	SKT SIG	VIRENDER SINGH	JC730903Y	01 NOV 2016
SUBEDAR	SKT SIG	RAGHUNANDAN PATHAK	JC730904F	01 DEC 2016
SUBEDAR	SKT SIG	DESHMUKH SANJAY DHONDIBA	JC730932N	01 DEC 2016
SUBEDAR	SKT ENGR	RAJ KISHOR SINGH	JC730629M	01 JUN 2016
SUBEDAR	SKT ENGR	JORAWAR SINGH	JC730717H	01 MAR 2016
SUBEDAR	SKT ENGR	BREJESH KUMAR SINGH	JC730773F	01 MAY 2016
SUBEDAR	SKT ENGR	ARJAN SINGH	JC731001W	01 JUL 2016
SUBEDAR	SKT ENGR	SHYAMAL MAJUMDAR	JC730993L	01 DEC 2016
SUBEDAR	SKT AVN	ANIL KUMAR	JC730718L	01 MAR 2016
SUBEDAR	SKT AVN	RAGHUBAR NATH MISHRA	JC731056A	01 JUL 2016
SUBEDAR	SKT AVN	SIKANDER SINGH	JC731136X	01 JUL 2016
SUBEDAR	SHGD	DIWAN SINGH	JC730163P	01 JAN 2016
SUBEDAR	SHGD	KARNATI YOGESWARA REDDY	JC730802L	01 JAN 2016
SUBEDAR	SHGD	YAMAGAR TANAJI SHIVAJI	JC730843P	01 FEB 2016

SUBEDAR	SHGD	MOHD SHAMIN KHAN	JC730844X	01 FEB 2016
SUBEDAR	SHGD	Y SYAMA SUNDER RAO	JC730845A	01 FEB 2016
SUBEDAR	SHGD	SANJAY KUMAR YADAV	JC730920Y	01 FEB 2016
SUBEDAR	SHGD	JITENDER SHARMA	JC730933W	01 FEB 2016
SUBEDAR	SHGD	UTTAM KUMAR KAR	JC730935F	01 FEB 2016
SUBEDAR	SHGD	RAMESH CHANDER	JC731035K	01 MAR 2016
SUBEDAR	SHGD	PRADEEP SINGH RATHORE	JC731003F	01 APR 2016
SUBEDAR	SHGD	RAVI KUMAR	JC730961H	01 APR 2016
SUBEDAR	SHGD	RAMAN KUMAR	JC730962L	01 APR 2016
SUBEDAR	SHGD	EMADE NANASO LAXMAN	JC730963N	01 APR 2016
SUBEDAR	SHGD	SOLANKAR BALASO DEVAPPA	JC730992H	01 APR 2016
SUBEDAR	SHGD	DINESH KUMAR SINGH	JC730964W	01 APR 2016
SUBEDAR	SHGD	RAVI SHANKAR	JC731036M	01 APR 2016
SUBEDAR	SHGD	ARVIND KUMAR SINGH	JC731037P	01 APR 2016
SUBEDAR	SHGD	SURENDER SINGH	JC731038X	01 APR 2016
SUBEDAR	SHGD	SATYA PAL	JC731054P	01 APR 2016
SUBEDAR	SHGD	HEM SINGH	JC731039A	01 APR 2016
SUBEDAR	SHGD	NORIYA VIJAY BABULAL	JC731221A	01 APR 2016
SUBEDAR	SHGD	SAJAY SARAN SRIWASTAVA	JC731128Y	01 APR 2016
SUBEDAR	SHGD	DHARAM BIR	JC731137A	01 JUN 2016
SUBEDAR	SHGD	MAHAMMAD RAPHEE	JC731129F	01 JUN 2016
SUBEDAR	SHGD	KRISHAN PAL	JC730401W	01 JUL 2016
SUBEDAR	SHGD	PAWAN KUMAR SHARMA	JC730670H	01 JUL 2016
SUBEDAR	SHGD	GORA VENKATA RANGAIAH	JC731353N	01 JUL 2016
SUBEDAR	SHGD	SUSHIL KUMAR	JC731130W	01 JUL 2016
SUBEDAR	SHGD	MAHAVIR SINGH	JC731131Y	01 JUL 2016
SUBEDAR	SHGD	LAL BAHADUR SINGH	JC731132F	01 JUL 2016
SUBEDAR	SHGD	VINDHYACHAL PRASAD GUPTA	JC731223L	01 JUL 2016
SUBEDAR	SHGD	NARESH KUMAR	JC731273W	01 JUL 2016
SUBEDAR	SHGD	SANJAY KUMAR SINGH	JC731224N	01 SEP 2016
SUBEDAR	SHGD	SHIV KANT	JC731349L	01 OCT 2016
SUBEDAR	SHT	KUNA PATNAIK	JC730502K	01 JAN 2016
SUBEDAR	SHT	JAN MOHAMMAD	JC730632M	01 MAR 2016
SUBEDAR	SHT	DEVENDRA KUMAR	JC730726K	01 JUN 2016
SUBEDAR	SHT	SURENDER SINGH	JC730575W	01 JUL 2016
SUBEDAR	SHT	PRODIP KUMAR MISTRY	JC730790F	01 JUL 2016
SUBEDAR	SHT	SATYA VOLU SUBBAIAH	JC730721L	01 JUL 2016
SUBEDAR	SHT	PATOLE RAJ KUMAR DARIBA	JC730841K	01 SEP 2016
SUBEDAR	SHT	ASIM KUMAR GHOSH	JC730940M	01 SEP 2016
SUBEDAR	SHT	RAMAYAN PRASAD	JC730842M	01 OCT 2016
SUBEDAR	SHT	UDAY NARAYAN PRASAD	JC731002Y	01 NOV 2016
SUBEDAR	SHT	A CHANDRA SEKHARA RAO	JC731377X	01 DEC 2016
SUBEDAR	DVR MT	KAMAL NARAYAN	JC730571A	01 JAN 2016

SUBEDAR	DVR MT	VINOD KUMAR	JC730572H	01 JAN 2016
SUBEDAR	DVR MT	DARSHAN LAL	JC730573L	01 MAR 2016
SUBEDAR	DVR MT	V MURUGARAJ	JC730574N	01 MAR 2016
SUBEDAR	DVR MT	UDAY PRADAP SINGH	JC730587L	01 APR 2016
SUBEDAR	DVR MT	SHOVON MUKHOPADHYAY	JC730808M	01 APR 2016
SUBEDAR	DVR MT	RAGHUBAR UPADHYAY	JC730719N	01 APR 2016
SUBEDAR	DVR MT	AJITH KUMAR MG	JC730720H	01 MAY 2016
SUBEDAR	DVR MT	SRI BHARAT SINGH	JC730774K	01 JUN 2016
SUBEDAR	DVR MT	RAKESH KUMAR SONI	JC730775M	01 JUL 2016
SUBEDAR	DVR SPL	MAGESH M	JC730776P	01 SEP 2016
SUBEDAR	DVR SPL	DIP NARAIN SINGH	JC730777X	01 SEP 2016
SUBEDAR	DVR MT	BISWAMBHAR PRASAD	JC730778A	01 NOV 2016
SUBEDAR	TAILOR (U)	SHARMA RAKESH KUMAR BABU LAL	JC731508X	01 FEB 2016
SUBEDAR	ARTSN WW	DILIP KUMAR OJHA	JC731452W	01 MAR 2016
SUBEDAR	ARTSN WW	BALAK RAM	JC731481L	01 DEC 2016
SUBEDAR	ARTSN WW	SANJEV KUMAR	JC731504F	01 DEC 2016
SUBEDAR	MUSICIAN	G BIJU	JC730104H	01 JUN 2016

ANURAG SHARMA
Under Secy.

AIR FORCE

No. 114, dated 4th May 2017—The President is pleased to make the following Substantive Promotions:—

INDIAN AIR FORCE

SQN LDR TO BE SUBSTANTIVE WG CDR

AE(L) BRANCH

RAVINDER SINGH (26240),	w.e.f. 09-JUL-12
DALIP SINGH GILL (26235),	w.e.f. 09-JUL-12
RS VINAY RAJ (26246),	w.e.f. 09-JUL-12
NITIN CHATURVEDI (26245),	w.e.f. 09-JUL-12

EDN BRANCH

SHARMA ANURADHA (26181),	w.e.f. 17-JUN-13
BISHT PRATIBHA (26182),	w.e.f. 16-SEP-13

AE(M) BRANCH

SINGH RAKESH KUMAR (26825)	w.e.f. 06-JAN-14
SHAMBHU BM (26826)	w.e.f. 06-JAN-14
SINGH RAJNISH KUMAR (26828)	w.e.f. 06-JAN-14
AGRAWAL NITIN KUMAR (26829)	w.e.f. 06-JAN-14
RANALINGAM NAVEEN PRASAD (26830)	w.e.f. 06-JAN-14
LAKSHMAN GOWTHAM HASSAN (26809)	w.e.f. 06-JAN-14
JANARTHAN BALASUBRAMIAM (26810)	w.e.f. 06-JAN-14

PATHAK PRASHANT (26801)	w.e.f. 06-JAN-14
SOANS RHONSTON (26837)	w.e.f. 06-JAN-14
AE(L) BRANCH	
GANGADHARAN RAJIV (26875)	w.e.f. 06-JAN-14
PAJHAL ROHIT (26858)	w.e.f. 06-JAN-14
PRATAP MAHESH (26842)	w.e.f. 06-JAN-14
SHARMA ROHIN (26853)	w.e.f. 06-JAN-14
AE(M) BRANCH	
KUMAR SAMEER (26838)	w.e.f. 07-JUL-14
ADM BRANCH	
ARORA SACHIN (26083),	w.e.f. 17-JUN-13
AE(L) BRANCH	
GANESAN PALANICHAMY (26682),	w.e.f. 14-DEC-14
SINGH RAJENDRA (26681),	w.e.f. 14-DEC-14
SINGH RAM SAKAL (26683),	w.e.f. 14-DEC-14
EDN BRANCH	
SUNIL KUMAR (26389),	w.e.f. 20-JAN-14
ADM BRANCH	
DUBEY SURENDRA (26796),	w.e.f. 19-JAN-15
SINGH MAHAVIR (26797),	w.e.f. 19-JAN-15
EDN BRANCH	
NEHRU RAJAMANIKAM (26798),	w.e.f. 19-JAN-15
SINGH SHANKER BUX (26799),	w.e.f. 19-JAN-15
ADM BRANCH	
MAITHANI SONIA (26618),	w.e.f. 16-JUN-14
CHAUDHARY SHALINI (26617),	w.e.f. 16-JUN-14
KAUR NAVRATTAN (26612),	w.e.f. 16-JUN-14
SHARMA PRATIBHA (26613),	w.e.f. 16-JUN-14
MISRA PARUL (26614),	w.e.f. 16-JUN-14
ACCTS BRANCH	
MEHTA DAIZY (26619),	w.e.f. 16-JUN-14
NAMITA ANAND SHARMA (26621),	w.e.f. 16-JUN-14
BAHUGUNA PREETI (26624),	w.e.f. 16-JUN-14
EDN BRANCH	
NEGI POONAM (26626),	w.e.f. 16-JUN-14
MET BRANCH	
VERMA VINILA (26212),	w.e.f. 16-JUN-14
PANDIT SHREYA (26211),	w.e.f. 16-JUN-14

ADM BRANCH

THAKUR POOJA (26611), w.e.f. 16-JUN-14

AE(M) BRANCH

D'SOUZA GRAHITH CHRIS (27159), w.e.f. 07-JUL-14

SADISH R (27160), w.e.f. 07-JUL-14

OJHA ABHISHEK (27190), w.e.f. 07-JUL-14

D'MELLO THOMAS WILFRED (27158), w.e.f. 07-JUL-14

SUJATHA MUTHUSWAMY (27166), w.e.f. 07-JUL-14

ANIL KUMAR P (27162), w.e.f. 07-JUL-14

AE(L) BRANCH

MALIK DEEPTI (27189), w.e.f. 07-JUL-14

SHARMA PRANAV (27170), w.e.f. 07-JUL-14

SINGH TUHINA (27167), w.e.f. 07-JUL-14

SINGH ANJALI (27179), w.e.f. 07-JUL-14

PRIYA MAHESH K (27182), w.e.f. 07-JUL-14

CHAUHAN SHEETAL (27184), w.e.f. 07-JUL-14

BEDI MANPREET (27172), w.e.f. 07-JUL-14

NAIR RENUKA (27185), w.e.f. 07-JUL-14

SARADA V (27183), w.e.f. 07-JUL-14

SHUKLA MANALI (27181), w.e.f. 07-JUL-14

SURI SHILPA (27178), w.e.f. 07-JUL-14

SHARMA PUNEET (27164), w.e.f. 07-JUL-14

ARORA SURBHI (27187), w.e.f. 07-JUL-14

ADM BRANCH

IYER KANNAN CHANDRASHEKHARAN (26587), w.e.f. 16-JUN-14

JAGANNATHAN VIJAY (26593), w.e.f. 16-JUN-14

DHAWAN RANJAN (26577), w.e.f. 16-JUN-14

PALIWAL MAHESH (26574), w.e.f. 16-JUN-14

SINGH MUKESH KUMAR (26590), w.e.f. 16-JUN-14

THAKUR AJAY SINGH (26576), w.e.f. 16-JUN-14

PANDEY VIPIN KUMAR (26582), w.e.f. 16-JUN-14

SRINIVASU GARIGIPATI (26588), w.e.f. 16-JUN-14

KHANNA ANSHAL (26594), w.e.f. 16-JUN-14

ELANCHEZHIAN K (26583), w.e.f. 16-JUN-14

BHATTACHARJEE ANIMESH (26598), w.e.f. 16-JUN-14

PURI DHIRAJ (26572), w.e.f. 16-JUN-14

RAWAT RABINDER SINGH (26573), w.e.f. 16-JUN-14

RATHI SUNIL SINGH (26575), w.e.f. 16-JUN-14

SIDDIQUI ARSHI (26579),	w.e.f. 16-JUN-14
CHAUHAN ASHOK KUMAR (26581),	w.e.f. 16-JUN-14
SHYAM SUNDER (26584),	w.e.f. 16-JUN-14
CHAUDHARY VIKRANT (26585),	w.e.f. 16-JUN-14
RAO MANOHAR T BHEEMSEN (26586),	w.e.f. 16-JUN-14
MAITHANI NAVEEN (26589),	w.e.f. 16-JUN-14
BHANOTRA SURESH (26591),	w.e.f. 16-JUN-14
ANTONY KJ (26592),	w.e.f. 16-JUN-14
ABHISHEK GJ (26595),	w.e.f. 16-JUN-14
BISHT RABINDRA (26597),	w.e.f. 16-JUN-14
SRIDHAR S (26578),	w.e.f. 16-JUN-14
VARGHESE CHIRAYIL BINU (26596),	w.e.f. 16-JUN-14
SHARMA SURINDER KUMAR (26580),	w.e.f. 16-JUN-14

ACCTS BRANCH

RAO OBILISSETTY SATISH (26603),	w.e.f. 16-JUN-14
GAUR PARVESH (26601),	w.e.f. 16-JUN-14
JAGGI HARBIR SINGH (26600),	w.e.f. 16-JUN-14
DASGUPTA SUBHADEEP (26604),	w.e.f. 16-JUN-14
SHARMA KULBHUSHAN (26599),	w.e.f. 16-JUN-14
SHARMA SUDHANSHU SHEKHAR (26608),	w.e.f. 16-JUN-14
JOSHI MANMOHAN (26607),	w.e.f. 16-JUN-14
PARIHAR PRASHANT (26605),	w.e.f. 16-JUN-14
BALI MANISH KUMAR (26602),	w.e.f. 16-JUN-14

EDN BRANCH

DANGWAL VIJAY SINGH (26610),	w.e.f. 16-JUN-14
AMITABH RANJAN (26609),	w.e.f. 16-JUN-14

MET BRANCH

VERMA RAHUL (26210),	w.e.f. 16-JUN-14
PATNI DHIRENDRA KUMAR (26209),	w.e.f. 16-JUN-14

F(P) BRANCH

ABBOT ANKIT (26511),	w.e.f. 16-JUN-14
SINGH SACHINDRA (26535),	w.e.f. 16-JUN-14
SHARMA AMIT (26529),	w.e.f. 16-JUN-14
PRASAD MUNIRATNAM KESHVA (26536),	w.e.f. 16-JUN-14
VERMA VIKAS (26517),	w.e.f. 16-JUN-14
GUPTA DEEPANKAR (26520),	w.e.f. 16-JUN-14
KAUSHAL VINEET KUMAR (26528),	w.e.f. 16-JUN-14
MEHTA VISHAL (26538),	w.e.f. 16-JUN-14

CHEEMA HARPREET (26543),	w.e.f. 16-JUN-14
NEGI KAUSHAL SINGH (26549),	w.e.f. 16-JUN-14
BHARGAVA VISHAL (26553),	w.e.f. 16-JUN-14
MISHRA AJAY KRISHNA (26522),	w.e.f. 16-JUN-14
ASTHANA AMBUJ SHEKHAR (26562),	w.e.f. 16-JUN-14
SRIGANESH T (26527),	w.e.f. 16-JUN-14
DAHIYA YOGESH CHANDER (26539),	w.e.f. 16-JUN-14
SHARMA AMIT (26545),	w.e.f. 16-JUN-14
SINGH ARJUN (26546),	w.e.f. 16-JUN-14
GOJA UPPESH (26548),	w.e.f. 16-JUN-14
MOHAPATRA DEEPAK (26550),	w.e.f. 16-JUN-14
GOYAL PAWAN KUMAR (26551),	w.e.f. 16-JUN-14
SARAVANAVEL S (26552),	w.e.f. 16-JUN-14
SHROTIYA VIKAS (26555),	w.e.f. 16-JUN-14
SHEKHAR CHANDRA (26556),	w.e.f. 16-JUN-14
MEHTA AMIT (26557),	w.e.f. 16-JUN-14
SHARMA RAJESH KUMAR (26559),	w.e.f. 16-JUN-14
KULKARNI ATUL BALKRISHNA (26560),	w.e.f. 16-JUN-14
DHANKHAR SAMRATH (26513),	w.e.f. 16-JUN-14
NAYAL NITIN (26515),	w.e.f. 16-JUN-14
BILLING DALER SINGH (26516),	w.e.f. 16-JUN-14
PATIL VIJAY KRISHNAT (26519),	w.e.f. 16-JUN-14
CHAUDHARY ADARSH KUMAR (26524),	w.e.f. 16-JUN-14
SINGH MANISH KUMAR (26526),	w.e.f. 16-JUN-14
MATHUR ANKUR (26531),	w.e.f. 16-JUN-14
SHUKLA VINAY (26532),	w.e.f. 16-JUN-14
BHARATH MS (26534),	w.e.f. 16-JUN-14
SINGH SIDDHARTH KMJ (26540),	w.e.f. 16-JUN-14
UNIYAL VIKRANT (26544),	w.e.f. 16-JUN-14
SHANKARAM SHIV (26561),	w.e.f. 16-JUN-14
ROY FALGUNI LAHA (26512),	w.e.f. 16-JUN-14
PATHANIA ROHIT R (26514),	w.e.f. 16-JUN-14
JOSE OVELIL JIJO (26518),	w.e.f. 16-JUN-14
SAW PRABIR (26521),	w.e.f. 16-JUN-14
DAS BUDHADITYA (26523),	w.e.f. 16-JUN-14
BHARAT K (26525),	w.e.f. 16-JUN-14
UJJAWAL KUMAR (26530),	w.e.f. 16-JUN-14
MUKHERJEE JOY (26533),	w.e.f. 16-JUN-14

ADM BRANCH

TIWARI VIVEK (26558), w.e.f. 16-JUN-14

F(P) BRANCH

SABHARWAL NIKISH (26627), w.e.f. 16-JUL-14

F(N) BRANCH

SHARMA SATISH (26569), w.e.f. 16-JUN-14

RAI PRADIP KUMAR (26566), w.e.f. 16-JUN-14

PATHAK ASHISH (26567), w.e.f. 16-JUN-14

VALLURU ANIL KUMAR (26570), w.e.f. 16-JUN-14

SHARMA SHASHI BHUSHAN (26564), w.e.f. 16-JUN-14

SOOD ASHISH KUMAR (26568) w.e.f. 16-JUN-14

ADM BRANCH

SINHA AVINASH SHARAN (26571), w.e.f. 16-JUN-14

BHAS KURUMBUR BINZU (26565), w.e.f. 16-JUN-14

FLT LT TO BE SUBSTANTIVE SQN LDR

F(P) BRANCH

KAUSHIK MISHRA (29222), w.e.f. 15-DEC-12

RAJGOPAL MANU (29227), w.e.f. 15-DEC-12

EDN BRANCH

MATHEW DEEPU (29763), w.e.f. 22-JAN-14

[NOTIONAL SENORITY 16-DEC-13]

ADM BRANCH

ABHIMANYU SINGH (29752), w.e.f. 12-AUG-15

AE(M) BRANCH

YADAV DEEPESH KUMAR(29652), w.e.f. 02-JUL-13

ADM BRANCH

SAJA SRI CHAITANYA (29532), w.e.f. 16-JUN-13

LOHANI JUGAL KISHOR (29520), w.e.f. 16-JUN-13

TRIPATHI OM KUMAR(29526), w.e.f. 16-JUN-13

LGS BRANCH

MN AFZAL(29568), w.e.f. 16-JUN-13

UK TRIPATHI (29569), w.e.f. 16-JUN-13

VC RAJU(29573), w.e.f. 16-JUN-13

DP SINGH (29571), w.e.f. 16-JUN-13

M SUNIL KUMAR (29572), w.e.f. 16-JUN-13

NK SINGH (29570), w.e.f. 16-JUN-13

EDN BRANCH

VIRENDRA SINGH (29574), w.e.f. 16-JUN-13

AE(M) BRANCH

RAWAT MISHOO (30262),	w.e.f. 08-JAN-14
DESHAWAL SAURABH (30269),	w.e.f. 08-JAN-14
KATOCH PRAJUL (30267),	w.e.f. 08-JAN-14
GADHOK MUDIT (30266),	w.e.f. 08-JAN-14
KASHYAP MANOJ (30264),	w.e.f. 08-JAN-14
PRADEEP R RAM JAI (30263),	w.e.f. 08-JAN-14
BHARUNGAR RAJESH (30265),	w.e.f. 08-JAN-14
KAPOOR THALAJ (30260),	w.e.f. 08-JAN-14
SHUBHANKAR (30259),	w.e.f. 08-JAN-14
SISODIA CHITRESH (30261),	w.e.f. 08-JAN-14

AE(L) BRANCH

VIKAS (30304),	w.e.f. 08-JAN-14
SANGHERA KHUSHDEEP SINGH (30305)	w.e.f. 08-JAN-14
JAKHAR VIKAS (30306),	w.e.f. 08-JAN-14
WAILA SANDEEP (30307),	w.e.f. 08-JAN-14
VATS PRASHANT KUMAR (30308),	w.e.f. 08-JAN-14
BOHRA DIKSHANT (30309),	w.e.f. 08-JAN-14
VERMA SANKET (30270),	w.e.f. 08-JAN-14
KUMAR VIKAS (30271),	w.e.f. 08-JAN-14
NIKHIL P A (30272),	w.e.f. 08-JAN-14
CHANDRA VINOD (30273),	w.e.f. 08-JAN-14
BHATTACHARJYA ANANDA SANKAR (30274),	w.e.f. 08-JAN-14
MANDAL PRADEEP (30688),	w.e.f. 08-JAN-14
CHANDRA JOYDEEP (30276),	w.e.f. 08-JAN-14
GUPTA AYUSH (30277),	w.e.f. 08-JAN-14
RAWAT DEEPAK SINGH (30278),	w.e.f. 08-JAN-14
KUMAR DHEERAJ (30279),	w.e.f. 08-JAN-14
BETOLIA YOGESH KUMAR (30280),	w.e.f. 08-JAN-14
KUMAR RAKESH (30281),	w.e.f. 08-JAN-14
DWIVEDI HIMANSHU (30282),	w.e.f. 08-JAN-14
ROHIT RAJAN (30283),	w.e.f. 08-JAN-14
SINGH RAJWINDER (30293),	w.e.f. 08-JAN-14
KANSAL VINNY (30294),	w.e.f. 08-JAN-14
SIDDHU MANDEEP (30295),	w.e.f. 08-JAN-14
SINGHAL PUNEET (30296),	w.e.f. 08-JAN-14
RATHORE VIDHU (30297),	w.e.f. 08-JAN-14
RANA VIVEK SINGH (30298),	w.e.f. 08-JAN-14

JAIN PAVAIL (30299),	w.e.f. 08-JAN-14
PATHAK GAJENDRA (30301),	w.e.f. 08-JAN-14
BABU SANJEEV (30284),	w.e.f. 08-JAN-14
RAGHAVENDRA ANAKALA (30285),	w.e.f. 08-JAN-14
PRAVEEN KUPPILI SAI (30286),	w.e.f. 08-JAN-14
SINGH SHAKTI (30687),	w.e.f. 08-JAN-14
SINGH ASHUTOSH (30287),	w.e.f. 08-JAN-14
ARYA SAKET (30288),	w.e.f. 08-JAN-14
SASIDHARAN RATHEESH THATTANPARAMBIL (30289),	w.e.f. 08-JAN-14
FIROZ Md KASHIF (30290),	w.e.f. 08-JAN-14
BISHNOI PRAMOD (30291),	w.e.f. 08-JAN-14
GUPTA ROHIT (30292),	w.e.f. 08-JAN-14
KOTTURSAMY RAJA PANDIAN (30353),	w.e.f. 08-JAN-14
PARVEZ KHALID (30303),	w.e.f. 08-JAN-14
GOPAKUMAR S (30300),	w.e.f. 08-JAN-14
TANWAR DIGVIJAY SINGH (30302),	w.e.f. 08-JAN-14
NATH SOUMENDRA KUMAR (30316),	w.e.f. 08-JAN-14
NATARAJ NAVEEN (30315),	w.e.f. 08-JAN-14
SAHIL DEEP (30314),	w.e.f. 08-JAN-14
ROY SOURASATTWA (30313),	w.e.f. 08-JAN-14
MUKHERJEE SUBHASISH (30312),	w.e.f. 08-JAN-14
BAGHEL SHARAD KUMAR SINGH (30311),	w.e.f. 08-JAN-14
RAJ NIKHIL (30310),	w.e.f. 08-JAN-14
YADAV DEEPAK (30275),	w.e.f. 08-JAN-14

AE(M) BRANCH

UNIKRISHNAN HARI KRISHNAN (30268),	w.e.f. 31-JAN-14
------------------------------------	------------------

ADM BRANCH

KUMAR VIKAS (29772),	w.e.f. 16-DEC-13
MALIK DINESH SINGH (29773),	w.e.f. 16-DEC-13
MISHRA SABYASACHI (29783),	w.e.f. 16-DEC-13
SINGH PRAVEEN (29782),	w.e.f. 16-DEC-13
KUMAR SUNIL (29781),	w.e.f. 16-DEC-13
CHAHAR HARVINDER SINGH (29780),	w.e.f. 16-DEC-13
PARIHAR VIKAS SINGH (29779),	w.e.f. 16-DEC-13
SAHU SURESH CHANDRA (29778),	w.e.f. 16-DEC-13
SINGH PRANAY KUMAR (29774),	w.e.f. 16-DEC-13
DUBEY BHAVESH KUMAR (29775),	w.e.f. 16-DEC-13
GUPTA ANKUSH (29776),	w.e.f. 16-DEC-13
SHARMA RAKESH (29777),	w.e.f. 16-DEC-13

LGS BRANCH

GUPTA RAJESH KUMAR (29785),	w.e.f. 16-DEC-13
KUMAR NARESH (29784),	w.e.f. 16-DEC-13
JADHAV VIJAY KUMAR (29789),	w.e.f. 16-DEC-13
SHARMA VIJAY KRISHNA (29788),	w.e.f. 16-DEC-13
KUMAR ARUN (29787),	w.e.f. 16-DEC-13
PRAKASH BINAYAK BUDH (29786),	w.e.f. 16-DEC-13

ACCTS BRANCH

MATHAI SURAJ (29790),	w.e.f. 16-DEC-13
-----------------------	------------------

ADM BRANCH

SHARMA VINAMRATA (29799),	w.e.f. 16-DEC-13
VERMA PRIYANKA (29797),	w.e.f. 16-DEC-13
RANA KANUPRIYA (29804),	w.e.f. 16-DEC-13
PARARTHANA (29803),	w.e.f. 16-DEC-13
SINGH AKANKSHA (29802),	w.e.f. 16-DEC-13
YADAV PRIYANKA (29801),	w.e.f. 16-DEC-13
YADAV PREETI (29800),	w.e.f. 16-DEC-13
MAGHAV ADITI (29798),	w.e.f. 16-DEC-13

LGS BRANCH

TOMAR VIBHA (29809),	w.e.f. 16-DEC-13
SINGH PRANJALI (29808),	w.e.f. 16-DEC-13
SHARMA SHILPEE (29807),	w.e.f. 16-DEC-13
JOON PREETI (29806),	w.e.f. 16-DEC-13
CHOPRA SIMRAN (29805),	w.e.f. 16-DEC-13

ACCTS BRANCH

REKHI SONIA (29816),	w.e.f. 16-DEC-13
CHAUHAN PALLAVI (29811),	w.e.f. 16-DEC-13
BISHT SUJATA (29812),	w.e.f. 16-DEC-13
SINGH DIKSHA (29815),	w.e.f. 16-DEC-13
DHABHAI DEVYANI (29814),	w.e.f. 16-DEC-13
BOHRA SHILPA (29813),	w.e.f. 16-DEC-13

EDN BRANCH

SINGH ANURADHA (29817),	w.e.f. 16-DEC-13
PANDEY SHWETA (29818)	w.e.f. 16-DEC-13

MET BRANCH

YADAV TARUNA (29413),	w.e.f. 16-DEC-13
-----------------------	------------------

LGS BRANCH

BALHARA SUNEEL KUMAR(29770),	w.e.f. 16-DEC-13
------------------------------	------------------

EDN BRANCH

ARYA AJAY KUMAR (29771), w.e.f. 16-DEC-13

ADM BRANCH

KUMAR DEEPAK (30001), w.e.f. 21-JUN-14

KUMAR ANUP (30002), w.e.f. 21-JUN-14

LGS BRANCH

TRIVEDI VINIT KUMAR (30004), w.e.f. 21-JUN-14

KESWANI LUCKY (30003), w.e.f. 21-JUN-14

CHOUDHARY AMAN(30005), w.e.f. 21-JUN-14

F(P) BRANCH

ARYA SURBHI (30006), w.e.f. 21-JUN-14

SETHI SONALI (30008), w.e.f. 21-JUN-14

PATIL TEJASHREE MUKUND (30007), w.e.f. 21-JUN-14

ADM BRANCH

SHUKLA PRABHANSHU (29980), w.e.f. 21-JUN-14

SHARMA ASHISH (29978), w.e.f. 21-JUN-14

KATOCH ABHISHEK (29975), w.e.f. 21-JUN-14

AJITH GOPALAN (29976), w.e.f. 21-JUN-14

KUMAR GV SATYENDRA (29969), w.e.f. 21-JUN-14

SINHA SHVETANK (29970), w.e.f. 21-JUN-14

SINGH DEEPAK KUMAR (29971), w.e.f. 21-JUN-14

BUDHIRAJA RAGHAV (29974), w.e.f. 21-JUN-14

KUMAR K KIRAN (29973), w.e.f. 21-JUN-14

SAHA PRAVAS KUMAR (29984), w.e.f. 21-JUN-14

KAMBLE PRABUDHA KUMAR RAVINDRA (29983), w.e.f. 21-JUN-14

KHAN AIZAZ ALI (29982), w.e.f. 21-JUN-14

PATIL MAHENDRA KUMAR S (29981), w.e.f. 21-JUN-14

KUMAR NARESH (29979), w.e.f. 21-JUN-14

SINGH KRISHANVEER (29977), w.e.f. 21-JUN-14

SINGH SHAILESH KUMAR (29972), w.e.f. 21-JUN-14

LGS BRANCH

KUMPAWAT LOKENDRA SINGH (29990), w.e.f. 21-JUN-14

VERMA SANDEEP SAHAI (29989), w.e.f. 21-JUN-14

RAZA MOHSIN (29986), w.e.f. 21-JUN-14

BISHT HEMANT (29987), w.e.f. 21-JUN-14

KUMAR MANISH (29988), w.e.f. 21-JUN-14

BINEESH MANOTH SADANANDAN (29985), w.e.f. 21-JUN-14

ACCTS BRANCH

TOMAR RAVI (29994),	w.e.f. 21-JUN-14
KULSRESHTHA NIMESH (29992),	w.e.f. 21-JUN-14
WILSON VISHNU (29991),	w.e.f. 21-JUN-14

EDN BRANCH

KHARBANDA SIDDHARTH (29996),	w.e.f. 21-JUN-14
TEWARI DHARAM VEER (29997),	w.e.f. 21-JUN-14
SHARMA SANJEEV (29998),	w.e.f. 21-JUN-14
CHAUDHARY SANJEEV KUMAR (29995),	w.e.f. 21-JUN-14

MET BRANCH

ELAMURUGU S SIVA (29670),	w.e.f. 21-JUN-14
SAD HARI PRASAD (29999),	w.e.f. 21-JUN-14

AE(M) BRANCH

SINGH NARINDERJIT (30550),	w.e.f. 02-JUL-14
PRADEEP RJ (30551),	w.e.f. 02-JUL-14
TOMER SAURABH (30552),	w.e.f. 02-JUL-14
THOMAS SANIL P (30553),	w.e.f. 02-JUL-14
BALI ROHIT (30554),	w.e.f. 02-JUL-14
MANN RAHUL (30556),	w.e.f. 02-JUL-14
KUMAR MADHUSUDAN (30557),	w.e.f. 02-JUL-14
DUBEY DARPAN K (30548),	w.e.f. 02-JUL-14
RAMAN A RAGHU (30549),	w.e.f. 02-JUL-14

AE(L) BRANCH

KUMAR VIKAS (30564),	w.e.f. 02-JUL-14
SHARMA VINEET KUMAR (30583),	w.e.f. 02-JUL-14
KUMAR AMIT (30566),	w.e.f. 02-JUL-14
ARUNACHALAM B (30567),	w.e.f. 02-JUL-14
DODLA SIVA KRISHNA (30568),	w.e.f. 02-JUL-14
SINGH MANVENDRA (30569),	w.e.f. 02-JUL-14
MULEY ANKIT (30571),	w.e.f. 02-JUL-14
SINGH JANMEET (30595),	w.e.f. 02-JUL-14
CHAKRABORTY RAHUL (30596),	w.e.f. 02-JUL-14
YADAV SAURABH (30598),	w.e.f. 02-JUL-14
RAVI H K (30599),	w.e.f. 02-JUL-14
TYAGI ABHIMANYU (30600),	w.e.f. 02-JUL-14
SHARMA MANISH (30601),	w.e.f. 02-JUL-14
SINGH JATIN (30602),	w.e.f. 02-JUL-14
CHOUHAN VISHAL (30603),	w.e.f. 02-JUL-14

GUTTAL MANAS M (30559),	w.e.f. 02-JUL-14
KHANDELWAL RAHUL (30560),	w.e.f. 02-JUL-14
DUTTA SUDIP KUMAR (30561),	w.e.f. 02-JUL-14
WADHAWAN KARAN (30562),	w.e.f. 02-JUL-14
ACHAR CHETAN V (30563),	w.e.f. 02-JUL-14
SHARMA RONAK (30573),	w.e.f. 02-JUL-14
SHARMA VISHAL (30574),	w.e.f. 02-JUL-14
YADAV YOGESH KUMAR (30575),	w.e.f. 02-JUL-14
VERMA DEEP BHUSHAN (30576),	w.e.f. 02-JUL-14
RAVIKANT (30577),	w.e.f. 02-JUL-14
PUJARI ABHISHEK (30605),	w.e.f. 02-JUL-14
MITTAL SAURABH (30606),	w.e.f. 02-JUL-14
CHANDAN ASHISH (30607),	w.e.f. 02-JUL-14
MALIK PANKAJ SINGH (30608),	w.e.f. 02-JUL-14
RATHEE PRADEEP KUMAR (30609),	w.e.f. 02-JUL-14
JITENDRA (30610),	w.e.f. 02-JUL-14
KUMAR JITESH (30611),	w.e.f. 02-JUL-14
KUMAR ABHISHEK (30612),	w.e.f. 02-JUL-14
VK DIXIT (30558),	w.e.f. 12-AUG-16
SRIVASTAV GAUTAM (30613),	w.e.f. 02-JUL-14
PHILIPOSE SIBIN DANIEL (30614),	w.e.f. 02-JUL-14
CHAKRABORTY REEJU (30615),	w.e.f. 02-JUL-14
HUI SOUVIK (30616),	w.e.f. 02-JUL-14
GOPALAKRISHNAN R (30617),	w.e.f. 02-JUL-14
GANGWAL PRATEEK (30684),	w.e.f. 02-JUL-14
SHARMA ANKIT (30584),	w.e.f. 02-JUL-14
JAMWAL JITENDER (30585),	w.e.f. 02-JUL-14
AHLAWAT RAVI KUMAR (30586),	w.e.f. 02-JUL-14
JASWAL BIKRAMJEET SINGH (30587),	w.e.f. 02-JUL-14
BAJAJ BHARAT (30588),	w.e.f. 02-JUL-14
SINGH SANDEEP KUMAR (30589),	w.e.f. 02-JUL-14
SETH PRANAY (30590),	w.e.f. 02-JUL-14
KUMAR RANJAN (30591),	w.e.f. 02-JUL-14
GHOSE TUHIN (30592),	w.e.f. 02-JUL-14
SAMARTH SHARAD (30593),	w.e.f. 02-JUL-14
GARG PRASHANT (30594),	w.e.f. 02-JUL-14
SAXENA APNIL (30634),	w.e.f. 02-JUL-14
KUMAR APPARAJU KIRAN (30689),	w.e.f. 02-JUL-14

PAREEK VARUN (30604),	w.e.f. 02-JUL-14
ANANDA PADMANABHAN L (30578),	w.e.f. 02-JUL-14
KRUPAKAR MANI (30579),	w.e.f. 02-JUL-14
JAIN AMAN (30580),	w.e.f. 02-JUL-14
SHARMA PANKAJ (30581),	w.e.f. 02-JUL-14
GAURAV (30582),	w.e.f. 02-JUL-14
KUMAR SAURABH (30565),	w.e.f. 02-JUL-14
SHARMA GAYATRI (30120),	w.e.f. 07-JUL-14
BEDERE SUNIL BABU JANARDHANA (30102),	w.e.f. 07-JUL-14
SINGH AMANDEEP (30104),	w.e.f. 07-JUL-14
KARTHIK VIJAY (30105),	w.e.f. 07-JUL-14
CHIBBER SUSHANT (30106),	w.e.f. 07-JUL-14
BATRA SANYAM (30107),	w.e.f. 07-JUL-14
CHOPRA RAMANDEEP SINGH (30108),	w.e.f. 07-JUL-14
DUBEY ALOK (30110),	w.e.f. 07-JUL-14
RATHORE SHIVAM (30111),	w.e.f. 07-JUL-14
GEORGE STANLEY (30112),	w.e.f. 07-JUL-14
SHARMA UMESH (30113),	w.e.f. 07-JUL-14
KUMAR ARUN (30114),	w.e.f. 07-JUL-14
ANAND (30115),	w.e.f. 07-JUL-14
PRITISH (30116),	w.e.f. 07-JUL-14
VERMA ABHISHEK (30117),	w.e.f. 07-JUL-14
RASTOGI MANJRI (30118),	w.e.f. 07-JUL-14
MISHRA GARIMA (30119),	w.e.f. 07-JUL-14
MITTAL ADITI (30122),	w.e.f. 07-JUL-14
LOMAS ANIOUSHKA (30123),	w.e.f. 07-JUL-14
KOUR SARNISH (30124),	w.e.f. 07-JUL-14
DEEPIKA (30125),	w.e.f. 07-JUL-14
KAUR GURVINDER (30126),	w.e.f. 07-JUL-14
TIWARI PRERNA (30127),	w.e.f. 07-JUL-14
KUMARI VANDANA (30128),	w.e.f. 07-JUL-14
KAUR RAMANDEEP (30130),	w.e.f. 07-JUL-14
KAUR NAVJEET (30131),	w.e.f. 07-JUL-14
SAHEL RISHIKA (30132),	w.e.f. 07-JUL-14
DUEBY HARSHA (30121),	w.e.f. 07-JUL-14
SUCHINDRA KYATHSANDRA RAMESH (30155),	w.e.f. 28-JUL-14
THAKRE PRATIKSHA (30153),	w.e.f. 20-JUL-14
BHATNAGAR HARSHITA (30152),	w.e.f. 20-JUL-14
MISHRA MANALI (30151),	w.e.f. 20-JUL-14

DHILLON HARPREET SINGH (30150),	w.e.f. 19-JUL-14
SINGH ANUPAM (30149),	w.e.f. 18-JUL-14
YADAV SONIA (30148),	w.e.f. 18-JUL-14
KANWAR ANKIT (30147),	w.e.f. 18-JUL-14
PANIGRAHY KASTHURICA (30144),	w.e.f. 16-JUL-14

ADM BRANCH

SARWARA DEVINDER SINGH (30000),	w.e.f. 21-JUN-14
DEVI KONTHOUJAM NANDESHORI (30018),	w.e.f. 21-JUN-14
RAWAT MANURADHA (30016),	w.e.f. 21-JUN-14
SINGH RITU (30017),	w.e.f. 21-JUN-14
PANWAR VARLIN (30015),	w.e.f. 21-JUN-14
JOSHI SADHANA (30014),	w.e.f. 21-JUN-14
UPADHYA NEHA (30013),	w.e.f. 21-JUN-14
DHAKA CHHAVI (30012),	w.e.f. 21-JUN-14
SHEKHAR TANYA (30011),	w.e.f. 21-JUN-14
KUMARI BIRESH (30019),	w.e.f. 21-JUN-14

LGS BRANCH

MISHRA KANAK (30026),	w.e.f. 21-JUN-14
CHANDOLA ASHWARYA (30025),	w.e.f. 21-JUN-14
ISHANI (30024),	w.e.f. 21-JUN-14
KUTTAPPA THASHEENA (30023),	w.e.f. 21-JUN-14
VASHISHT ANAMIKA (30022),	w.e.f. 21-JUN-14
BHAVNA (30021),	w.e.f. 21-JUN-14
THAKUR RUPAL SONAM (30020),	w.e.f. 21-JUN-14

ACCTS BRANCH

KULKARNI KSHITIJ DIWAKAR (30027),	w.e.f. 21-JUN-14
-----------------------------------	------------------

EDN BRANCH

SETHI KARISHMA (30028),	w.e.f. 21-JUN-14
RATHEE SUCHETA (30029),	w.e.f. 21-JUN-14

F(P) BRANCH

KATOCH DIVYA (29793),	w.e.f. 16-DEC-13
NAIK TANMAYA H (29794),	w.e.f. 16-DEC-13
DHILLON HARNEET (29791),	w.e.f. 16-DEC-13
CHAUHAN PRIYADARSHINI (29792),	w.e.f. 16-DEC-13
BALACHANDRAN K SNEHA(29795),	w.e.f. 16-DEC-13
PARIJAT AGASHE (29199),	w.e.f. 15-DEC-12
D JAIN (29249),	w.e.f. 15-DEC-12
PUSHPA RAJAGOPAL ABHILASH (29252),	w.e.f. 15-DEC-12

FG OFFR TO BE SUBSTANTIVE FLT LT

AE (M) BRANCH

TARUN CHANDEL (32245),	w.e.f. 07-JAN-13
KALBALI BAIG SERKAIL (32246),	w.e.f. 07-JAN-13
AMAR PANDEY (32250),	w.e.f. 07-JAN-13
RISHI RAJ (32248),	w.e.f. 07-JAN-13
KSHITIJ (32249),	w.e.f. 07-JAN-13
ABHINAV KUMAR ACHARYA (32247),	w.e.f. 07-JAN-13
SAJAL SHYAM SINGH (32251),	w.e.f. 07-JAN-13
SUSHANT KUMAR SHARMA (32244),	w.e.f. 07-JAN-13

AE(L)BRANCH

VAIBHAV SHARMA (32270),	w.e.f. 07-JAN-13
GURAASIS SINGH (32273),	w.e.f. 07-JAN-13
PRATHMESH JAIN (32275),	w.e.f. 07-JAN-13
BRISTOW THANKACHAN (32266),	w.e.f. 07-JAN-13
ARVIND KUMAR KADIAN (32363),	w.e.f. 07-JAN-13
SHIKHAR AGRAWAL (32263),	w.e.f. 07-JAN-13
INDERR SETIA (32292),	w.e.f. 07-JAN-13
HIMANSHU BHANDARI (32300),	w.e.f. 07-JAN-13
SHANKAR VIGNESH (32279),	w.e.f. 07-JAN-13
ABHINAV ARUN PARASHAR (32256),	w.e.f. 07-JAN-13
ABHIMANYU SINGH (32293),	w.e.f. 07-JAN-13
MANISH YADAV (32287),	w.e.f. 07-JAN-13
SIDDHARTH TRIPATHI (32260),	w.e.f. 07-JAN-13
ANURAG KUMAR SINGH (32264),	w.e.f. 07-JAN-13
VIVEK KUMAR (32274),	w.e.f. 07-JAN-13
MANISH ARORA (32280),	w.e.f. 07-JAN-13
ARUN YADAV (32302),	w.e.f. 07-JAN-13
PRAVESH SHARMA (32265),	w.e.f. 07-JAN-13
SREERAJ RAJAN (32282),	w.e.f. 07-JAN-13
ANKIT SATIJA (32257),	w.e.f. 07-JAN-13
M SRI RAGHU VAMSI (32301),	w.e.f. 07-JAN-13
SARVJIT SINGH (32267),	w.e.f. 07-JAN-13
ABHIJIT SURESH PATIL (32272),	w.e.f. 07-JAN-13
ASHUTOSH VERMA (32277),	w.e.f. 07-JAN-13
RANJITH ASAITHAMBI (32295),	w.e.f. 07-JAN-13
SANJAY SINGH CHAUHAN (32258),	w.e.f. 07-JAN-13
SUBHAJIT MAJUMDAR (32255),	w.e.f. 07-JAN-13

LOKESH S (32269),	w.e.f. 07-JAN-13
ANKUSH RAJPUT (32276),	w.e.f. 07-JAN-13
KRIPAL CHAUDHARY (32297),	w.e.f. 07-JAN-13
VINAY ATTRI (32288),	w.e.f. 07-JAN-13
DABBIRU RAVI (32291),	w.e.f. 07-JAN-13
SUMIT GAHLAWAT (32268),	w.e.f. 07-JAN-13
SANTOSH MANI (32298),	w.e.f. 07-JAN-13
ROHIT GUPTA (32281),	w.e.f. 07-JAN-13
ROHIT (32296),	w.e.f. 07-JAN-13
AVNISH KUMAR SINGH (32262),	w.e.f. 07-JAN-13
SHIVA (32259),	w.e.f. 07-JAN-13
AMIT GUPTA (32286),	w.e.f. 07-JAN-13
SUDHANSHU TYAGI (32294),	w.e.f. 07-JAN-13
NAVIN KUMAR SINGH (32252),	w.e.f. 07-JAN-13
ANAND KUMAR JHA (32744),	w.e.f. 07-JAN-13
L PRAVEEN KUMAR (32253),	w.e.f. 07-JAN-13
SIBY CHRIS MATHEW (32285),	w.e.f. 07-JAN-13
PRASHANT KOCHHAR (32290),	w.e.f. 07-JAN-13
EBIN FRANCIS (32299),	w.e.f. 07-JAN-13
ASIF NAZIR BEG (32261),	w.e.f. 07-JAN-13
NINAD ANJALI WAMAN (32254),	w.e.f. 07-JAN-13
DHARMAGYA SINGH (32743),	w.e.f. 07-JAN-13
RAHUL DAHIYA (32289),	w.e.f. 07-JAN-13
VIRENDRA PRATAP SINGH (32284),	w.e.f. 07-JAN-13

ADM BRANCH

SRIKANT MADGI (31798),	w.e.f. 18-JUN-13
------------------------	------------------

F(P) BRANCH

S KUMAR (31888),	w.e.f. 25-JUN-13
TEJAS KAWALE (31742),	w.e.f. 18-JUN-13

F(N) BRANCH

A SRIVASTAVA (31867),	w.e.f. 18-JUL-13
-----------------------	------------------

F(P) BRANCH

RAJINDER SINGH (31819),	w.e.f. 18-JUN-13
AV SINGH (31825),	w.e.f. 18-JUN-13
SRINATH S (31827),	w.e.f. 18-JUN-13
A T MANCHEKAR (31826),	w.e.f. 18-JUN-13

AE(M) BRANCH

SUMIT GOEL (31894),	w.e.f. 02-JUL-12
ADITYA NARAYAN SINGH (31895),	w.e.f. 02-JUL-12

AE(L) BRANCH

NARENDHIRAN SARGUNAM(31916),	w.e.f. 02-JUL-12
LOVE GOYAL (31917),	w.e.f. 02-JUL-12
VIVEK CHAUHAN (31904),	w.e.f. 02-JUL-12
DENNIS JOHN (31918),	w.e.f. 02-JUL-12
PRIYAM VARSHENEY (31907)	w.e.f. 02-JUL-12
PRAVEEN HOODA (31908)	w.e.f. 02-JUL-12
CHINMAY KIRAN TALHAR (31911)	w.e.f. 02-JUL-12
AJAY KUMAR (31930)	w.e.f. 02-JUL-12
VIKASH KUMAR YADAV (31934)	w.e.f. 02-JUL-12
SHAH NAWAZ ALAM (31912)	w.e.f. 02-JUL-12
ABHISHEK TRIPATHI (31909)	w.e.f. 02-JUL-12
NAJEEV KUMAR SHARMA (31927)	w.e.f. 02-JUL-12
SAURAV GUPTA (32020)	w.e.f. 02-JUL-12
DEEPIKA (33104),	w.e.f. 07-JAN-15

F(P) BRANCH

S JAISWAL (32779),	w.e.f. 15-DEC-14
--------------------	------------------

PS SURANGES
Wing Commander
Joint Director
Personnel Offrs - 3 (D)

AIR FORCE

No.115, dated 5th May 2017— The President is pleased to make the following Substantive Promotions :—

INDIAN AIR FORCE

FLT LT TO BE SUBSTANTIVE SQN LDR

F(P) BRANCH

ALKA SHUKLA (29291),	w.e.f. 15-DEC-12
ILA ANOOP (29287),	w.e.f. 15-DEC-12
DEEPIKA MISHRA (29283),	w.e.f. 15-DEC-12
NEHA JAISWAL (29285),	w.e.f. 15-DEC-12
MONA JAKHAR (29284),	w.e.f. 15-DEC-12
EKTA GANDHI (29289),	w.e.f. 15-DEC-12
D DAS (29286),	w.e.f. 15-DEC-12
S BALYAN (29288),	w.e.f. 15-DEC-12

T K KHARE
Wing Commander
Joint Director
Personnel Offrs - 3 (D)

AIR BRANCH

No. 116, dated 8th May 2017—The President of India is pleased to make the following promotions:—

(JWOs to Sub WOs)

SER NO	RANK	NAME	TRADE	SUB RANK DATE
693432	WO	PADAM SINGH	ACH GD	01-JAN-16
694621	WO	SURENDER SINGH	ACH GD	01-JAN-16
701756	WO	MOOLCHAND	ACH GD	01-JAN-16
702685	WO	MOHD SHARFUDDIN	ACH GD	01-JAN-16
702705	WO	UTTAM HALDER	ACH GD	01-JAN-16
701467	WO	DINESH KUMAR SHARMA	ACH GD	03-JAN-16
701193	WO	RAMESH PRASAD	ACH GD	05-JAN-16
701942	WO	RAMKARAN SHEKAM	ACH GD	05-JAN-16
706317	WO	RISHPAL SINGH	ACH GD	05-JAN-16
702373	WO	SULTAN SAJID KHAN	ACH GD	07-JAN-16
701695	WO	SHIV GANESH	ACH GD	09-JAN-16
702006	WO	PAWAN KUMAR AGRAHARI	ACH GD	11-JAN-16
702651	WO	GEORGE VARGHESE	ACH GD	02-MAR-16
725978	WO	SATBIR SINGH	ACH GD	02-MAR-16
725632	WO	RAJENDRA SINGH	ACH GD	01-MAY-16
703009	WO	RAGHVENDRA MALIK	ACH GD	02-JUN-16
703797	WO	DESH RAJ YADAV	ACH GD	02-JUN-16
736757	WO	SIDHARTHA SANKAR ROY	ACH GD	02-JUL-16
694040	WO	V DAMODARAN	ACH GD	04-JUL-16
685798	WO	RAM JEET	ADSO	01-JAN-16
705737	WO	UMA SHANKAR YADAV	ADSO	01-JAN-16
706483	WO	RAMJI YADAV	ADSO	01-JAN-16
715065	WO	MANOHER SINGH SOLANKI	ADSO	01-JAN-16
715371	WO	SURO SINGHA	ADSO	01-JAN-16
706485	WO	ANIL KUMAR SHARMA	ADSO	03-JAN-16
686293	WO	PRADIP KUMAR MAZI	ADSO	05-JAN-16
706472	WO	L SRIDHARA	ADSO	05-JAN-16
686441	WO	SHYAM SUNDAR YADAV	ADSO	03-JUN-16
707881	WO	CHIRANJIVI SHUKLA	ADSO	03-JUN-16
715190	WO	NARENDRA PAL SINGH	ADSO	03-JUN-16
715831	WO	MUKUND MADHAW ROY	ADSO	03-JUN-16
685302	WO	SURENDRA PAL SINGH	ADSO	05-JUN-16
708221	WO	AHMAD REYAZ SALEEM	ADSO	05-JUN-16
740244	WO	AKSHAYA KUMAR PRADHAN	ADSO	05-JUN-16
740356	WO	HEMANTA KUMAR KARAN	ADSO	07-JUN-16
708216	WO	RAM KISHOR ROY	ADSO	09-JUN-16

662576	WO	ABDUL WAHAB	AF FIT	06-JAN-16
662649	WO	SURYA BHAN SINGH	AF FIT	06-JAN-16
666039	WO	TEJ PRATAP	AF FIT	06-JAN-16
666185	WO	VINOD KUMAR HARIJAN	AF FIT	06-JAN-16
666649	WO	KARN PAL SINGH	AF FIT	06-JAN-16
667426	WO	NARENDRA KUMAR	AF FIT	06-JAN-16
667699	WO	METAKARI KUNDALIK TUKARAM	AF FIT	06-JAN-16
667904	WO	RAM NARESH	AF FIT	06-JAN-16
668703	WO	ASHOK KUMAR	AF FIT	06-JAN-16
668891	WO	SUDARSAN BEHERA	AF FIT	06-JAN-16
676023	WO	NARESH KUMAR	AF FIT	06-JAN-16
676506	WO	KANAI CHANDRA PAL	AF FIT	06-JAN-16
676749	WO	RADHE SHYAM SINGH	AF FIT	06-JAN-16
676814	WO	SHIV RAJ SINGH	AF FIT	06-JAN-16
677099	WO	ANGAD PRASAD MISHRA	AF FIT	06-JAN-16
677217	WO	SHRI BHAGWAN SINGH	AF FIT	06-JAN-16
677588	WO	ISHWAR SINGH YADAV	AF FIT	06-JAN-16
677680	WO	SUKUMAR ROY	AF FIT	06-JAN-16
677791	WO	JEETENDR BAHADUR SINGH	AF FIT	06-JAN-16
677806	WO	AMAR NATH TRIVEDI	AF FIT	06-JAN-16
678508	WO	BALWANT SINGH	AF FIT	06-JAN-16
678728	WO	BHARAM YADAV	AF FIT	06-JAN-16
678970	WO	PRAMENDRA KUMAR	AF FIT	06-JAN-16
679397	WO	BINAY KUMAR TIWARI	AF FIT	06-JAN-16
679410	WO	NAVIN KUMAR JHA	AF FIT	06-JAN-16
679986	WO	SURENDRA NATH	AF FIT	06-JAN-16
695253	WO	MANAS RANJAN PAUL	AF FIT	06-JAN-16
695979	WO	ASHOK KUMAR SHARMA	AF FIT	06-JAN-16
696183	WO	BAITULLA HOSSAIN MALLICK	AF FIT	06-JAN-16
696423	WO	BRAJ BALLABH PARASHAR	AF FIT	06-JAN-16
696502	WO	VIR SINGH	AF FIT	06-JAN-16
696987	WO	DINESH KUMAR SINGH	AF FIT	06-JAN-16
697185	WO	RAVI RANJAN PANDEY	AF FIT	06-JAN-16
697855	WO	SAMARESH CHAKRABORTY	AF FIT	06-JAN-16
667884	WO	BIRENDRA SINGH	AF FIT	08-JAN-16
696076	WO	VIJAY KUMAR	AF FIT	10-JAN-16
696243	WO	RAJESH KUMAR	AF FIT	10-JAN-16
696752	WO	DHANESH PAL SINGH	AF FIT	10-JAN-16
695716	WO	ABDUL AHAD	AF FIT	12-JAN-16
695173	WO	OMPAL SINGH	AF FIT	14-JAN-16

696567	WO	ANIL KUMAR	AF FIT	14-JAN-16
697889	WO	SUNIL THOMAS KAYATHINKARA	AF FIT	14-JAN-16
696836	WO	BHOOPENDRA NATH MISHRA	AF FIT	16-JAN-16
697077	WO	RAM MILAN	AF FIT	16-JAN-16
697079	WO	ARVIND KUMAR	AF FIT	16-JAN-16
697212	WO	DIBYAJYOTI HANDIQUE	AF FIT	16-JAN-16
661880	WO	KAMALESH KUMAR MISHRA	AF FIT	18-JAN-16
697201	WO	PRABHAKAR PRAKASH LOHANI	AF FIT	18-JAN-16
665923	WO	RAJ BIR SINGH	AF FIT	20-JAN-16
698121	WO	SHAM SINGH CHIB	AF FIT	22-JAN-16
697810	WO	SANJAY KUMAR SINGH	AF FIT	01-FEB-16
696475	WO	RAMAN KAUSHIK	AF FIT	03-FEB-16
697977	WO	PRADIP BARMAN	AF FIT	03-FEB-16
699606	WO	ABHAY KUMAR MISHRA	AF FIT	02-APR-16
729934	WO	RAJIB KUMAR BISWAS	AF FIT	02-APR-16
730010	WO	CP BABU	AF FIT	02-APR-16
730787	WO	INDRA BHUSHAN JHA	AF FIT	02-APR-16
730856	WO	OMPARKASH MALIK	AF FIT	02-APR-16
731094	WO	ANIL KUMAR SHARMA	AF FIT	02-APR-16
731500	WO	RAM PROKASH DUBEY	AF FIT	02-APR-16
732324	WO	RAJENDRA SINGH	AF FIT	02-APR-16
696378	WO	MADAN GOPAL	AF FIT	01-MAY-16
728409	WO	SATISH KUMAR	AF FIT	01-MAY-16
736009	WO	PRONOB KR DAS	AF FIT	01-MAY-16
736229	WO	VIJAY SINGH SENGAR	AF FIT	01-JUN-16
765287	WO	SUNIL KUMAR	AF FIT	01-JUN-16
667526	WO	VIR PAL	AF FIT	04-JUN-16
765654	WO	UDAIVER SINGH	AF FIT	04-JUN-16
696262	WO	ROHTASH SINGH	AFSO	02-JAN-16
696973	WO	ASHOK KUMAR TIWARI	AFSO	02-JAN-16
678212	WO	MUNINDRA LAHKAR	AFSO	04-JAN-16
696329	WO	SATYAVIR SINGH	AFSO	06-JAN-16
695117	WO	RAGHVENDRA SINGH BHADAURIA	AFSO	02-APR-16
695147	WO	PRADOSH KUMAR PADHY	AFSO	02-APR-16
695793	WO	UMESH KUMAR CHAWLA	AFSO	02-APR-16
696624	WO	RAJINDER KUMAR BHAGTAR	AFSO	04-APR-16
705915	WO	SHEO NATH THAKUR	AFSO	02-MAY-16
721113	WO	P V NARESH KUMAR	AFSO	02-JUN-16
679606	WO	SOLOMON CHRISTOPER HENRY	AFSO	05-JUN-16
720841	WO	SABU T L	AFSO	05-JUN-16

700935	WO	OM SHANKAR	CAT ASST	03-NOV-15
701291	WO	MANOJ KUMAR	CAT ASST	03-NOV-15
702377	WO	NOP SINGH	CAT ASST	05-NOV-15
701294	WO	ANJANI KUMAR DUBEY	CAT ASST	07-NOV-15
700630	WO	NARENDRA KUMAR	CAT ASST	03-FEB-16
736509	WO	RAMAKANT CHATURVEDI	CAT ASST	03-MAR-16
721194	WO	RAMNIWAS	CAT ASST	03-JUN-16
674377	WO	KAPIL DEO SINGH	CLK ACCTS	02-JUL-16
693881	WO	DEVEN DER KUMAR	CLK ACCTS	02-JUL-16
693894	WO	RAJENDRA KUMAR JOSHI	CLK ACCTS	02-JUL-16
694541	WO	MUKESH CHADHA	CLK ACCTS	02-JUL-16
694730	WO	TARUN KUMAR MITRA	CLK ACCTS	02-JUL-16
700552	WO	BANWARI LAL ATTRI	CLK ACCTS	02-JUL-16
700689	WO	ANAND DEO SINGH	CLK ACCTS	02-JUL-16
701940	WO	GURDIAL SINGH SAINI	CLK ACCTS	02-JUL-16
701111	WO	SATYA PRAKASH SHARMA	CLK ACCTS	04-JUL-16
702581	WO	JAIVEER VASHIST	CLK ACCTS	06-JUL-16
729620	WO	RAVINDRA KUMAR	CLK ACCTS	08-JUL-16
735770	WO	KISHORE KUMAR DAS	CLK ACCTS	08-JUL-16
704995	WO	BAL RAM SAINI	CLK ACCTS	10-JUL-16
700648	WO	NITYA NAND OJHA	CLK GD	03-OCT-15
700880	WO	JAYNARAYANA BEHERA	CLK GD	03-OCT-15
700962	WO	RAKESH PANDEY	CLK GD	03-OCT-15
701211	WO	SHYAM SHANKER MISHRA	CLK GD	03-OCT-15
701261	WO	SANJAY KUMAR CHOUDHARY	CLK GD	03-OCT-15
701331	WO	HUSSINE A	CLK GD	03-OCT-15
701496	WO	MIHIR KUMAR DAS	CLK GD	03-OCT-15
702262	WO	RAJESH KUMAR	CLK GD	08-NOV-15
702664	WO	SRIKANTH MALLI	CLK GD	08-NOV-15
702724	WO	BALARAM MOHANTY	CLK GD	08-NOV-15
701038	WO	DHARMENDAR SINGH CHOWDHARY	CLK GD	01-JAN-16
701815	WO	RAJKUMAR SINGH TOMAR	CLK GD	01-JAN-16
702520	WO	SATISH KUMAR SHARMA	CLK GD	01-JAN-16
700672	WO	CHITTRANJAN KUMAR	CLK GD	03-JAN-16
693966	WO	DHARMESH KUMAR SHARMA	CLK GD	05-JAN-16
700408	WO	DINESH YADAV	CLK GD	05-JAN-16
700550	WO	SHERPAL SINGH	CLK GD	07-JAN-16
700635	WO	NITAI SAHA	CLK GD	01-MAR-16
700669	WO	MANOJ KUMAR CHOUDHURY	CLK GD	01-MAR-16
701246	WO	MITHILESH KUMAR SINGH	CLK GD	01-MAR-16

701499	WO	PITABAS PRADHAN	CLK GD	01-MAR-16
701627	WO	ASHOK KUMAR DHAMA	CLK GD	01-MAR-16
701951	WO	SUBRATA KUMAR DEY	CLK GD	01-MAR-16
702100	WO	KAUSHAL KISHORE SINGH	CLK GD	01-MAR-16
701420	WO	SUDIPTA SEN	CLK GD	03-MAR-16
701919	WO	PRASANT KUMAR TRIPATHY	CLK GD	03-MAR-16
702231	WO	BIPRADIP BANDYOPADHYAY	CLK GD	03-MAR-16
702519	WO	SANJIV KUMAR JAIN	CLK GD	03-MAR-16
725221	WO	PRADEEP ROCH FRANCIS	CLK GD	03-APR-16
727708	WO	DINESH KUMAR	CLK GD	03-APR-16
727734	WO	AMRIK SINGH SAINI	CLK GD	03-APR-16
728348	WO	BABUJI	CLK GD	03-APR-16
736375	WO	KOTHARI DEEPAK	CLK GD	03-APR-16
728360	WO	SHARMENDRA SINGH	CLK GD	05-APR-16
700920	WO	DINESH KUMAR SHARMA	CLK GD	01-JUL-16
702601	WO	MUTHIAH LAKSHMANAN	CLK GD	01-JUL-16
719650	WO	RAIBEER SINGH RAWAT	CLK GD	01-JUL-16
726260	WO	BRAJESH KUMAR	CLK GD	01-JUL-16
726375	WO	MANOJ KUMAR ROHAL	CLK GD	01-JUL-16
729636	WO	SURENDER SINGH DATHIK	CLK GD	01-JUL-16
737543	WO	SAJAN S P	CLK GD	03-JUL-16
701421	WO	SRIMANTA KUMAR KES	CLK GD	05-JUL-16
701915	WO	HADIRAM DOLAI	CLK GD	05-JUL-16
704565	WO	NARAYANAN NAIR BIJU	CLK GD	05-JUL-16
703301	WO	HAKIM SINGH	CRYPTO	03-JUL-15
715728	WO	RAM PRASAD TEWARY	CRYPTO	03-AUG-15
726176	WO	SHASHI KANT VERMA	CRYPTO	03-AUG-15
726334	WO	RAMESH CHAND	CRYPTO	03-SEP-15
718901	WO	DEBAPRASAD MAHAPATRA	CRYPTO	02-OCT-15
726860	WO	BINAYA KUMAR PANDA	CRYPTO	02-OCT-15
728510	WO	AMAR SINGH SAINI	CRYPTO	02-NOV-15
728584	WO	MD ISARAFIL ANSARI	CRYPTO	02-DEC-15
725152	WO	BIMAL KUMAR DAS	CRYPTO	02-JAN-16
726054	WO	PANKAJ KUMAR GUPTA	CRYPTO	03-APR-16
726352	WO	VIJAY KUMAR	CRYPTO	03-MAY-16
726376	WO	VINAY KUMAR	CRYPTO	03-MAY-16
774879	WO	GANGA PRASAD KHANDURI	EDN INSTR	02-JAN-16
796687	WO	SUNIL KUMAR TIWARI	EDN INSTR	02-JAN-16
796690	WO	DEVENDRA PRATAP SINGH	EDN INSTR	02-JAN-16
797411	WO	OMPAL PAREEK	EDN INSTR	02-JAN-16

797412	WO	AVESH TEVATIA	EDN INSTR	02-JAN-16
902028	WO	MANOJ KUMAR MOHANTY	EDN INSTR	02-JAN-16
901438	WO	TRIPATI PANIGRAHI	EDN INSTR	04-JAN-16
738810	WO	ABHIJEET SENGUPTA	EDN INSTR	03-FEB-16
774875	WO	PARRY GANESAN	EDN INSTR	03-APR-16
796112	WO	KIRAN KUMAR RAMBA	EDN INSTR	01-JUN-16
773610	WO	DITI KUMAR PANDEY	EDN INSTR	03-JUN-16
901441	WO	AKHILESH KUMAR SINGH	EDN INSTR	03-JUN-16
683297	WO	PRADEEP KUMAR ATTRI	ELECT FIT	02-OCT-09
683478	WO	VINOD KUMAR SINGH	ELECT FIT	02-OCT-09
683662	WO	VED PRAKASH	ELECT FIT	02-OCT-09
683663	WO	DEVI SHARAN SINGH	ELECT FIT	02-OCT-09
683820	WO	VEERANKI V SATYANARAYANA	ELECT FIT	02-OCT-09
683827	WO	JAIDEV SINGH	ELECT FIT	02-OCT-09
684236	WO	BIJENDRA SINGH	ELECT FIT	02-NOV-09
684238	WO	RAKESH KUMAR SHARMA	ELECT FIT	02-NOV-09
684307	WO	RAJ KUMAR SINGH	ELECT FIT	02-NOV-09
684283	WO	RAJEEV KUMAR TYAGI	ELECT FIT	02-DEC-09
684771	WO	PRADEEP KUMAR NAMDEV	ELECT FIT	02-DEC-09
690200	WO	JAI RAM SHERAWAT	ELECT FIT	02-DEC-09
681719	WO	JAMBESWAR SAHU	ELECT FIT	02-JAN-10
690564	WO	SHIV KUMAR SHARMA	ELECT FIT	02-JAN-10
690653	WO	AVNIT KUMAR SINGH	ELECT FIT	02-JAN-10
690794	WO	LAL BAHADUR YADAV	ELECT FIT	02-JAN-10
691323	WO	LALIT KUMAR SHARMA	ELECT FIT	02-FEB-10
691366	WO	NARENDRA KUMAR ATTRI	ELECT FIT	02-FEB-10
691464	WO	KULDEEP SINGH	ELECT FIT	02-FEB-10
691705	WO	ARUN KUMAR VERMA	ELECT FIT	02-FEB-10
691716	WO	RAJESH KUMAR	ELECT FIT	02-FEB-10
691950	WO	SHASHI DHAR DUBEY	ELECT FIT	02-FEB-10
692092	WO	SURESH PRASAD	ELECT FIT	02-FEB-10
683981	WO	DUSHYANT KUMAR TYAGI	ELECT FIT	02-MAR-10
629928	WO	ANIL KUMAR SINGH	ELECT FIT	02-MAY-10
680765	WO	ASHOK KUMAR PAL	ELECT FIT	02-MAY-10
681250	WO	RAMCHANDER BALHARA	ELECT FIT	02-MAY-10
683376	WO	AKHLASH GIRI GOSWAMI	ELECT FIT	02-MAY-10
684060	WO	LAL CHAND YADAV	ELECT FIT	02-MAY-10
684648	WO	KISHORE KUMAR TOMAR	ELECT FIT	02-MAY-10
685000	WO	KAILASH CHANDRA SAHOO	ELECT FIT	02-MAY-10
685227	WO	PARMANAND YADAV	ELECT FIT	02-MAY-10

685236	WO	DINESH BABU	ELECT FIT	02-MAY-10
685385	WO	ASHOK KUMAR ARAY	ELECT FIT	02-MAY-10
690822	WO	KESHAW PRASAD TRIPATHI	ELECT FIT	02-MAY-10
691334	WO	MOHAN PAL	ELECT FIT	02-MAY-10
705300	WO	MADAN MOHAN KUNDU	ELECT FIT	02-MAY-10
640827	WO	SURESH PRASAD YADAV	ELECT FIT	02-JUN-10
640933	WO	RAJESH KUMAR TYAGI	ELECT FIT	02-JUN-10
654915	WO	RAMNARESH	ELECT FIT	02-JUN-10
654946	WO	ANIL KUMAR	ELECT FIT	02-JUN-10
685604	WO	PRAVESH KUMAR SHARMA	ELECT FIT	02-JUN-10
685681	WO	ALOK BAHL	ELECT FIT	02-JUN-10
686232	WO	DEOLAL PRASAD SINGH	ELECT FIT	02-JUN-10
690092	WO	KULDIP CHAUDHARY	ELECT FIT	02-JUN-10
705278	WO	SATANDER KUMAR	ELECT FIT	02-JUN-10
705304	WO	MADHUSUDAN NATH TIWARI	ELECT FIT	02-JUN-10
681898	WO	BIRENDRA KUMAR SAH	ELECT FIT	02-APR-11
684963	WO	LAKHAN SINGH KUNTAL	ELECT FIT	02-APR-11
691840	WO	ROSHAN LAL SINGHAL	ELECT FIT	02-APR-11
691851	WO	PRAKASH SINGH RAWAT	ELECT FIT	02-APR-11
691910	WO	RAM KUMAR	ELECT FIT	02-APR-11
654700	WO	MALUP SINGH RANA	ELECT FIT	02-MAY-11
691706	WO	AKSHAI KUMAR DUBEY	ELECT FIT	02-MAY-11
705385	WO	KARAN SINGH	ELECT FIT	02-MAY-11
685968	WO	KANHAIYA MISHRA	ELECT FIT	02-JUN-11
705694	WO	RAM RATAN	ELECT FIT	02-JUN-11
666372	WO	KAMTA PRASAD	ENG FIT	02-JUL-15
667964	WO	GYAN PRAKASH KATIYAR	ENG FIT	02-JUL-15
669491	WO	GANESH SHANKER	ENG FIT	02-JUL-15
676987	WO	MANOJ KUMAR	ENG FIT	02-JUL-15
677802	WO	ARUN KUMAR SINGH	ENG FIT	02-JUL-15
677899	WO	SOM DUTT	ENG FIT	02-JUL-15
678160	WO	SATISH KUMAR	ENG FIT	02-JUL-15
675792	WO	MOTI LAL SHARMA	ENG FIT	10-JUL-15
675851	WO	JITENDRA KUMAR SHARMA	ENG FIT	02-AUG-15
695353	WO	RAJENDRA HARI PANDAY	ENG FIT	02-AUG-15
696469	WO	KRISHAN PAL	ENG FIT	02-AUG-15
696700	WO	SUBHASH CHANDRA TIWARI	ENG FIT	02-AUG-15
697407	WO	SAJIMON JOSEPH	ENG FIT	02-SEP-15
697509	WO	CHANDRASEKHAR V	ENG FIT	02-SEP-15
678644	WO	PRADEEP KUMAR SHARMA	ENG FIT	02-OCT-15

696960	WO	SAHAB YADAVA	ENG FIT	02-OCT-15
695735	WO	MANIK CHANDRA MISHRA	ENG FIT	02-NOV-15
696656	WO	JAI BHAGWAN	ENG FIT	02-NOV-15
696738	WO	SON PAL SINGH	ENG FIT	02-DEC-15
697218	WO	VINOD KUMAR UPADHYAY	ENG FIT	02-DEC-15
697809	WO	RAMA NATH JHA	ENG FIT	02-DEC-15
678118	WO	INDRA DEO PRASAD SINGH	ENG FIT	04-DEC-15
696256	WO	BINAY KUMAR	ENG FIT	06-DEC-15
696191	WO	PARTHA PRATIM SINHA	ENG FIT	02-JAN-16
696483	WO	SHUBH KARN PANDEY	ENG FIT	02-JAN-16
697030	WO	ANIL KUMAR T S	ENG FIT	02-JAN-16
697375	WO	AJIT SINGH YADAV	ENG FIT	02-JAN-16
728103	WO	DIBYENDU SATPATI	ENG FIT	02-JAN-16
728249	WO	BALKRISHNA ROY	ENG FIT	02-JAN-16
731446	WO	KITAB SINGH SHARMA	ENG FIT	02-JAN-16
728296	WO	SANJAY PATHAK	ENG FIT	02-FEB-16
730904	WO	DINESH PATHAK	ENG FIT	02-FEB-16
765099	WO	UMESH KUMAR RAMAN	ENG FIT	02-FEB-16
765104	WO	SACHIDANAND YADAV	ENG FIT	02-FEB-16
765151	WO	PANDURU SREEN BABU RAO	ENG FIT	02-FEB-16
765854	WO	BIJAYA KUMAR KHUNTIA	ENG FIT	02-FEB-16
765420	WO	RADHE SHYAM MAHTO	ENG FIT	02-MAR-16
765435	WO	RAMESH CHANDRA PRASAD	ENG FIT	02-MAR-16
765492	WO	VINOD TRILOKYAMANGALAM VARIEM	ENG FIT	02-MAR-16
662246	WO	RAVINDRA NATH SINGH	ENG FIT	02-APR-16
667952	WO	HRIDAYA NAND PRASAD	ENG FIT	02-APR-16
669687	WO	DILIP KUMAR	ENG FIT	02-APR-16
695810	WO	PARMESWAR	ENG FIT	02-APR-16
732296	WO	SOMVEER SINGH	ENG FIT	02-APR-16
765113	WO	P KULASEKAR	ENG FIT	02-APR-16
693624	WO	VINOD KUMAR VERMA	EQPT ASST	02-JUL-15
700182	WO	SAMADER SINGH RATHORE	EQPT ASST	02-JUL-15
700770	WO	SUBHAS CHANDRA SAMANTA	EQPT ASST	02-JUL-15
700945	WO	BHAUPRTAP SINGH JADON	EQPT ASST	02-JUL-15
701518	WO	CHAND SINGH DAHIYA	EQPT ASST	02-JUL-15
701680	WO	ANILENDRA PARASHAR	EQPT ASST	02-JUL-15
701681	WO	KRISHAN KUMAR TYAGI	EQPT ASST	02-JUL-15
702142	WO	RAM KUMAR PRASAD	EQPT ASST	02-JUL-15
693985	WO	SHER ALI	EQPT ASST	02-AUG-15
694443	WO	JAICHAND	EQPT ASST	02-AUG-15

700524	WO	RAM KRISHNA	EQPT ASST	02-SEP-15
701102	WO	BHAVESH CHAND	EQPT ASST	02-SEP-15
701183	WO	SITARAM	EQPT ASST	02-SEP-15
701232	WO	BRIJ MOHAN SINGH	EQPT ASST	02-SEP-15
694223	WO	SHIV JEE RAI	EQPT ASST	02-NOV-15
701587	WO	ANIRUDDHA CHANDRA	EQPT ASST	02-NOV-15
701770	WO	SAHAB SINGH	EQPT ASST	02-NOV-15
702011	WO	DIPAK KR DEY	EQPT ASST	04-NOV-15
693274	WO	BRIJ BHUSHAN BHATLA	EQPT ASST	02-JAN-16
693330	WO	SAT PARKASH VERMA	EQPT ASST	02-JAN-16
694548	WO	GURBAKASH SINGH	EQPT ASST	02-JAN-16
694555	WO	ASHOK KUMAR SINGH	EQPT ASST	02-JAN-16
694571	WO	KARUNA SHANKER TRIPATHI	EQPT ASST	02-JAN-16
700297	WO	ASHOK KUMAR	EQPT ASST	02-JAN-16
700707	WO	SHIVPUJAN PRASAD	EQPT ASST	02-JAN-16
701078	WO	VIRENDER KUMAR	EQPT ASST	02-JAN-16
701655	WO	SATYAVIR SINGH VERMA	EQPT ASST	02-JAN-16
702041	WO	KARAMBEER SINGH	EQPT ASST	02-JAN-16
702548	WO	DALBIR SINGH MANN	EQPT ASST	02-JAN-16
702709	WO	SUJIT RANJAN DAS	EQPT ASST	02-JAN-16
693948	WO	KIRPA RAM SHARMA	EQPT ASST	02-FEB-16
700845	WO	RADHAKRISHNAN K B	EQPT ASST	02-FEB-16
701081	WO	KHAJAN SINGH	EQPT ASST	02-FEB-16
701146	WO	NARESH KUMAR	EQPT ASST	02-FEB-16
701638	WO	MUKESH KUMAR	EQPT ASST	02-FEB-16
701674	WO	RAKESH KUMAR VATS	EQPT ASST	02-FEB-16
702025	WO	GOUTAM SAHA	EQPT ASST	02-FEB-16
702239	WO	NAFE SINGH	EQPT ASST	02-FEB-16
702738	WO	ARUN KUMAR SUKLA	EQPT ASST	02-FEB-16
736990	WO	KAMAL KUMAR SINGH	EQPT ASST	02-FEB-16
704065	WO	MUKESH KUMAR YADAV	EQPT ASST	02-APR-16
726655	WO	KALLURI LAKSHMINARASIMHA RAO	EQPT ASST	02-APR-16
727439	WO	SATISH KUMAR	EQPT ASST	02-APR-16
727621	WO	P PADMA CHARAN PATRA	EQPT ASST	02-APR-16
727705	WO	KAMLENDRA SINGH	EQPT ASST	02-APR-16
728491	WO	RAJKUMAR ARORA	EQPT ASST	02-APR-16
735610	WO	SUDHIR SHARMA	EQPT ASST	02-APR-16
737286	WO	RAKESH RANJAN	EQPT ASST	02-APR-16
725227	WO	MAN MOHAN SINGH RAWAT	EQPT ASST	02-MAY-16
728522	WO	KAVETI VENKATA RAM MAHESWAR	EQPT ASST	02-MAY-16

735138	WO	HARISH KUMAR	EQPT ASST	02-MAY-16
736653	WO	SANTOSH KUMAR SINGH	EQPT ASST	02-MAY-16
737259	WO	SANJEEV KUMAR	EQPT ASST	02-MAY-16
737295	WO	ANIL KUMAR YADAV	EQPT ASST	02-JUN-16
737578	WO	GAEKWAD NARESH BHAGWAN	EQPT ASST	02-JUN-16
768544	WO	RANJIT KUMAR	FLT ENG	03-AUG-15
768585	WO	KALINGA RANJAN PRADHAN	FLT ENG	03-AUG-15
768582	WO	DEVENDRA NATH ROY	FLT ENG	01-SEP-15
775134	WO	EBY VARGHESE	FLT ENG	01-SEP-15
775161	WO	BIJU DEVASIA	FLT ENG	01-SEP-15
769281	WO	ALOK KUMAR ROY	FLT ENG	04-DEC-15
769833	WO	KARAMALA SREENIVASACHARY	FLT ENG	04-DEC-15
775154	WO	BIJU THOMAS	FLT ENG	04-DEC-15
767306	WO	AJAI KUMAR SHARMA	FLT ENG	28-MAR-16
775136	WO	SATISH KUMAR SINGH	FLT ENG	28-MAR-16
775206	WO	KEZHOLIKAL M S K	FLT ENG	28-MAR-16
776130	WO	ANIL KUMAR BAJPAI	FLT ENG	28-MAR-16
775520	WO	RAMDEEN PRAJAPAT	FLT ENG	01-APR-16
776146	WO	VUPPUNUTULA MOHAN RAJ	FLT ENG	03-APR-16
768951	WO	OMPRAKASH MAURYA	FLT ENG	02-JUL-16
769018	WO	AJAY KUMAR JAISWAL	FLT ENG	02-JUL-16
775508	WO	RAJARSHI PANDEY	FLT ENG	02-JUL-16
775543	WO	PRAKASH M	FLT ENG	02-JUL-16
776135	WO	GAGAN KUMAR SHAW	FLT ENG	02-JUL-16
766401	WO	PRAKASH O	FLT GUN	07-DEC-15
767421	WO	RAMENDRA KUMAR YADAV	FLT GUN	07-DEC-15
767425	WO	BHUWANESH CHANDRA DWIVEDI	FLT GUN	07-DEC-15
768079	WO	TEJMANI TIWARI	FLT GUN	07-DEC-15
769044	WO	SANTOSH KUMAR PATHAK	FLT GUN	07-DEC-15
769363	WO	ARUGADOSS PREM KUMAR	FLT GUN	07-DEC-15
769394	WO	MANOJ KUMAR DHUDASIA	FLT GUN	07-DEC-15
775663	WO	VEERESH KUMAR	FLT GUN	07-DEC-15
775955	WO	BISHNU CHARAN SAHOO	FLT GUN	07-DEC-15
776020	WO	JALAGAM DAYAKAR	FLT GUN	07-DEC-15
776485	WO	BHANWAR LAL	FLT GUN	07-DEC-15
775662	WO	DARSHAN KUMAR	FLT GUN	09-DEC-15
766387	WO	OM PRAKASH	FLT GUN	11-DEC-15
765196	WO	RAKESH KUMAR TRIPATHI	FLT GUN	02-AUG-16
766709	WO	MOHAN KISHOR THAKUR	FLT GUN	02-AUG-16
767433	WO	SOMASUNDARAN K T	FLT GUN	02-AUG-16

768082	WO	SATISH KUMAR	FLT GUN	02-AUG-16
775675	WO	RAMESH KUMAR SINGH	FLT GUN	02-AUG-16
775950	WO	JAGNARAYAN SHARMA	FLT GUN	02-AUG-16
775996	WO	NIHAR KUMAR ROUT	FLT GUN	02-AUG-16
671791	WO	RATNESHWAR JHA	GTI	01-JAN-16
736572	WO	JAGDEEP SINGH JASROTIA	GTI	01-JUL-16
737693	WO	SANJAY KUMAR YENEGURE	GTI	01-AUG-16
727803	WO	B HARI KRISHNAN	GTI(S)	01-NOV-15
736781	WO	HIRENDRA NATH SARDAR	GTI(S)	03-NOV-15
737093	WO	JASBIR SINGH	GTI(S)	01-JAN-16
739034	WO	JEROM KUJUR	GTI(S)	01-JAN-16
770007	WO	S S KISHOR	GTI(S)	03-JAN-16
770008	WO	NAVNEET MAHESHWARI	GTI(S)	01-JUL-16
770034	WO	SUNIL GOSWAMI	GTI(S)	01-JUL-16
706742	WO	ASHOK KUMAR	IAF (P)	10-SEP-15
706224	WO	BHOGEN德拉 JHA	IAF (P)	12-SEP-15
629286	WO	SUBHENDU MISRA	IAF (P)	02-FEB-16
705452	WO	SHIV CHARAN SHARMA	IAF (P)	02-FEB-16
706237	WO	RAVINDRA WILFRED DAS	IAF (P)	04-FEB-16
706007	WO	BIJOY KUMAR SHAW	IAF (P)	06-FEB-16
706338	WO	ANIL KUMAR SHARMA	IAF (P)	08-FEB-16
629671	WO	VIDYANAND YADAV	IAF (P)	02-JUL-16
705813	WO	JAIPAL SINGH	IAF (P)	02-JUL-16
706259	WO	VED PARKASH YADAV	IAF (P)	02-JUL-16
706678	WO	REVA SHANKAR SINGH	IAF (P)	02-JUL-16
725406	WO	VINOD KUMAR SINGH	IAF (P)	04-JUL-16
729543	WO	RAM NIWAS	IAF (P)	06-JUL-16
629670	WO	KARAMVIR YADAV	IAF (P)	08-JUL-16
725600	WO	RAJEEV KUMAR CHAUDHARY	IAF (P)	08-JUL-16
639022	WO	RAM RATAN RAJPUT	INST FIT	03-JUL-15
685677	WO	ROHATASH KUMAR MALIK	INST FIT	02-SEP-15
705666	WO	RAMKESWAR PRASAD	INST FIT	02-SEP-15
686316	WO	SANJAY KUMAR PRASHAR	INST FIT	01-NOV-15
706190	WO	ISTIYAQ AHAMED	INST FIT	01-NOV-15
686073	WO	MADAN LAL BORANA	INST FIT	02-DEC-15
705755	WO	TIRLOK CHAND	INST FIT	02-DEC-15
706905	WO	SUSANTA KUMAR SIT	INST FIT	04-DEC-15
685364	WO	OM PRAKASH VARMA	INST FIT	04-JAN-16
686268	WO	NARENDRA UPADHYAY	INST FIT	04-JAN-16
690853	WO	KRISHAN KUMAR DAHIYA	INST FIT	04-JAN-16

706887	WO	ARUN KAR	INST FIT	04-JAN-16
715401	WO	UMESH PRASAD TIWARI	INST FIT	04-JAN-16
690537	WO	RAM PRAKASH	INST FIT	03-MAR-16
706200	WO	BRAJESH KUMAR	INST FIT	03-MAR-16
708800	WO	SANTHOSH KUMAR C U N	INST FIT	05-MAR-16
686815	WO	SOMENATH DUTTA	INST FIT	03-APR-16
689011	WO	SAMPAD KUMAR ACHARYA	INST FIT	03-APR-16
709072	WO	AZAD SINGH	INST FIT	03-APR-16
689858	WO	UMESH KUMAR SINGH	INST FIT	02-MAY-16
760649	WO	SHIVASHRAY YADAV	INST FIT	02-MAY-16
686343	WO	BIRENDRA SINGH	INST FIT	02-JUN-16
655806	WO	ARUN KUMAR SINGH	MED ASST	02-NOV-15
656126	WO	BIREN KUMAR BHARALI	MED ASST	02-NOV-15
656200	WO	SYED AFROSE	MED ASST	02-NOV-15
656620	WO	ASOKAN THANDAYIL	MED ASST	02-NOV-15
656645	WO	OM PRAKASH SRIVASTAVA	MED ASST	02-NOV-15
656715	WO	ASHOK KUMAR	MED ASST	02-NOV-15
656987	WO	RAM TEERTH PATEL	MED ASST	02-NOV-15
710096	WO	ASHOK KUMAR DUTTABANIK	MED ASST	02-NOV-15
656789	WO	KARAN SINGH DHAMA	MED ASST	02-DEC-15
656828	WO	SANJEEV CHAUHAN	MED ASST	02-DEC-15
710073	WO	SANJAY CHAUDHARY	MED ASST	02-DEC-15
656923	WO	EBRARUL HAQQ KHAN	MED ASST	02-FEB-16
710131	WO	VISHNU MISHRA	MED ASST	02-FEB-16
656297	WO	UMESHWAR MISHRA	MED ASST	04-FEB-16
656810	WO	OM PARKASH KHATORE	MED ASST	04-FEB-16
656950	WO	SATYA NARAYAN PAUL	MED ASST	07-FEB-16
656974	WO	VIJAYA KUMAR	MED ASST	07-FEB-16
710093	WO	SUNIL KUMAR VIJAY	MED ASST	07-FEB-16
656822	WO	SURENDER KUMAR KAJAL	MED ASST	09-FEB-16
656530	WO	KORE PRAKASH BASALING	MED ASST	01-MAR-16
710030	WO	PREM PRAKASH GAUTAM	MED ASST	03-MAR-16
710076	WO	NARENDER KUMAR PHALSWAL	MED ASST	02-JUN-16
710138	WO	MRINMOY PRADHAN	MED ASST	02-JUN-16
710140	WO	RAJESH PRASAD	MED ASST	02-JUN-16
656446	WO	MANOJ KUMAR PRASAD	MED ASST	04-JUN-16
656541	WO	HARWENDER PAL	MED ASST	04-JUN-16
656840	WO	MANO KARNIKA MISHRA	MED ASST	06-JUN-16
656167	WO	RAKESH KUMAR KHANNA	MED ASST	02-AUG-16
656809	WO	AJAIB SINGH SAINI	MED ASST	02-AUG-16

710556	WO	SHYAM LAL SHAW	MED ASST	02-AUG-16
710631	WO	RAKESH KUMAR	MED ASST	02-AUG-16
628569	WO	RAM KANWAL VIRODHIYA	MET ASST	06-FEB-16
679514	WO	KAMAL PRASAD SHARMA	MET ASST	06-FEB-16
679643	WO	ROSHAN LAL VERMA	MET ASST	06-FEB-16
679692	WO	ATUL KUMAR MISHRA	MET ASST	06-FEB-16
679851	WO	ARVIND KUMAR SHARMA	MET ASST	06-FEB-16
692646	WO	ARUN KUMAR MISRA	MET ASST	06-FEB-16
697897	WO	JAI SINGH SINGHAL	MET ASST	06-FEB-16
698084	WO	RAMESH CHANDER SHEOKAND	MET ASST	06-FEB-16
697437	WO	ASIM KUMAR DUTTA	MET ASST	08-FEB-16
701728	WO	RAMGOPAL SAROHA	MET ASST	02-MAR-16
697378	WO	HAMBIR SINGH	MET ASST	01-MAY-16
698088	WO	SURESH KUMAR	MET ASST	01-MAY-16
720903	WO	PREM PRAKASH TIWARI	MET ASST	01-JUL-16
696330	WO	JOGINDER SINGH	MET ASST	03-JUL-16
695906	WO	SARVESH KUMAR TIWARI	MET ASST	05-JUL-16
695983	WO	LAXMAN SINGH SEERVI	MET ASST	05-JUL-16
755258	WO	UDAY PRASAD	MS FIT(E)	02-JUL-15
755279	WO	MANOJ KUMAR	MS FIT(E)	02-AUG-15
689337	WO	GAUTAM DHAR GUPTA	MS FIT(E)	02-APR-16
750010	WO	AMITABHA CHAKRABARTI	MS FIT(E)	02-APR-16
755244	WO	GURRAM BHANU MURTHY	MS FIT(E)	02-APR-16
755285	WO	SANTOSH KUMAR	MS FIT(E)	02-APR-16
755256	WO	DEEPAK KUMAR KHURANA	MS FIT(E)	02-JUN-16
755348	WO	MANOJ KUMAR SAHOO	MS FIT(L)	03-JUL-15
732301	WO	DEEPAK KUMAR	MS FIT(M)	02-OCT-15
732579	WO	SANJAY KUMAR AWASTHI	MS FIT(M)	02-OCT-15
732658	WO	SURENDRA KUMAR GUPTA	MS FIT(M)	02-OCT-15
750036	WO	RAJ KUMAR PANDEY	MS FIT(M)	04-OCT-15
732581	WO	AJAY PAL SINGH	MS FIT(M)	01-JUL-16
662680	WO	RAJENDER SINGH	MT FIT	02-MAY-13
668055	WO	BRIJESH KUMAR MISHRA	MT FIT	02-MAY-13
668613	WO	JITENDRA KUMAR TIWARI	MT FIT	02-MAY-13
669196	WO	HARI NARAYAN PANDEY	MT FIT	02-MAY-13
669697	WO	ASHOK KUMAR SINGH	MT FIT	02-MAY-13
669964	WO	MOOL CHAND JAT	MT FIT	02-MAY-13
675028	WO	MANJUNATHA	MT FIT	02-MAY-13
675328	WO	SOME NATH BANERJEE	MT FIT	02-MAY-13
675417	WO	OMBEER SINGH	MT FIT	02-MAY-13

675559	WO	DAYA SHANKAR SHAW	MT FIT	02-MAY-13
675574	WO	SUBRATA MOULICK	MT FIT	02-MAY-13
675866	WO	ASHOK KUMAR SINGH	MT FIT	02-MAY-13
678631	WO	PARVAN SINGH	MT FIT	01-DEC-13
678348	WO	NILE MOHAN DE	MT FIT	01-MAY-14
678362	WO	PEARI MOHAN CHATTOPADHYAY	MT FIT	01-JUN-14
676002	WO	UPENDRA KUMAR	MT FIT	02-JUL-14
677377	WO	TAPAS KUMAR SANTRA	MT FIT	04-JUL-14
662743	WO	JAWAHAR LAL	MT FIT	02-OCT-14
677829	WO	OM PRAKASH SINGH	MT FIT	02-OCT-14
662774	WO	MAN SINGH	MT FIT	04-OCT-15
662775	WO	DEVINDER KUMAR	MT FIT	04-OCT-15
668873	WO	SASHI BHUSAN Bhole	MT FIT	04-OCT-15
675340	WO	MANOJ KUMAR	MT FIT	04-OCT-15
676121	WO	RAJESHWAR SHAW	MT FIT	04-OCT-15
676443	WO	SRINIBAS CHANDRA MAHANA	MT FIT	04-OCT-15
677261	WO	NAR SINGH MALHAN	MT FIT	04-OCT-15
677279	WO	BALWAN SINGH VERMA	MT FIT	04-OCT-15
677587	WO	ASHOK KUMAR SHARMA	MT FIT	04-OCT-15
678080	WO	RAGHU KUL BHUSHAN	MT FIT	04-OCT-15
679993	WO	VISHNU DUTTA SARASWAT	MT FIT	04-OCT-15
695161	WO	SANTOSH KUMAR	MT FIT	04-OCT-15
731047	WO	HARSHAVARDHANAN K P	MT FIT	04-OCT-15
679974	WO	NARENDRA PRASAD	MT FIT	01-NOV-15
676249	WO	TUNG NATH TIWARI	MT FIT	01-JAN-16
675875	WO	KESHWAR NARAYAN PRASAD	MT FIT	01-FEB-16
676092	WO	SUSHIL KUMAR	MT FIT	01-FEB-16
676233	WO	RANJAN KUMAR	MT FIT	01-FEB-16
676753	WO	ASHOK KUMAR PANDEY	MT FIT	01-FEB-16
677252	WO	NARENDRA SINGH	MT FIT	01-FEB-16
677487	WO	DHAN PAL SHARMA	MT FIT	01-FEB-16
678497	WO	MADHU SUDAN	MT FIT	01-FEB-16
677525	WO	KASHMIRI LAL	MT FIT	03-FEB-16
623663	WO	RAGHUVeer SINGH SHEKHAWAT	MTD	25-SEP-15
627195	WO	SHIV SHANKAR TIWARI	MTD	25-SEP-15
629371	WO	LOKESH KUMAR MATHUR	MTD	25-SEP-15
627776	WO	DHARAM VIR SINGH	MTD	27-SEP-15
706382	WO	ASIM PAL	MTD	27-SEP-15
627721	WO	BRIJENDRA SINGH	MTD	03-OCT-15
628581	WO	SAWRANJEET SINGH	MTD	03-OCT-15

628816	WO	CHANDRA KUMAR BAJPAI	MTD	03-OCT-15
629138	WO	DALIP KUMAR YADAV	MTD	03-OCT-15
705633	WO	GANPAT GANESH	MTD	03-OCT-15
629697	WO	PARKASH VIR	MTD	01-NOV-15
629744	WO	SHIBA PRASAD SAHOO	MTD	01-NOV-15
629834	WO	RAJESH DHAR DUBEY	MTD	01-NOV-15
705137	WO	KAUSHAL KISHOR SINGH	MTD	01-JAN-16
705245	WO	JAI SINGH	MTD	01-JAN-16
627634	WO	PRAKASH KUMAR DUTTA	MTD	01-FEB-16
629755	WO	RAVI K	MTD	01-FEB-16
705532	WO	RAJESH KUMAR KAUSHIK	MTD	01-FEB-16
705819	WO	SAJIMON THOMAS	MTD	01-FEB-16
706028	WO	SUKUMAR NAYEK	MTD	01-FEB-16
706322	WO	VIPAN KUMAR SODHI	MTD	01-FEB-16
706339	WO	OMPRAKASH VAISHNAV	MTD	01-FEB-16
706358	WO	SATYA DEV YADAV	MTD	01-FEB-16
706613	WO	JAI BHAGWAN	MTD	01-FEB-16
628861	WO	GHANESHWAR PRASAD YADAV	MTD	01-MAR-16
629319	WO	BALJIT SINGH DHONCHK	MTD	01-MAR-16
629440	WO	SUSHIL KUMAR PAL	MTD	01-MAR-16
629699	WO	IMAN KUMAR SUREDIYA	MTD	01-MAR-16
629815	WO	KAMALESH KUMAR MAHARSHI	MTD	01-MAR-16
706340	WO	BHANWAR LAL CHAUDHARY	MTD	01-MAR-16
706370	WO	VIJAY PAL	MTD	01-MAR-16
706602	WO	PANKAJ KUMAR TYAGI	MTD	01-MAR-16
628869	WO	ARUN KUMAR GUJAR	MTD	01-APR-16
629805	WO	MALIK RAM SOLANKI	MTD	01-APR-16
705005	WO	V B VASU DEVACHARYULU	MTD	01-APR-16
705072	WO	ASHOK KUMAR SHARMA	MTD	01-APR-16
706244	WO	SANDEEP	MTD	01-APR-16
629459	WO	BALJEET SINGH	MTD	03-MAY-16
721278	WO	NARINDER KUMAR	MTD	03-MAY-16
721597	WO	YASHPAL SINGH	MTD	03-MAY-16
722460	WO	SANTHOSH MANAT	MTD	03-MAY-16
721561	WO	GULAB SINGH	MTD	03-JUN-16
721858	WO	RAJ KUMAR BADHAN	MTD	03-JUN-16
722510	WO	RAJU SINGH	MTD	03-JUN-16
722554	WO	TUSHAR KANTA BARIK	MTD	03-JUN-16
629717	WO	SUDESH PAL	MTD	02-AUG-16
720967	WO	ALOK CHAUDHARY	MTD	02-AUG-16

721294	WO	SHRICHAND SINGH YADAV	MTD	02-AUG-16
721322	WO	UTPAL CHAKRABORTI	MTD	02-AUG-16
629513	WO	BHAJAN KUMAR DAS	MUSN	01-JUL-16
689481	WO	RAJESH KUMAR UPADHYAY	PHOTO FIT	03-SEP-15
689464	WO	MD. TAUQUIR AHMAD	PHOTO FIT	01-FEB-16
689517	WO	KRISHAN CHANDER KAUSHIK	PHOTO FIT	01-FEB-16
723977	WO	SURENDRA KUMAR SINGH CHAUHAN	PJI	02-JUL-15
739605	WO	ABHIMANYU MOHAPATRA	PJI	02-JUL-15
704271	WO	SURENDER SINGH	PJI	03-SEP-15
702977	WO	MAHAR SINGH PUNDIR	PJI	05-SEP-15
683458	WO	RAMBABU MAURYA	RAD FIT	18-JAN-11
683512	WO	ANUPAM RATURI	RAD FIT	18-JAN-11
683880	WO	SHIV NARAIN KAUSHAL	RAD FIT	18-JAN-11
684520	WO	ALAK KANTI MOOKHERJEE	RAD FIT	18-JAN-11
684844	WO	KRISHNAN KALLINGAL LAKSHMANAN	RAD FIT	18-JAN-11
690234	WO	VISHNU BHAGWAN UPMANYU	RAD FIT	18-JAN-11
690335	WO	VINOD KUMAR TOMAR	RAD FIT	20-JAN-11
690447	WO	SOMNATH SANTRA	RAD FIT	20-JAN-11
690499	WO	RAM KEWAL DUBEY	RAD FIT	22-JAN-11
684276	WO	ANAND KUMAR GIRI	RAD FIT	24-JAN-11
690473	WO	SHIV SHARAN SHARMA	RAD FIT	24-JAN-11
691976	WO	LOK NATH SINGH YADAV	RAD FIT	28-JAN-11
680875	WO	ASHWANI KUMAR HARITWAL	RAD FIT	30-JAN-11
684290	WO	RAMA KANT	RAD FIT	30-JAN-11
691827	WO	LAKHAN PAL NERWAT	RAD FIT	30-JAN-11
691869	WO	ALOKE KUMAR PANDA	RAD FIT	30-JAN-11
692453	WO	BHRIGU KUMAR MISHRA	RAD FIT	30-JAN-11
640230	WO	SATYA NARAYAN KUMAR	RAD FIT	01-FEB-11
640930	WO	MAHENDER PAL SINGH	RAD FIT	01-FEB-11
685021	WO	SUNIL KUMAR	RAD FIT	01-FEB-11
685140	WO	MUNESHWAR THAKUR	RAD FIT	01-FEB-11
686436	WO	ABHAYA KUMAR SAHOO	RAD FIT	01-FEB-11
690395	WO	SHEO BALAK PRASAD YADAV	RAD FIT	01-FEB-11
690934	WO	PRAMOD VISHWANATH BADGUJAR	RAD FIT	01-FEB-11
705652	WO	MANOJ KUMAR	RAD FIT	01-FEB-11
715278	WO	AJAY KUMAR SRIVASTAVA	RAD FIT	01-FEB-11
715890	WO	DAYA CHAND	RAD FIT	01-FEB-11
685053	WO	ELANGO VAN A C	RAD FIT	03-FEB-11
654691	WO	NARESH KUMAR	RAD FIT	05-FEB-11
690325	WO	SURENDRA SINGH NEGI	RAD FIT	02-MAY-11

640966	WO	RAMACHANDRAN K P	RAD FIT	02-JUN-11
683154	WO	DUTTA JEEVAN KUMAR	RAD FIT	02-JUN-11
684986	WO	CHOUDHURY AJAYA KUMAR PATTNAIK	RAD FIT	02-JUN-11
685456	WO	BHARAT PAL BHATI	RAD FIT	02-JUN-11
686027	WO	NARAYAN MARI HARIKANT	RAD FIT	02-JUN-11
691344	WO	SATYA PAL SINGH	RAD FIT	02-JUN-11
691748	WO	BIRESH KUMAR SINGH	RAD FIT	02-JUN-11
691926	WO	ANIL KUMAR RAWAT	RAD FIT	02-JUN-11
691974	WO	RAJAN KUMAR SRIVASTAVA	RAD FIT	02-JUN-11
692031	WO	PUSHKER KUMAR BHATNAGAR	RAD FIT	02-JUN-11
673843	WO	PRAMOD KUMAR SINGH	RAD FIT	02-JUL-11
674017	WO	MANI LAL PRASAD	RAD FIT	02-JUL-11
674385	WO	PRADEEP KUMAR	RAD FIT	02-JUL-11
674972	WO	AKHILESH KUMAR SINGH	RAD FIT	02-JUL-11
680026	WO	ASHOK KUMAR	RAD FIT	02-JUL-11
680750	WO	SATYAVIR SINGH	RAD FIT	02-JUL-11
682745	WO	JAI CHAND	RAD FIT	02-JUL-11
683310	WO	UMESH CHAND YADAV	RAD FIT	02-JUL-11
683997	WO	SUNIT KUMAR SHARMA	RAD FIT	02-JUL-11
684309	WO	DEVENDRA BAHADUR SINGH	RAD FIT	02-JUL-11
690211	WO	RAJENDRA SINGH	RAD FIT	02-JUL-11
683584	WO	MARAKANDEY SINGH	RAD FIT	02-AUG-11
690297	WO	TARA CHAND SONI	RAD FIT	02-AUG-11
690642	WO	R BALAKRISHNAN	RAD FIT	02-SEP-11
691261	WO	BRAHM PAL	RAD FIT	02-SEP-11
685076	WO	RAVINDRA KUMAR TOMAR	RAD FIT	02-OCT-11
690370	WO	PRAKASH CHANDRA MOHARANA	RAD FIT	02-OCT-11
692454	WO	KAMALESH KUMAR DWIVEDI	RAD FIT	02-OCT-11
653325	WO	VINAY KUMAR SINGH	RDO FIT	01-OCT-15
673411	WO	PARDEEP KUMAR	RDO FIT	01-OCT-15
674242	WO	SUKUMAR BISWAS	RDO FIT	01-OCT-15
674547	WO	VERMA RADHEY SHYAM	RDO FIT	01-OCT-15
674761	WO	RAM MEHAR SHARMA	RDO FIT	01-OCT-15
681690	WO	MADHU SUDAN GHOSH	RDO FIT	01-OCT-15
683655	WO	KALHU RAM YADAV	RDO FIT	01-OCT-15
690539	WO	KAUSHAL KUMAR SINGH	RDO FIT	01-OCT-15
691589	WO	KAUSHAL SINGH	RDO FIT	01-OCT-15
673434	WO	SHATRUNJAI KUMAR TIWARI	RDO FIT	03-OCT-15
682474	WO	SUSHIL KUMAR CHHETRI	RDO FIT	03-OCT-15

680118	WO	UMAR FAROOQUE	RDO FIT	08-OCT-15
681019	WO	MANJIT SINGH	RDO FIT	08-OCT-15
640440	WO	HARISH CHANDRA TIWARI	RDO FIT	02-JAN-16
683364	WO	RAJ KUMAR	RDO FIT	02-JAN-16
684079	WO	DEVENDRA KUMAR SINGH	RDO FIT	02-JAN-16
685071	WO	ARUN KUMAR	RDO FIT	02-JAN-16
691302	WO	SURENDER KUMAR VERMA	RDO FIT	02-JAN-16
692190	WO	NAND KISHOR	RDO FIT	02-JAN-16
715189	WO	RAM DHARI	RDO FIT	02-JAN-16
715394	WO	RAM GOPAL CHOUDHARY	RDO FIT	02-JAN-16
684393	WO	MAHABIR PARSAD JATAYWAL	RDO FIT	04-JAN-16
681387	WO	NHATTYELA MULLAN VINOD	RDO FIT	06-JAN-16
685179	WO	MANOJ KUMAR PAUL	RDO FIT	06-JAN-16
680983	WO	RAM SAGAR PRASAD YADAV	RDO FIT	08-JAN-16
640793	WO	DHANANJAY KISHORE SRIVASTAVA	RDO FIT	02-FEB-16
640939	WO	SATISH KUMAR	RDO FIT	02-FEB-16
680938	WO	RAJENDER KUMAR BHARGAV	RDO FIT	02-FEB-16
682629	WO	DILIP KUMAR MONDAL	RDO FIT	02-FEB-16
683273	WO	VIJAY KUMAR DAHIYA	RDO FIT	02-FEB-16
683538	WO	SURENDRA KUMAR DIXIT	RDO FIT	02-FEB-16
684230	WO	SANJAY KUMAR SAHA	RDO FIT	02-FEB-16
684833	WO	PATIL RAJKUMAR DHANSING	RDO FIT	02-FEB-16
685471	WO	MANOJ KUMAR	RDO FIT	02-FEB-16
690158	WO	RAM PRAKASH TRIPATHI	RDO FIT	02-FEB-16
705765	WO	DHARM SINGH	RDO FIT	02-FEB-16
705780	WO	ROTASH KUMAR	RDO FIT	02-FEB-16
706849	WO	CHANDRA KUMAR JHA	RDO FIT	02-FEB-16
715420	WO	ABHAY KUMAR MISHRA	RDO FIT	02-FEB-16
629943	WO	AJIT KUMAR SRIVASTAVA	RDO FIT	02-MAY-16
640709	WO	ANANDA MOY GHOSH	RDO FIT	02-MAY-16
654812	WO	BIDHAN KUMAR PAUL	RDO FIT	02-MAY-16
683179	WO	SHARMA YOGENDRA KUMAR	RDO FIT	02-MAY-16
685115	WO	RAMESH KUMAR	RDO FIT	02-MAY-16
685496	WO	JAIBHAGWAN SHARMA	RDO FIT	02-MAY-16
690544	WO	SANTOSH KUMAR	RDO FIT	02-MAY-16
690713	WO	RAM NIWAS	RDO FIT	02-MAY-16
691003	WO	SATHEESAN M N	RDO FIT	02-MAY-16
691054	WO	GAWANDALKAR S V	RDO FIT	02-MAY-16
691570	WO	SANJAI KUMAR SHAHI	RDO FIT	02-MAY-16
691732	WO	JOGINDRA PRASAD PRAJAPATI	RDO FIT	02-MAY-16

691788	WO	AMREESH KUMAR	RDO FIT	02-MAY-16
691980	WO	RAJESH KUMAR DIXIT	RDO FIT	02-MAY-16
692139	WO	RAM CHANDRA MAURYA	RDO FIT	02-MAY-16
715761	WO	MD ASAGHAR ALI AZAD	RDO FIT	02-MAY-16
680095	WO	PIJUSH KANTI SAHA	RDO FIT	04-MAY-16
640948	WO	KRISHAN CHANDER	RDO FIT	06-MAY-16
715806	WO	RAJESHWAR PRASAD ROY	RDO FIT	06-MAY-16
685730	WO	ARUN KUMAR SINGH	RDO FIT	02-JUN-16
706134	WO	PREM CHAND SINGH	RDO FIT	02-JUN-16
715524	WO	SATYA PRAKASH	RDO FIT	02-JUN-16
715562	WO	AKHILESH KUMAR SINGH	RDO FIT	02-JUN-16
673431	WO	ABDHESH KUMAR	RDO FIT	01-AUG-16
686163	WO	BAIDYA NATH MONDAL	RDO FIT	01-AUG-16
686280	WO	SAMARJIT DAS	RDO FIT	01-AUG-16
687540	WO	SHYAMA SUNDAR BARIK	RDO FIT	01-AUG-16
687776	WO	PRAVEEN KUMAR TYAGI	RDO FIT	01-AUG-16
715884	WO	LOKENDRA SINGH CHAHAR	RDO FIT	01-AUG-16
691469	WO	SURINDER SINGH BAHRI	RDO FIT	03-AUG-16
706825	WO	MANOJ KUMAR	RDO FIT	03-AUG-16
715073	WO	RATTAN KUMAR CHAUHAN	RDO FIT	03-AUG-16
685463	WO	DILBAG SINGH	RDO TECH	02-OCT-14
685825	WO	DHIRENDRA KUMAR PATEL	RDO TECH	02-OCT-14
718269	WO	JITENDER KUMAR	RDO TECH	02-OCT-14
719882	WO	MRINAL KANTI GHOSH	RDO TECH	02-APR-15
685941	WO	DURGESH MISHRA	RDO TECH	02-JUL-15
695526	WO	SUNIL DUTT	SEW	01-APR-15
730460	WO	SHRI RAM TIWARI	SEW	03-APR-15
696670	WO	MUKESH KUMAR	SEW	02-JAN-16
697085	WO	PRADIP TIWARI	SEW	02-FEB-16
640061	WO	RAMESH KUMAR	TELST RTO	02-JUL-15
640089	WO	RAJESH KUMAR VERMA	TELST RTO	02-JUL-15
640136	WO	SATYA BIR SINGH	TELST RTO	02-JUL-15
640765	WO	SHYAM KISHORE SINGH	TELST RTO	02-JUL-15
640083	WO	SUDHESH KUMAR LAL DAS	TELST RTO	02-AUG-15
715709	WO	N MUKUNDA RAJ	TELST RTO	02-AUG-15
715145	WO	RAJANI KANT OJHA	TELST RTO	02-SEP-15
640891	WO	SAMBHU SARKAR	TELST RTO	08-SEP-15
640011	WO	MOHAMMAD AKRAM TANWER	TELST RTO	03-OCT-15
640124	WO	NABAB KHAN	TELST RTO	03-OCT-15
640202	WO	ASHOK KUMAR	TELST RTO	03-OCT-15

640215	WO	PARAMATHMA SIRVESWARAN	TELST RTO	03-OCT-15
640102	WO	DILBAG SINGH DAHIYA	TELST RTO	02-NOV-15
640146	WO	BHAWANI SHANKER SHARMA	TELST RTO	02-NOV-15
640760	WO	RAJVIR SINGH	TELST RTO	02-DEC-15
715675	WO	DEBABRATA MISHRA	TELST RTO	02-DEC-15
687833	WO	P KRISHNA KUMAR	TELST RTO	02-JAN-16
715698	WO	RADHA KRISHNA THAKUR	TELST RTO	02-JAN-16
717361	WO	SUBHASH KUMAR	TELST RTO	02-FEB-16
719737	WO	ATENDRA KUMAR TOMER	TELST RTO	02-FEB-16
716778	WO	HARENDRA SINGH	TELST RTO	03-MAR-16
718636	WO	SHAJEE KOROTH NAIR	TELST RTO	03-MAR-16
718656	WO	VIKAS CHOUDHARY	TELST RTO	03-MAR-16
719489	WO	VIRENDRA KUMAR AUDICHYA	TELST RTO	03-MAR-16
745743	WO	HARDIP SINGH	TELST RTO	03-MAR-16
640301	WO	PURUSHOTTAM NARAYAN SINGH	TELST RTO	02-APR-16
687981	WO	RAMESH KUMAR SINGH	TELST RTO	02-MAY-16
639008	WO	DURGA PRASAD PATRO	TELST RTO	01-JUL-16
696105	WO	DINESH KUMAR YADAV	WPN FIT	02-JUL-15
696247	WO	NAVIN KUMAR	WPN FIT	02-OCT-15
696574	WO	VIKRAM SINGH	WPN FIT	02-NOV-15
696940	WO	ASHA RAM	WPN FIT	02-DEC-15
730523	WO	APURBA MUKHERJEE	WPN FIT	04-DEC-15
696559	WO	AMAR PAL	WPN FIT	03-JAN-16
696776	WO	RAM NARESH DUBEY	WPN FIT	03-JAN-16
696850	WO	PANKAJ PRASOON	WPN FIT	03-JAN-16
696976	WO	ANIL KUMAR SINGH	WPN FIT	03-JAN-16
697316	WO	ASHOK KUMAR GUPTA	WPN FIT	03-JAN-16
696147	WO	KULTAR CHAND RANA	WPN FIT	03-FEB-16
696544	WO	SHABIR ALI	WPN FIT	03-FEB-16
696589	WO	ASHOK KUMAR YADAW	WPN FIT	03-FEB-16
696608	WO	PRABHAKAR MISHRA	WPN FIT	03-FEB-16
696797	WO	SHRI KANT TRIPATI	WPN FIT	03-FEB-16
696977	WO	RAMESH KUMAR PANDEY	WPN FIT	03-FEB-16
697356	WO	UDAY KUMAR SINGH	WPN FIT	03-FEB-16
698023	WO	MUKUNDAN KIZHAKKE VEETIL	WPN FIT	03-FEB-16
697210	WO	NARENDRA KUMAR SINGH	WPN FIT	03-MAR-16
697307	WO	BRAHMA PRASAD	WPN FIT	03-MAR-16
697777	WO	HARISH BHARTI	WPN FIT	03-MAR-16
696561	WO	VIJENDRA SINGH	WPN FIT	03-APR-16
697065	WO	SANTOSH KUMAR PANDEY	WPN FIT	03-APR-16

697362	WO	YAQUB KHAN	WPN FIT	03-APR-16
697782	WO	SUBHASH CHANDRA PANDIT	WPN FIT	03-APR-16
697847	WO	MADHAB GHOSH	WPN FIT	03-APR-16
698128	WO	SANJEEV KUMAR THAKUR	WPN FIT	03-APR-16
698402	WO	DEVENDRA DARSHAN RAWAT	WPN FIT	03-APR-16
699565	WO	PRAMOD SHARMA	WPN FIT	03-APR-16
729163	WO	ANIL KUMAR SENGAR	WPN FIT	03-APR-16
730328	WO	PARMA NAND SEMWAL	WPN FIT	03-MAY-16
765557	WO	CHAMAN LAL	WPN FIT	03-MAY-16
765883	WO	BAIJ NATH SINGH THAKUR	WPN FIT	03-MAY-16
695668	WO	OM PRAKASH SONI	WPN FIT	03-JUN-16
729263	WO	K PRAVEEN	WPN FIT	03-JUN-16
732073	WO	BIDYADHAR PUHAN	WPN FIT	03-JUN-16
732383	WO	VIRENDER KUMAR	WPN FIT	03-JUN-16
765528	WO	UMA SHANKAR TIWARI	WPN FIT	03-JUN-16
697820	WO	SHAILESH KUMAR DWIVEDI	WS FIT(B)	02-JAN-16
697817	WO	RAVI SHANKER SINGH	WS FIT(B)	02-MAR-16
697866	WO	SUSHOVAN GHOSH	WS FIT(B)	03-APR-16
733580	WO	RAJESH KUMAR CHAN DOLIA	WS FIT(B)	03-JUN-16
665238	WO	GANDHI RAM KHATANIAR	WS FIT(C)	02-JUL-15
698115	WO	RAMESH KUMAR MALIK	WS FIT(C)	02-JUL-15
697938	WO	NAGESH KUMAR MISRA	WS FIT(C)	01-JAN-16
697861	WO	BIKASH CHANDRA DEY	WS FIT(C)	01-FEB-16
698061	WO	NANDIYIL PARAMESWARAN SYAM	WS FIT(C)	01-FEB-16
733124	WO	ARPAN BASU	WS FIT(C)	03-APR-16
733603	WO	PAWAN KUMAR YADAV	WS FIT(C)	05-APR-16
696916	WO	ARBIND KUMAR TRIPATHI	WS FIT(M)	01-AUG-15
699788	WO	ASHOK KUMAR TIWARI	WS FIT(M)	01-AUG-15
678960	WO	SATISH KUMAR	WS FIT(M)	02-NOV-15
679813	WO	SATYENDRA NARAI SINGH	WS FIT(M)	01-DEC-15

U K TIWARI
Under Secy

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2017

UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2017

www.dop.nic.in

DOPGIPF— [PART I—SEC. 4]

LAZAR
SAGAYA
RAJ

Digitally signed
by LAZAR
SAGAYA RAJ
Date: 2017.06.24
11:41:59 +05'30'